

CCTNS

CRIME AND CRIMINAL TRACKING NETWORK & SYSTEMS

REGISTRATION MANUAL

Core Application Software (CAS) Version 4.5

(Updated up to March 2019)

DELHI POLICE



e-GOVERNANCE:

MISSION MODE PROJECT (MMP)

Table of Contents

Table of Contents	3
1.CCTNS.....	6
1.1. CCTNS Introduction	6
1.2. CCTNS का उद्देश्य (Objectives of CCTNS)	6
1.3. याद रखने हेतु आवश्यक बिन्दु (Points to Remember).....	6
1.4. LOGIN की प्रक्रिया (How to Login)	7
2. रोजनामचा (General Diary).....	9
2.1. Add General Diary Details	9
2.2. Search & View General Diary Details	12
3. शिकायत (Complaint)	13
3.1. Add New Complaint Details	13
3.2. View Registration of Complaint	19
3.3. Linking & De-linking Complaints.....	20
3.4. Transfer Complaint.....	22
3.5. Submission of Complaint Enquiry Report.....	25
3.6. Approve/Reject Complaint Enquiry Report.....	26
4. Registration.....	28
4.1. First Information Report(IIF-1).....	28
4.1.1. Search & View Details of FIR.....	38
4.1.2. FIR Module -> Link an FIR.....	39
4.1.3. FIR Module -> Approval for linking FIR.....	41
4.2. Zero FIR	42
4.2.1. Registration of Zero FIR	42
4.3. Non Cognizable Report (NCR).....	44
4.3.1. Registration of NCR.....	45
4.3.2. NCR -> Search NCR Details.....	47
4.3.3. NCR -> Assigning of Investigating Officer for NCR	47
4.4. Medico Legal Case (MLC).....	49
4.4.1. Registration of Medico Legal Case.....	50
4.4.2. View Registered Medico Legal Case	53

4.4.3. Add Medico Legal Case Report.....	54
4.5. Missing Person	56
4.5.1. Registration of Missing Person :	57
4.5.2. Search and View Missing Person Details	60
4.5.3. Add Missing Person Enquiry Details	61
4.5.4. Review & Action Taken on Enquiry Report by SHO of Missing Person.....	64
4.6. Lost Property.....	65
4.6.1. Registration of Lost property.....	65
4.6.2. Enquiry Report on Lost Property	67
4.6.3. Search & View Lost Property Details	69
4.7. Missing Cattle.....	70
4.7.1. Registration of Missing Cattle	70
4.7.2. Search and View Missing Cattle Details	71
4.7.3. Add Enquiry Details (Missing Cattle).....	72
4.8. Unidentified Dead Body/Unnatural Death	74
4.8.1. Registration of Unidentified Dead Body/Unnatural Death	74
4.8.2. UIDB-> Search and View Unidentified Dead Body/Unnatural Death	79
4.8.3. UIDB -> Add Punchnama Details	80
4.8.4. UIDB -> Prepare Post Mortem Request	82
4.8.5. UIDB -> Add Post Mortem Report.....	84
4.8.6. Change Enquiry Officer	86
4.9. Preventive Action.....	87
4.9.1. Register Preventive Action/Istagasa/Kalandara.....	87
4.9.2. View Details of Preventive Action.....	91
4.9.3. Externment Proposal Details Submitted by SHO.....	92
4.9.4. Submission of Externment proposal by SDPO/ACP.....	95
4.9.5. Approval/Rejection of Externment Proposal by DCP/SP	97
4.9.6. Court Proceeding (for Externment)	98
4.10. Un-Claimed/Abandoned Property	100
4.10.1. Registration of Unclaimed/Abandoned Property	100
4.10.2. Search and View Unclaimed / Abandoned Property	103

4.11. Stranger Roll	104
4.11.1. Preparation of Stranger Roll.....	105
4.11.2. Preparation of Stranger Roll -> Assigning of Enquiry Officer	106
4.11.3. Preparation of Stranger Roll - > Submission of Enquiry Report.....	107
4.11.4. Preparation of Stranger Roll -> Remarks by SHO	109
4.11.5. Review and Save Details of Stranger Roll	110
4.12. Fire Incident.....	112
4.12.1. Registration of Fire Incident	112
4.12.2. Assigning Enquiry Officer by SHO.....	114
4.12.3. Fire Incident -> Add Enquiry Report.....	116
4.12.4. Review of Enquiry Report.....	117
4.13. Un-identified Found Person	118
4.13.1. Registration of Un-identified Found Person.....	118
4.13.2. Search and View Un-identified Person Details.....	120
4.13.3. Add Enquiry details of Un-Identified Found Person	121
4.13.4. Change Enquiry Officer of Unidentified Person Found	123

1.CCTNS

1.1. CCTNS Introduction

Crime and Criminal Tracking Network & System (CCTNS) एक Mission Mode Project है, जो केन्द्र सरकार के National e-Governance Project का हिस्सा है। इसकी शुरुआत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के अन्तर्गत की गयी थी। ये राष्ट्रीय स्तर का project है जिसमें सभी राज्य और Union Territories शामिल हैं। NCRB इस project के लिए Central Nodal Agency है जो गृहमंत्रालय का प्रतिनिधित्व करती है। ये अपराधियों और अपराध की जांच के लिए अन्वेषण अधिकारियों (IOs) को उपकरण और सूचना प्रदान करेगा। इस project के अंतर्गत दिल्ली में सारे Police Stations, Sub Divisions, District Offices और Units जैसे Crime, Railways & Metro, EOW, IGI Airport, Special Cell, SPUW&C को computerize किया जाएगा। Police headquarters और अन्य senior offices को भी computerize किया जाएगा। कुछ बाहरी agencies जैसे कि Tihar Jail, District Courts, FSL और Finger Print Bureau को भी CCTNS project के माध्यम से जोड़ा जाएगा। CCTNS project की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह वास्तविक समय के आधार पर जानकारी साझा करने की अनुमति देगा जो वेब आधारित प्रणाली है। CCTNS intelligent प्रणाली है जो पुलिस विभाग को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में मदद करेगा। CCTNS system में नागरिक सेवाओं का भी प्रावधान होगा जिसमें एक नागरिक शिकायते दर्ज कर सकता है, एवं इसमें tenant verification, servant verification, employee verification, Character Verification आदि की भी सुविधा रहेगी। इसके अलावा नागरिक FIR, List of Arrested Persons, Complaint Status इत्यादि भी online देख सकेंगे।

इस training manual की सहायता से FIR, NCR, Lost Property, Missing Person, MLC, GD, Preventive Action, UIDB, UIFP, Summon Warrant, Stranger Roll इत्यादि का registration CAS application में करना सीखा जा सकता है। प्रशिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि इस manual का उपयोग करें और सुधार के सुझाव दें।

1.2. CCTNS का उद्देश्य (Objectives of CCTNS)

- 1.2.1. पुलिस के कामकाज को नागरिक के अनुकूल बनाना और पुलिस थानों के कामकाज को स्वचालित एवं अधिक पारदर्शी बनाना।
- 1.2.2. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार लाना।
- 1.2.3. Delhi police के जांच अधिकारियों को अपराधियों की पहचान के लिए उपकरण प्रदान करना।
- 1.2.4. कानून और व्यवस्था, यातायात प्रबंधन आदि में पुलिस के कामकाज में सुधार लाना।
- 1.2.5. पुलिस थानों, जिलों, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और अन्य पुलिस एजेंसियों के बीच सूचना का आदान- प्रदान करना।
- 1.2.6. पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सहायता करना।
- 1.2.7. Cases की प्रगति पर नज़र रखना। उन cases की प्रगति पर नज़र रखना जो कोर्ट में चल रहे हों।
- 1.2.8. निरर्थक कार्य कम करना।

1.3. याद रखने हेतु आवश्यक बिन्दु (Points to Remember)

- 1.3.1. CCTNS Software चलाने के लिए Username and Password जरूरी है।

- 1.3.2. Application में जिस किसी भी फील्ड पर Red Star (***) अंकित हो उस फील्ड को भरना आवश्यक है, अन्यथा Form Submit नहीं होगा।
- 1.3.3. किसी भी Form को Submit करने से पहले उस screen के सभी tabs को भर लें।
- 1.3.4. Application को Close करने से पहले "Logout" करना जरूरी है।

1.4. LOGIN की प्रक्रिया (How to Login)

- a. Computer को Start करें।
- b. Desktop पर मौजूद **Firefox Web Browser** के icon पर Click करें।



Firefox web browser के Address bar (जो screen में सबसे ऊपर होता है) में click करके नीचे दिये गए URL को Type करें और Keyboard से Enter button दबाएँगे तो नीचे वाली window open होगी उस पर इस URL को Type करें।


URL :- (cas.cctns.gov.in:8080/cctns)



c. अब नीचे दी गई window खुल जाएगी। इस window में आप CCTNS के User Name और Password डालें।



➤ अगर आपका User Name और Password सही है तो CCTNS का Home Page आपके सामने खुलकर आ जाएगा।



CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome: Rajbir SINGH
Date: 22/11/2018
Login Time: 12:26

State: DELHI
District: SOUTH-EAST
Police Station: NEW FRIENDS COLONY

Calendar: Nov 2018

Alerts & Reminders: Show Alerts & Reminders Yes No

Roles: -----Select-----

Note: - अगर आप Application को Close करना चाहते हैं तो screen में सबसे ऊपर दायीं तरफ के कोने में स्थित ताले के icon पर Click करके पहले logout करें और तब Window को Close करें।

2. रोजनामचा (General Diary)

2.1. Add General Diary Details


- General Diary/Daily Diary (रोजनामचा) लिखने के लिए General Diary के ICON पर Click करें वहाँ पर तीन option दिखेंगे :-
 - a. Add General Diary Detail
 - b. Search & View General Diary Details
 - c. Search & Modify GD Details

The screenshot shows the CCTNS interface with the General Diary menu open. The menu options are: Add General Diary Detail, Search & View General Diary Details, and Search & Modify GD Details. The interface also shows the Calendar, Alerts & Reminders, and various service icons like Registration, Investigation, Prosecution, etc.

- नीचे वाली window मे नई GD बनाने के लिए **Add General Diary Details** पर click करें।



Add General Diary पर Click करते ही एक नई window खुलकर सामने आ जाएगी। आपको जिस तरह की GD करनी है तो General Diary Type पर Click करके select करेंगे।



- Add General Diary पर Click करते ही एक नई window खुलकर सामने आ जाएगी, जिसमें General Diary/Daily Diary (रोज़नामाचा) संबन्धित information भरेंगे।

यदि हम किसी मुकदमें की कायमी लिखते हैं तो General Diary Type में Criminal Case select करेंगे। Criminal Case select करने पर Act & Section का option आ जायेगा जिसमें आप तहरीर के मुताबिक Act & Section Select करने के बाद Add पर click करेंगे तो Act & Section कायमी में Add हो जाएंगे।

कोई document इत्यादि attach करना है तो browse button पर click करें ।

Sl. No.	Acts	Sections
1	IPC 1860	186
2	IPC 1860	379

Sl. No.	File name	File type	File sub type
1	Browse...	No file selected.	Select

- यदि GD के साथ कोई document इत्यादि attach करना है तो browse button पर click करके computer में पहले से saved file को attach कर सकते हैं ।
- अब General Diary Brief में GD की description type करें ।
- GD को save या submit करने के लिए यहाँ पर Click करें ।
- अगर आपको type की हुई GD नहीं चाहिए उस case में **Clear button** पर Click करें तब सभी entries delete हो जाएगी और आप नई entries दोबारा भर सकेंगे।

- **Close** button पर Click करने पर **current page** बंद हो जाएगा और एक message screen पर आएगा । अगर आप Close करना चाहते हैं तो **Yes** दबाएँ अन्यथा **No** पर click करें ।

Do you want to close ?

2.2. Search & View General Diary Details

The screenshot shows the CCTNS dashboard with a navigation menu. The 'General Diary' icon is highlighted with a red box. A tooltip is visible over it, listing three actions: 'Add General Diary Detail', 'Search & View General Diary Details', and 'Search & Modify GD Details'. Other dashboard elements include a calendar for November 2018, alerts and reminders, and various service icons like Registration, Investigation, Prosecution, etc.

Search & View GD Details पर Click करने पर एक नई window खुल जाएगी ।

The screenshot shows the 'Search & View General Diary Details' window. It has search filters for General Diary Number, Date Range From/To, Entry for (Officer), and Police Station. Below the filters is a table of 'Most Recent General Diary Entries'.

G.D No	General Diary Type	Date / Time	Entry for (Officer)	Subject	General Diary Brief
003	Deployment/Mamuri	22/11/2018 08:22	SI (Sub-Inspector)/Rajbir SINGH/28824246	मानुषी Duty Officer	इस समय पर दर्ज है कि मे म सभाग हवा का बल्ले Duty Officer मानु होज ई व पूर्व Duty officer को करीप...
002	PCR Call	22/11/2018 07:25	SI (Sub-Inspector)/Vedvir Sharma/28800877	आप्य इसत PCR Call व इयलगी	इस समय दर्ज है कि CRoom SED ने बळीये फोन इसल दी है कि हेले केनेले हस्पिटल से इसल किले है कि 97...
001	PCR Call	22/11/2018 05:05	SI (Sub-Inspector)/Vedvir Sharma/28800877	आप्य इसत PCR Call व इयलगी	इस समय दर्ज है कि J54 Ogr. ने बहल्लि Do Room अकर एप QST वेग की सिल्ला मन्तू लेल है Darya Hotel NFC ...

- इस स्क्रीन के माध्यम से आप निम्नलिखित तरीकों में से किसी भी एक माध्यम से GD search कर सकते हैं ।
- **General Diary Number:** -इसके जरिये आप GD No. से GD Search कर सकते हैं । सामने वाले बॉक्स में GD No. लिखे और फिर search बटन पर Click करें ।

- **General Diary Type:** -इस माध्यम से आप GD Type के जरिये GD search कर सकते हैं। इसके लिए GD Type select करें और Search बटन पर Click करें। जैसे – Missing Person, Criminal Case etc.
- **Date Range:-** इसके माध्यम से आप दो dates के बीच की सारी GD Search कर सकते हैं। सबसे पहले Date Range From के सामने वाले बॉक्स के अंत में मौजूद कैलेंडर के icon पर Click करें और पहली Date select करें फिर Date Range To के सामने वाले कैलेंडर के icon से अंतिम Date Select करें और अंत में Search बटन पर Click करें।
- **Entry for (Officer) :-** इस option के जरिये आप किसी individual officer के लिए की गई GD को search कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले Officer को select करें और search बटन पर Click करें।
- **Subject :-** इसके जरिये आप GD के Subject से GD search कर सकते हैं। बॉक्स में GD का subject लिखें और फिर Search बटन पर Click करें।
- **Note :-**General Diary के contents देखने के लिए पहले GD को search करें फिर संबंधित GD के GD No पर Click करें। Click करते ही GD के सारे contents दिखाई देंगे।

3. शिकायत (Complaint)

Complaint module में complaint से संबंधित details की entries की जाती है।

3.1. Add New Complaint Details

The screenshot displays the CCTNS dashboard interface. At the top, the CCTNS logo is on the left, and user details (Welcome Savita Yadav, Date 12/11/2018, Login Time 14:07) and location information (State DELHI, District NEW DELHI, Police Station CONNAUGHT PLACE) are on the right. A navigation menu on the left includes icons for General Diary, Registration, Databank, Registers, Malkhana Dashboard, Complaint, Investigation, Reports, Legal Library, and Help / FAQs. The 'Complaint' icon is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, listing actions such as 'Add New Complaint Detail', 'View Registration of Complaint', 'Linking & Delinking Complaints', 'Transfer Complaint', 'Assign/Re-assign Officer for a Complaint', 'Submission of Complaint Enquiry Report', and 'Approve / Reject Complaint Enquiry Report'. The top right of the dashboard also features a calendar for November 2018 and an Alerts & Reminders section with a 'Show Alerts & Reminders' button and radio buttons for 'Yes' and 'No'.

- Add New Complaint Details पर Click करते ही एक नई screen खुलेगी जिसमें Complaint से संबंधित information भरेंगे ।
- Complaint दर्ज करने के लिए 4 Tab दिए गए हैं - Complainant, Accused Details, Incident और Complaint Details. पहले आप सभी Tabs को एक-एक कर भरेंगे ।

(1) **Complainant**-> इस Tab में आप Complainant की information type करेंगे ।

a) **Complaint Module -> Personal**:- इस tab में आप Complainant की Personal Information लिखें ।

The screenshot shows the CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) interface. The user is logged in as Rajbir SINGH on 23/11/2018 at 12:32. The location is Delhi, South-East, New Friends Colony. The user is in the 'Complaint' module, specifically on the 'Register a new complaint' page. The 'Personal Information' tab is selected, showing fields for UID, First Name, Middle Name, Last Name, Nature of Complaint, Source of Complaint, Email ID, Relation Type, Relative Name, and Category. A text box is overlaid on the form with the text: 'इस form में शिकायतकर्ता की Personal information भरी जाएगी ।' (This form will be filled with the complainant's personal information.)

b) **Complaint Module -> Address** : - इसमें आप Complainant के Address की detail टाइप करें ।

The screenshot shows the CCTNS interface with the 'Address' tab selected. The form is titled 'Register a new complaint'. The 'Address' tab is active, showing fields for Permanent Address (House No., Street Name, Colony / Locality / Area, Village / Town / City, Tehsil / Block / Mandal) and Present Address (Same as Permanent, Yes/No). There are also dropdown menus for Country (INDIA), State (DELHI), District (CENTRAL), and Police Station (KAMLA MARKET), along with a Pincode field. A 'Clear' button is visible at the bottom right.

यदि शिकायतकर्ता का Present और permanent address एक ही हो तो **Yes** पर Click करें।

अगर अलग-अलग हो तो **No** पर Click करके Permanent address का अलग से ऑप्शन खुलकर आएगा उसमें पूरा address type करें।

c) **Complaint Module -> Identification:** - Complainant की Identity से संबंधित Information इस Tab में type करे।

The screenshot shows the 'Register a new complaint' form with the 'Identification' tab selected. The form includes fields for Nationality (set to INDIA), Identification Type (a dropdown menu), and Identification Number (with an 'Add' button). Below these fields is a table with columns: S.No., Identification Type, Identification Number, Passport Issue Place, Passport Issue Date, and Delete. At the bottom right, there are 'Submit' and 'Close' buttons.

Complaint Module -> Accused Details -> इस Tab में आप **Accused Details** की information type करेंगे **Accused Details** Person की details “Add New” पर Click करे।

The screenshot shows the 'Register a new complaint' form with the 'Accused Detail' tab selected. It features a table with columns: S.No., Name of Accused, Address, Edit, and Delete. At the bottom right, there are 'Add New' and 'Add From Existing' buttons.

Complaint Module -> Accused Details की Personal Information details type करे।

The screenshot shows the 'Register a new complaint' form with the 'Accused Information' tab selected. The 'Personal Information' sub-tab is active, showing fields for NPR, UID, First Name, Middle Name, Last Name, Category, Relation Type, Relative Name, Mobile Number, and Landline Number. There is also an 'Age Panel' with fields for Date of Birth and Age (Year / Month). A text box overlay states: 'इस form में Accused की Personal Information type करेंगे। उसके बाद save button पर click करेंगे।'. At the bottom right, there are 'Save' and 'Close' buttons.

Register a new complaint * Mandatory Fields

Complainant Detail **Accused Detail** Incident Detail Complaint Detail

S.No.	Name of Accused	Address	Edit	Delete

Add New **Add From Existing**

Register a New Complaint मे अगर Accused किसी भी FIR में पहले से अरेस्ट हो रखा है तो Add from existing पर क्लिक करें उसके बाद Accused को Search करने के बाद उसे select करके नीचे दिया हुए Save बटन पर क्लिक करेंगे।

Accused Known

Select FIR NCR No

FIR/NCR No.

Date

First Name

Relation Type

Relative Name

Search

Most Recent FIR

S.No.		Accused Name	Accused Address	FIR Number/NCR Number
1	<input type="checkbox"/>	rahul		0099/2018
2	<input type="checkbox"/>	rajkumar		0088/2018
3	<input type="checkbox"/>	RAMESH KUMAR		0107/2018
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Ritu Budania	q-3/1 police colony andrews ganj delhi 110049 110049 INDIA DELHI SOUTH HAUZ KHAS	0067/2018
5	<input type="checkbox"/>	RAKESH Kumar		0067/2018

1 2 » Total Pages: 3 Displaying records From 1 To 5 of 11 Records per page 5

Save **Close** **Clear**

Save करने के बाद Saved Successfully की Window आ जाएगी।

Saved successfully

Accused Known

Select FIR NCR No

Save करने के बाद accused की विवरण नीचे दी हुई windows में दिखा देगा।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Binda Pur DO State DELHI
Date 22/11/2018 District DWARKA
Login Time 15:11 Police Station BINDA PUR

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Complaint » Register a new complaint

Register a new complaint * Mandatory Fields

Complainant Detail **Accused Detail** Incident Detail Complaint Detail

S.No.	Name of Accused	Address	Edit	Delete
1	RituBudania	q-3/1 police colony andrews ganj delhi HAUZ KHAS SOUTH DELHI INDIA 110049		

Add New **Add From Existing**

- Accused Person के Address की details type करे यदि Suspect का Present और permanent address एक ही हो तो Yes पर Click करें अगर अलग-अलग हो तो No पर Click करके Permanent address का अलग से ऑप्शन खुलकर आएगा उसमे पूरा address type करें।

Complaint -> Incident-> Incident/place of occurrence (घटना) से संबंधित information इस screen में Type करें।

Register a new complaint

Complainant Detail | Accused Detail | **Incident Detail** | Complaint Detail

Place of Incident* Type of Incident

Is Date / Time of Incident Known? * Yes No

Upload Document(s)	S.No.	File Name	File type	File sub type	Description	Delete
	1	Browse... No file selected.	-----Select-----	-----Select-----	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>

इस page पर अगर incident detail का कोई document upload करना हो तो Browse option पर click करके document को upload करेंगे।

Submit Close

Complaint Module -> Complaint Detail-> Complaint की Description इस tab में Type करें।

Register a new complaint

Complainant Detail | Accused Detail | Incident Detail | **Complaint Detail**

Date of Complaint 12/11/2018 Mode of Receipt* In person

Complaint Description*

सेवा मे थाना प्रभारी कनाट प्लेस नई दिल्ली निवेदन इस प्रकार है कि ऋतु बुदानिया ने मेरे साथ झगडा किया और मुझे शारीरिक चोट पहुंचाई है अतः आपसे अनुरोध है कि ऋतु बुदानिया के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। आपकी अति कपा होगी मैं सपना घर का पता 12 A लक्ष्मी नगर दिल्ली।


Upload Document	File Name	File type	File sub type	Description
	Browse... No file selected.	COMPLAINT	COMPLAINT_CONTENTS	<input type="text"/>

Maximum character input limit : 8000

Submit Close

अगर complaint से संबंधित कोई document upload करना है तो सबसे पहले आप उसे Scan करेंगे Scan Document 200 KB का होना चाहिए और Computer में save करेंगे।

किसी भी Document को upload करना हो तो आप “Browse” button पर Click करें Click करते ही एक नई window खुलेगी ।



अब जिस document को upload करना है उसे Select करें और “Open”button पर Click करें ।

Upload Document(s)	S No.	File Name	File type	File sub type	Description	Delete
(Maximum file size limit-200 kb)	1	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/>	-----Select-----	-----Select-----	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>

- अब आप File Type के combo box से file की Type और Subtype Select करें और Description में File की Description type करें । अगर आप और documents upload करना चाहते है तो “Add” Button पर Click करें ।
- इस तरह जब सारे Tab की Information आप fill कर देंगे तब last में record को Save करनेके लिए “Submit” Button पर Click करेंगे Submit पर Click करते ही Complaint Save हो जाएगी और Complaint No. Automatically generate हो जाएगा ।

3.2. View Registration of Complaint

The screenshot shows the CCTNS dashboard. At the top, there is a header with the CCTNS logo, user information (Welcome Savita Yadav, Date 12/11/2018, Login Time 14:07), and state/district information (State DELHI, District NEW DELHI, Police Station CONNAUGHT PLACE). The main menu includes options like General Diary, Registration, Databank, Registers, Complaint, Investigation, Reports, Legal Library, Search & Query, and Help / FAQs. The 'Complaint' menu is expanded, showing options such as Add New Complaint Detail, View Registration of Complaint, Linking & Delinking Complaints, Transfer Complaint, Assign/Re-assign Officer for a Complaint, Submission of Complaint Enquiry Report, and Approve / Reject Complaint Enquiry Report. A calendar and alerts/reminders section are also visible.

- View Registration of Complaint के माध्यम से आप पहले से ही Register की गई Complaint को Search करके देख सकते हैं ।

The screenshot shows the 'View Complaint' page. It features a navigation bar with options like Home, General Diary, Complaint, Citizen Services, Registration, Investigation, Prosecution, Reports, DataBank Services, Registers, and Search & Query. Below the navigation bar, there are search filters for Complaint No., Complainant Name, Office Type, Office Name, Identification Number, Identification Type, and Complainant - Date of Birth. A 'Search' button is present. Below the filters, a table displays a list of complaints.

S.No.	Complaint No.	Complainant Name	Complaint Date	Status	Police Station	Office Name
1	00081650111800726	Jaspal Singh Sawhney	10/11/2018	Enquiry Officer Assigned	CONNAUGHT PLACE	
2	00081650111800725	Praduman Singh Deo	10/11/2018	Registered	CONNAUGHT PLACE	
3	00081650111800724	K R Rama Moorthy	10/11/2018	Registered	CONNAUGHT PLACE	
4	00081650111800723	K R Rama Moorthy	10/11/2018	Registered	CONNAUGHT PLACE	
5	00081650111800722	Gajraj Singh	10/11/2018	Enquiry Officer Assigned	CONNAUGHT PLACE	

- इस screen से आप 5 तरह से Complaint को search कर सकते हैं –Complaint No, Complainant Name, Identification type or Identification Number, Office Type, Office Name और Date Of Birth इनमें से किसी भी एक field में information भरकर Search button पर Click करके complaint को search कर सकते है और सम्बन्धित complaint number पर click करके complaint के contents देखे जा सकते है ।

3.3. Linking & De-linking Complaints

- इस option का use दो या दो से अधिक complaint को Link या De-link करने के लिए करते हैं।

- अगर दो Complaint को आपस में Link करना है तो Link Complaint और De-link करना है तो De-link Complaint के आगे वाले Radio Button (गोल बॉक्स Option) को select करें Complaint Link करने के लिए नीचे दिए हुए रेडियो बटन पर क्लिक करें।

Link / Delink Complaint *Mandatory Field

What do you want? Link Complaint Delink Complaint

Selection Criteria (for 1st Complaint)

Date of Complaint* Mode of Receipt

Date of Occurrence Complaint No.

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Binda Pur DO
Date 22/11/2018
Login Time 16:20

State DELHI
District DWARKA
Police Station BINDA PUR

Home » Complain » Linking and Delinking Com complaints

Link / Delink Complaint *Mandatory Field

What do you want ? Link Complaint Delink Complaint

Selection Criteria (for 1st Complaint)

Date of Complaint * 01/02/2018 22/11/2018
Date of Occurrence
Mode of Receipt -----Select-----
Complaint No.

S.No.	Select	Date	Complaint No.	Complainant Name	Complaint Brief
1	<input type="radio"/>	11/10/2018			
2	<input checked="" type="radio"/>	10/10/2018	00081710111500059	rahul	मेवा मे थाना प्रभारी कनाट प्लेस नई दिल्ली निवेदन इस प्रकार है कि ऋतु बुदानिया ने मेरे साथ झगडा किया और मुझे शारीरिक चोट पहुंचाई है अतः आपसे अनुरोध है कि ऋतु बुदानिया के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। आपकी अति कृपा होगी मे सपना घर का पता 12 A
3	<input type="radio"/>	10/10/2018	00081760011800993	ravindar kumar sharama	

1 Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 3 of 3 Records per page 5

Selection Criteria (for Other Complaint)

Date of Complaint * Mode of Receipt Select

Complaint को Select करें।

- **Delink Complaint :-** अगर आपको किसी link किए हुए Complaint को De-link करना है तो De-link के option को select करें और Complaint को search करें।

Link/Delink Complaint *Mandatory Field

What do you want ? Link Complaint Delink Complaint

Selection Criteria (for 1st Complaint)

Date of Complaint Received * 01/10/2015 30/10/2015
Date of Occurrence
Mode of Receipt -----Select-----
Complaint No. of 1st Complaint

Complaint Brief

S.No.	Select	Date	Complaint No.	Complainant Name	Complaint Brief
1	<input checked="" type="radio"/>	12/10/2015	00081710111500059	rahul	मेवा मे थाना प्रभारी कनाट प्लेस नई दिल्ली निवेदन इस प्रकार है कि ऋतु बुदानिया ने मेरे साथ झगडा किया और मुझे शारीरिक चोट पहुंचाई है अतः आपसे
2	<input type="radio"/>	06/10/2015	00081710111500054	sghr gzsuo	

1 Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 2 of 2 Records per page 5

Complaint को Select करें।

Search करने के बाद जिस complaint को आपको De-link करना है उसे Select करें जैसे ही आप Complaint को select करते हैं, उसके साथ link की हुई सारी Complaint नीचे दिखाई देगी। अब जिस complaint को De-link करना है उसे select करें और **“Delink”** button पर click करें।

Link / Delink Complaint *Mandatory Field

What do you want ? Link Complaint Delink Complaint

Selection Criteria (for 1st Complaint)

Date of Complaint * 01/02/2018 22/11/2018
Date of Occurrence
Mode of Receipt -----Select-----
Complaint No.

3.4. Transfer Complaint

The screenshot shows the CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) dashboard. The user is logged in as Savita Yadav on 12/11/2018 at 14:07. The user's location is Delhi, New Delhi, Connaught Place. The dashboard includes a navigation menu on the left with options like General Diary, Registration, Databank, Registers, and Malkhana Dashboard. The main menu has a 'Complaint' icon, which is highlighted with a red box. A dropdown menu is open for 'Complaint', showing options: Add New Complaint Detail, View Registration of Complaint, Linking & Delinking Complaints, Transfer Complaint (highlighted with a red box), Assign/Re-assign Officer for a Complaint, Submission of Complaint Enquiry Report, and Approve / Reject Complaint Enquiry Report. A text box at the bottom of the screenshot explains: 'इस option का प्रयोग complaint को अन्य किसी Police Station में या Concerned office में transfer करने के लिए किया जाता है।'

Complaint ->Transfer Complaint पर Click करने पर नीचे दी गई Window खुल जाएगी।

The screenshot shows the 'Transfer Complaint' form. The breadcrumb is 'Home »Complaint »Transfer Complaint'. The form has the following fields: 'Complaint No.*' with the value '00816204011800002' and a 'Search' button; 'Office Type*' with a dropdown menu showing '-----Select-----'; 'Office Name*' with a dropdown menu showing '-----Select-----'; and 'Transfer Reason*' with a text area containing the text: 'The incident of the complaint was found at Police station Anand parvat New Delhi, hence the complaint is being sent to the Police Station Anand Parvat for further investigation.'

Complaint No. पर Search button पर Click करते ही Complaint की सारी information screen के नीचे display होगी। अब office Type Select करें और फिर Office Name Select करें। अगर आपने office type Police Station Select किया है तो office type के बाद Transfer District Select करें और फिर Police Station का नाम select करें जहाँ पर Complaint Transfer करनी है। अंत में "Transfer" button पर Click करें।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Siddharth Malhotra
 Date 22/11/2018
 Login Time 14:41

State DELHI
 District CENTRAL
 Police Station KAMLA MARKET

Home » Complaint » Transfer Complaint

Transfer Complaint * Mandatory Field

Complaint No.*

Office Type*

Transfer District* Transfer to Police Station / Office*

Transfer Reason*

The incident of the complaint was found at Police station Anand parvat New Delhi, hence the complaint is being sent to the Police Station Anand Parvat for further investigation.

Complaint Details

Complainant Detail | Accused Detail | Incident Detail | **Complaint Detail** | Linking and Delinking Details

Personal Information | Address | Identification

UID	<input type="text"/>	Nature of Complaint	Against Public
First Name	Naina	Mobile No	91 9999999999
Middle Name	<input type="text"/>	Landline No.	<input type="text"/>
Last Name	<input type="text"/>	Email ID	<input type="text"/>
Relation Type	<input type="text"/>	Category	<input type="text"/>
Relative Name	<input type="text"/>		

Age Panel

Date of Birth

Age (Year / Month)

Assign/Re-assign Officer for a Complaint

इस option में Registered की गई Complaint को हम किसी IO/EO को Assign/Re-Assign कर सकते हैं। अब दिये गए option में से किसी भी एक Option के जरिये Complaint को Search करें और Complaint No पर Click करें।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Savita Yadav
 Date 12/11/2018
 Login Time 14:07

State DELHI
 District NEW DELHI
 Police Station CONNAUGHT PLACE

General Diary | **Complaint** | Investigation | Reports | Search & Query

Registration | Databank

Calendar: Nov 2018

Alerts & Reminders: Show Alerts & Reminders Yes No

Roles:

Complaint

- Add New Complaint Detail
- View Registration of Complaint
- Linking & Delinking Complaints
- Transfer Complaint
- Assign/Re-assign Officer for a Complaint**
- Submission of Complaint Enquiry Report
- Approve / Reject Complaint Enquiry Report

➤ Assign Enquiry Officer for a Complaint

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Complaint » Assign / Reassign EO for a Complaint

Assign / Reassign Enquiry Officer for a Complaint

Complaint

Complaint No. Date Range From DD/MM/YYYY

First Name Date Range To DD/MM/YYYY

Middle Name Last Name

Pending Complaints

22	00081620231800189	28/03/2018	FAREED	COMPLAINT REGARDING NOT ALLOWING HIM TO REMOVE THE DOWARY ARTICLES OF HIS SISTER.	Enquiry Officer Assigned
23	00081620231800190	28/03/2018	SUSHANT SAREEN	COMPLAINT REGARDING ACTION AGAINST OFFENDER VEHICLE NO. DL2S04506 NAMEDLY MOHD ASLAM.	Pending
24	00081620231800176	27/03/2018	SUMAN	COMPLAINT REGARDING FOLLOW HER TRY TO OBSTRUCTION HER WAY.	Enquiry Officer Assigned
25	00081620231800191	27/03/2018	MOINUDDIN	COMPLAINT AGAINST ACCUSE OF FIR NO. 406/14 FOR THREATENING TO KILL HIM.	Enquiry Officer Assigned
26	00081620231800178	27/03/2018	SANJIV SHEKHAR JHA	COMPLAINT REGARDING CHEATING AND THREAT FOR MURDER.	Enquiry Officer Assigned
27	00081620231800179	27/03/2018	SATISH KUMAR	COMPLAINT AGAINST HIS WIFE FOR CHEATING, HARASSMENT.	Enquiry Officer Assigned
28	00081620231800180	27/03/2018	SHAHINA SALMAN	COMPLAINT REGARDING HARASSMENT, ABUSING, SEXUAL EXPLOITATION.	Enquiry Officer Assigned

अब Screen के सारे field में information लिखें और अंत में “Assign” button पर Click करें।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Siddharth Malhotra State DELHI
Date 22/11/2018 District CENTRAL
Login Time 14:41 Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Complaint » Assign / Reassign EO for a Complaint

Assign / Reassign Enquiry Officer for a Complaint

Complaint No. 50000014371800001

Action Assign Reassign

New Enquiry Officer Name* Belt No.

Rank:

Landline No.

Mobile No.

Date of Assigning/Reassigning 22/11/2018

Last Date of Enquiry Submission DD/MM/YYYY

Remarks

Complaint Details

➤ Re-Assign Enquiry Officer for a Complaint

Officer Re-assign करने के लिए नीचे दिये गए Steps को follow करें।

- 1) Complaint -> Assign/ Re-assign officer for a complaint पर क्लिक करें। उसके बाद windows खुलकर आएगा।
- 2) अब वापस Home Page से या ऊपर दिये गए Complaint menu के जरिये “Assign/Re-assign Officer for a Complaint” screen पर जाएँ।
- 3) Complaint जिसके लिए officer re-assign करना है उसे Search करें।
- 4) Search करने के बाद उस Complaint के Complaint No. पर Click करें।
- 5) अब Re-assign के option पर Click करें और सभी field में information भरें।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home »Complaint »Assign / Reassign EO for a Complaint

Assign / Reassign Enquiry Officer for a Complaint

Complaint

Complaint No. Date Range From DD/MM/YYYY

First Name Date Range To DD/MM/YYYY

Middle Name Last Name

Search Clear

Pending Complaints

22	00081620231800189	28/03/2018	FAREED	COMPLAINT REGARDING NOT ALLOWING HIM TO REMOVE THE DOWARY ARTICLES OF HIS SISTER.	Enquiry Officer Assigned
23	00081620231800190	28/03/2018	SUSHANT SAREEN	COMPLAINT REGARDING ACTION AGAINST OFFENDER VEHICLE NO. DL2S04506 NAMEDLY MOHD ASLAM.	Pending
24	00081620231800176	27/03/2018	SUMAN	COMPLAINT REGARDING FOLLOW HER TRY TO OBSTRUCTION HER WAY.	Enquiry Officer Assigned
25	00081620231800187	27/03/2018	MOINUDDIN	COMPLAINT AGAINST ACCUSE OF FIR NO. 406/14 FOR THREATENING TO KILL HIM.	Enquiry Officer Assigned
26	00081620231800178	27/03/2018	SANJIV SHEKHAR JHA	COMPLAINT REGARDING CHEATING AND THREAT FOR MURDER.	Enquiry Officer Assigned
27	00081620231800179	27/03/2018	SATISH KUMAR	COMPLAINT AGAINST HIS WIFE FOR CHEATING, HARASSMENT.	Enquiry Officer Assigned
28	00081620231800180	27/03/2018	SHAHINA SALMAN	COMPLAINT REGARDING HARASSMENT, ABUSING, SEXUAL EXPLOITATION.	Enquiry Officer Assigned
29	00081620231800181	27/03/2018	RENU SINHA	COMPLAINT REGARDING HARASSMENT, BEATEN.	Enquiry Officer Assigned
30	00081620231800182	27/03/2018	MEERILAL	COMPLAINT REGARDING UNAUTHORISED CONSTRUCTION AT P. NO. 3807 SHAHGANJ.	Enquiry Officer Assigned

Home »Complaint »Assign / Reassign EO for a Complaint

Assign / Reassign Enquiry Officer for a Complaint

Complaint No. 81620231800177

Action Assign Reassign

Previous Enquiry Officer Name/PIS No. Dinesh Kumar/28108661 Belt No. D/5026 Rank SI (Sub-Inspector)

New Enquiry Officer Name* SI (Sub-Inspector)/ Jan Belt No. 234 Rank SI (Sub-Inspector)

Landline No. +

Mobile No. +91 9810413885

Date of Assigning/Reassigning* 10/01/2019

Last Date of Enquiry Submission DD/MM/YYYY

Reason for Reassignment* Previous investigation officer transfer to other

Remarks

इस option के radio button पर click करते है और शिकायत को Reassign करके दूसरे EO के नाम करते है।

Reassign Clear Close

अंत में Complaint में “Re-assign” बटन पर click करेंगे।

3.5. Submission of Complaint Enquiry Report

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Savita Yadav Date 12/11/2018 Login Time 14:07

State DELHI District NEW DELHI Police Station CONNAUGHT PLACE

General Diary

Complaint Add New Complaint Detail View Registration of Complaint Linking & Delinking Complaints Transfer Complaint Assign/Re-assign Officer for a Complaint Submission of Complaint Enquiry Report Approve / Reject Complaint Enquiry Report

Registration

Investigation

Databank

Reports

Registers

Legal Library

Search & Query

Help / FAQs

Calendar

Alerts & Reminders Show Alerts & Reminders Yes No

Roles Select

Malakhana Dashboard

Complaint की enquiry report submit करने के लिए “EO” के account से login करेंगे और Complaint में “Submission of Complaint Enquiry Report” पर Click करें। Submission of Complaint Enquiry Report पर Click करते ही एक नई window खुल जाएगी। अब जिस Complaint की Enquiry Report submit करनी है उसे select करें और Enquiry Details

और Remarks भरें यदि कोई document attach करना है तो browse button पर click करके document upload करें तथा अंत में "Submit" button पर Click करें।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Date: 26/11/2018 16:09
Login Time: 16:09

State: DELHI
District: EAST
Police Station: GEETA COLONY(EAST)

Home » Complaint » Submission of Complaint Enquiry Report

Enquiry Date: 26/11/2018
Complaint No.: 89570051701517

Upload Document(s)	S.No.	File Name	File type	File sub type	Description	Delete
(Maximum file size limit-200 kb)	1	Browse... No file selected	Select	Select		

Complaint Details

Complainant Detail | Accused Detail | Incident Detail | Complaint Detail | Assignment Details | Linking and Delinking Details | Transfer Details

Personal Information | Address | Complainant Identification

UID:
 First Name: PRITY
 Middle Name:
 Last Name:
 Relation Type:
 Relative Name:

Age Panel
 Date of Birth:
 Age (Year / Month):
 Year of Birth:

Nature of Complaint: Against Public
 Mobile No: +91 9711232851
 Landline No:
 Email ID:
 Category:

3.6. Approve/Reject Complaint Enquiry Report

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Date: 12/11/2018 14:07
Login Time: 14:07

State: DELHI
District: NEW DELHI
Police Station: CONNAUGHT PLACE


General Diary
 Registration
 Databank
 Registers
 Complaint
 Investigation
 Reports
 Legal Library
 Search & Query
 Help / FAQs

Calendar: Nov 2018

Alerts & Reminders: Show Alerts & Reminders (Yes/No)

Malkhana Dashboard


SHO को complaint enquiry report को approve या reject करने की authority होती है अब नीचे दिये गए complaints में से उस **Complaint No.** पर Click करें जिसकी enquiry report approve या reject करनी है।



CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Siddharth Malhotra
Date 22/11/2018
Login Time 14:41

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET



[Home](#) | [General Diary](#) | [Complaint](#) | [Citizen Services](#) | [Registration](#) | [Investigation](#) | [Prosecution](#) | [Reports](#) | [DataBank Services](#) | [Registers](#) | [Search & Query](#)

Home » Complaint » Approve / Reject Complaint Enquiry Report

Approve / Reject Complaint Enquiry Report *Mandatory Fields

Pending Complaints

S.No.	Complaint No.	Complainant Name	Complaint Date	Complaint Brief
1	00816204011800001	tsff	16/11/2018	sold of articles
2	00081620231800204	PRAVEEN KUMAR CHHIKARA	26/10/2018	Place of IncidentPlace of IncidentPlace of IncidentPlace of IncidentPlace of IncidentPlac... Click Here For More
3	00081620231800203	Om Prakash	17/10/2018	Non cognizable reportNon cognizable reportNon cognizable reportNon cognizable reportNon cognizable r... Click Here For More
4	00081620231800196	satya	11/09/2018	Fire incidentFire incidentFire incidentFire incidentFire incidentFire incidentFire incidentFire incl... Click Here For More

Complaint No. पर Click करते ही एक नई screen open हो जाएगी और complaint से related सारी information नीचे display होगी। Complaints Approve करने के लिए Approve और Complaint Reject करने के लिए Reject के option को select करें।

Approve/Reject Complaint Enquiry Report *Mandatory Field

Enquiry Report Status* Approve Reject

Landline No. +91--

Action Taken*

Remarks

Mobile No +91

Complaint Details

Complainant Detail
Suspect/Alleged Detail
Incident Detail
Complaint Detail
Assignment Details
Enquiry Details
Enquiry Remarks

Personal
Address
Complainant Identification

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">UID</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>First Name</td><td>Roshan</td></tr> <tr><td>Middle Name</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Last Name</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Relation Type</td><td>Father</td></tr> <tr><td>Relative Name</td><td>deepak</td></tr> </table>	UID	<input type="text"/>	First Name	Roshan	Middle Name	<input type="text"/>	Last Name	<input type="text"/>	Relation Type	Father	Relative Name	deepak	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Gender</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Nature of Complaint</td><td>Against Public</td></tr> <tr><td>Date of Birth</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Mobile No</td><td>+ <input type="text"/> <input type="text"/></td></tr> <tr><td>Landline No.</td><td>+ <input type="text"/> <input type="text"/></td></tr> <tr><td>Email Id</td><td>abc@gmail.com</td></tr> </table>	Gender	<input type="text"/>	Nature of Complaint	Against Public	Date of Birth	<input type="text"/>	Mobile No	+ <input type="text"/> <input type="text"/>	Landline No.	+ <input type="text"/> <input type="text"/>	Email Id	abc@gmail.com
UID	<input type="text"/>																								
First Name	Roshan																								
Middle Name	<input type="text"/>																								
Last Name	<input type="text"/>																								
Relation Type	Father																								
Relative Name	deepak																								
Gender	<input type="text"/>																								
Nature of Complaint	Against Public																								
Date of Birth	<input type="text"/>																								
Mobile No	+ <input type="text"/> <input type="text"/>																								
Landline No.	+ <input type="text"/> <input type="text"/>																								
Email Id	abc@gmail.com																								

अब बाकी की information लिखें और अंत में **Submit** button पर Click करें।

4. Registration

4.1. First Information Report(IIF-1)

FIR दर्ज करने के लिए सबसे पहले एक GD बनाई जाएगी General Diary में Add General Diary Detail में क्लिक करें। नीचे दी हुई window open हो जाएगी फिर उसमें General Diary Brief type करें।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome **Anil KUMAR**
Date **29/11/2018**
Login Time **12:26**

State **DELHI**
District **NEW DELHI**
Police Station **CONNAUGHT PLACE**

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » General Diary » Search & View General Diary Details » GD Entry View

General Diary Details **WARNING : Police officer is liable to be dismissed for making false entry vide PPR 22.50**

General Diary Number: 003
Date / Time: 24/11/2018 01:48
Entry for (Officer): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)/M/
General Diary Type: Single GD Type Multiple GD Type
Select General Diary Type*: Criminal case

Subject: इरला अमद कायमी मुकदमा नं० 125/18 U/S 186/379 IPC व सान्गी

Sl. No.	Acts	Sections
1	IPC 1860	186
2	IPC 1860	379

General Diary Brief
इस समय दर्ज है कि एक तहसीर हिन्दी सर्बा मरसला SI Ramkesh साहब बगल कायमी मुकदमा बदस्त Ct Pradeep No.1148/ND नम ASI/DO को मौजुल होने पर मुकदमा नं० 125/18 U/S 186/379 IPC का CCTNS Opt. W/Ct. Vandana No.1407/ND द्वारा Computerized Feed/दर्ज करार मय असल तहसीर व Computerized FIR Copy बदस्त Ct Pradeep No.1148/ND द्वारा नमर SI Ramkesh को निम्नवां ज रही है जो नौका पर माररुफ बालन्तीस है। एक Computerized Copy FIR रिकार्ड हेतु MHC(R) के हवाले की जो स्याई रूप से रिकार्ड में रखेगा वीगर नकुलात बजरिसे डाक अकसरन बाला की खिदमत में अरसाल होने।

FIR दर्ज करने के लिए Registration icon पर click करें और उसमे First Information Report (IIF-I) > New Registration पर click करें।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome **Kailash Chand Sharma**
Date **05/08/2019**
Login Time **10:39**

State **DELHI**
District **SHAHDARA**
Police Station **ANAND VIHAR**

General Diary | Complaint | Citizen Services

Registration (highlighted)

- First Information Report (IIF-1)
- Non Cognizable Report(NCR)
- Medico Legal Case (MLC)
- Missing Person
- Lost Property
- Missing Cattle
- Unidentified Dead Body / Unna
- Police Control Room
- Foreigner Registration
- C-Form
- Preventive Action
- Unclaimed / Abandoned Property
- Stranger Roll

Registration of FIR (highlighted)

- Search and View Details of FIR
- Re-registration of Transferred FIR
- Link/Duplicate an FIR
- Approval for Linking FIR
- View Transferred Case Details
- Zero FIR
- Publish FIR
- FIR Index
- Add/Pending Search Brief Facts of Cases

Calendar: Aug 2019

Alerts & Reminders: Show Alerts & Reminders Yes No

Roles: Select

Please select role to see the dashboard

Malkhana Da

NDC

New Registration पर Click करते ही नई window open हो जाएगी। इस window में 10 tabs है – Acts & Sections, Occurrence, Complainant, FIR Contents, Victim Information, Accused, Property of Interest, Hurt Case Detail, Action Taken, Signature सभी Tabs को एक-एक करके भरें।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Siddharth Malhotra
Date 22/11/2018
Login Time 15:17
NEW!! PCR CALLS are pending

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

Home » Registration » First Information Report (IF-1) » New Registration

FIR Registration *Mandatory Fi

Acts & Sections Occurrence Complainant FIR Contents Victim Information Accused Property of Interest Hurt Case Detail Action Taken Signature

GD/SD/DD Number / Date / Time*

Type of Information Written Oral

Complaint No.

Source of Complaint*

Acts & Sections

S.No.	Acts	Sections	Delete

Major / Minor

Major Head

Minor Head

S.No.	Major Head	Minor Head	Delete

FIR Linking* Yes No

Local Head*

Acts & Sections:-

Note: FIR करने से पहले एक Criminal Case की GD बनानी ज़रूरी है तभी हम उसे यहाँ search कर पाएंगे Criminal Case की पहले से की गई GD को Search करने के लिए ऊपर दिए गए screen मे GD/DD number/date/time वाले box में magnify glass वाले icon पर Click करें Click करने के बाद नीचे दी गई screen खुलेगी जिसमें आप GD Search करें।

Search & View General Diary Details

General Diary Number

Date Range From

Entry for (Officer)

General Diary Type

Date Range To

Subject

Most Recent General Diary Entries

G.D No	Entry Type	Date / Time	Entry for (Officer)	Subject	General Diary Brief
<input checked="" type="radio"/> 007	Criminal case	22/10/2018 17:02	I (Inspector)/ Siddharth Malhotra / 44444444		criminal case under section 420 of IPCcriminal case under section 420 of IPCcriminal case under sect...
<input type="radio"/> 005	Criminal case	22/10/2018 15:22	I (Inspector)/Dinesh Chandra/20189595		Arrival from courtArrival from courtArrival from courtArrival fr...
<input type="radio"/> 004	Criminal case	22/10/2018 15:17	SI (Sub-Inspector)/Bhawani Singh/16140091		
<input type="radio"/> 003	Criminal case	17/10/2018 13:50	I (Inspector)/ Dinesh Chandra / 20189595		
<input type="radio"/> 004	Criminal case	05/10/2018 12:19	Asst. SI (Assistant Sub-Inspector) / Amarpal Singh Rathw/ 28911586		

1 2 >> Total Pages: 3 Displaying records From 1 To 5 of 15 Records per page 5

- GD search करने के बाद उस GD को select करें और Submit button पर Click करें। Click करते ही GD No & GD date दिखाई देगी। अब बाकी के fields की information भरें।
- अगर किसी FIR को किसी RegistrationType जैसे MLC, Missing Person से Link करना है तो FIR Linking के option में Yes को select करें और वह registration Type choose करके registration number डालें।

➤ **Occurrence:-**

Sl. No.	Occurrence From - To (Date / time)	Direction from PS	Distance from PS	Area	City	Edit	Delete
Add New							

Occurrence (घटना) की जानकारी भरने के लिए **Add New button** पर Click करें। अगर घटना का समय मालूम है तो Known और समय मालूम नहीं है तो unknown के option को select करें और बाकी की details भरें।

The screenshot shows the 'Occurrence Information' form in CCTNS. The 'Is Time of Occurrence' field has 'Known' selected. The form includes the following sections:

- Occurrence Information:**
 - Is Time of Occurrence: Known Unknown
 - From Date / Time: DD/MM/YYYY HH:MM
 - To Date / Time: DD/MM/YYYY HH:MM
 - Information received at P.S: DD/MM/YYYY HH:MM
- Reason for Delay (If Any):**
 - In Registration by Police: (Text area, 500 char limit)
 - In Reporting by Complainant: (Text area, 500 char limit)
- Place of Occurrence:**
 - House No.
 - Street Name
 - Colony / Locality / Area
 - Village / Town / City
 - Tehsil / Block / Mandal
 - Pincode
- Outside Limit Details:**
 - State: -----Select-----
 - District: -----Select-----
 - Police Station: -----Select-----
- Organized Crime:** -----Select-----
- Occurrence PS Details:**
 - Direction from P.S: -----Select-----
 - Distance from P.S (in km): -----Select----- K M
 - Beat No.: -----Select-----

Buttons at the bottom: Save, Submit, Preview, Close, Clear All.

अंत में Save button पर click करें।

➤ **Complainant**

The screenshot shows the 'Complainant' form in CCTNS. The 'Personal Information' tab is active. The form includes the following sections:

- Personal Information:**
 - Relation Type: -----Select-----
 - Relative Name: (Text field)
 - Relative Alias Name: (Text field)
 - Category: -----Select-----
 - Age Panel:
 - Date of Birth: DD/MM/YYYY
 - Age (Year / Month): (Text fields)
 - Year of birth: (Text field)
 - Age Range (From-To): (Text fields)
- Complainant Same as Victim:** (Text field)

Buttons at the bottom: Save, Submit, Preview, Close, Clear All.

इसमें शिकायत कर्ता का Personal Information, Address, other information भरें ।

➤ **FIR Contents :-** इस tab में आप FIR की contents (तहरीर) को type करेंगे ।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome: Suresh Kumar
Date: 19/11/2018
Login Time: 17:07

State: DELHI
District: SOUTH WEST
Police Station: SOUTH CAMPUS

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » First Information Report (IIF-1) » FIR Search and View

FIR Search and View FIR Registration No.: 02202018

IIF-1 | IIF-2 | IIF-3 | IIF-4 | IIF-5

Comments

Acts & Sections | Occurrence | Complainant | **FIR Contents** | Victim Information | Accused | Property of Interest | Hurt Case Detail | Action Taken | Signature

FIR Contents

बयान अर्जने Ct Rajbir 1597/SW PS South Campus New Delhi, बयान किया कि मैं थाना South Campus में बतौर Constable तैनात हूँ आज दिनांक 18-11-18 को मेरी खुदी SI J.KONGARI No. D-2689 के साथ 11.00AM to 02.00PM तक अशोक पैलेस बेनिता मार्ग पर Picket Duty थी जो समय करीब 01.30PM पर एक सफेद रंग की XYLO कार नं० HR 05AD3328 जो Airport की तरफ से हमारी Picket की तरफ आयी जिसको हमने इशारा करते ब्रेकिट की मदद से रुकवाया जो गाड़ी के पिछले सीरो पर Black फिल्म दही है जिसमें अन्दर का कुछ नजद नहीं आ रहा था जब मैंने पिछे जाकर खिड़की को खुलवाया तो Diver उतर कर पागने लगा जिसको मग हमराही Staff की मदद से काटू किया जिसने अपना नाम व पता बाद पूछा Ankit S/O Vishmbar Singh Age -21 Years R/O VIII-Buchcha Kheri Teh-Kairana PS Kairana Dist-Shamli U.P बतलाया जो गाड़ी कैक करने पर गाड़ी की पिछरी सीट निकाली हुई थी जिसमे नाजायज शराब की पेटिया भरी हुई थी जो मैंने इस बाबत बजतिये Telephone थाने में सूचना दी मौका पर LO भेजा जाये आप हाजिर मौका आये मैंने गाड़ी चालक Ankit S/O Vishmbar Singh R/O उर्रेक को व नाजायज शराब से भरी हुई XYLO Car नं० उर्रेक को आपके हवाले किया आने बाद पूछताछ मेरा बयान लिखा जो पढ़ लिया सुन लिया ठीक है । Sd/English Rajbir Singh 18/11/18 attested by HC Virender Kumar No. 911/SW PS South Campus

Upload Document(s)

S.No.	File Name	File type	File sub type	Description
No Records Found				

Print Close

➤ **FIR -> Victim Information :-**

FIR Registration

Acts & Sections | Occurrence | Complainant | FIR Contents | **Victim Information** | Accused | Property of Interest | Hurt Case Detail | Action Taken

Victim Type* Known Unknown

S No.	Name	Address
Add New		

- अगर Victim known है तो Add New Option पर click करें और इस tab में आप victim की information type करे ।
- अगर Victim unknown है तो unknown के option को select करें और अगर Victim known है तो known के option को select करें और “Add New” के button पर Click करें। Click करते ही नीचे दी गई window खुल जाएगी जिसमें 4 tab है। Personal Information, Address, Other Information & Statement । सभी tabs में बारी-बारी से आप Victim की information भरेंगे उसके बाद Save button पर click करें ।

Victim Information

Personal Information | Address | Other Information | Statement

UID: _____

First Name*: _____

Middle Name: _____

Last Name: _____

Alias: _____

Mobile No: +91 _____

Landline No: +91 _____

Email ID: _____

Victim Type* Child Adult

Whether Medical Examination is required to determine the Age* Yes No

Add

Victim Information

Personal Information | Address | Other Information | Statement

UID: _____
 First Name*: _____
 Middle Name: _____
 Last Name: _____
 Alias: _____
 Add

Mobile No: +91 _____
 Landline No: +91 _____
 Email ID: _____
 Victim Type*: Child Adult
 Whether Medical Examination is required to determine the Age*: Yes No

S.No.	Alias	Delete
Gender*	-----Select-----	
Relation Type	-----Select-----	
Relative Name	_____	
Relative Alias Name	_____	
Category	-----Select-----	

Age Panel*
 Date of Birth: _____

Save Close

- **FIR Module -> Accused/ Suspect Type** :- इस tab में आप accused की information भरें। अगर Accused known है तो "Known" के option को select करें और "Add New" button पर Click करें।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » First Information Report (IIF-1) » New Registration

FIRRegistration *Mandatory Field

Acts & Sections | Occurrence | Complainant | FIR Contents | Victim Information | **Accused** | Property of Interest | Hurt Case Detail | Action Taken | Signature

Accused / Suspect Type* Known Unknown / Seen

Accused Known

S.No.	Accused Name	Relation Type	Relative Name	Edit	Delete
Add New Add From Existing					

Accused Unknown

S.No.	Accused Name	Edit	Delete
Save Submit Preview Close Clear All			

, उसके पास अगर पासपोर्ट है तो **Passport Details** भरी जाएगी अंत में उसके पास अगर कोई और प्रमाण पत्र है तो उसकी जानकारी **Identification Type** option को select करके fill की जाएगी।

Accused Information

Personal Information | Address | **Other Information** | Physical Description

Occupation: -----Select-----

Country of Nationality*: INDIA

Passport Details

Passport No: []

Passport Issue Place: []

Passport Issue Date: DD/MM/YYYY

Identification Type: -----Select-----

ID No. [] **Add**

S.No.	Identification Type	ID No.	Delete
-------	---------------------	--------	--------

FIR -> Accused -> Suspect/ Alleged Information > Physical Description: - इसमें Accused Person का Physical Description को **type** किया जाएगा और अन्त में Accused की सारी information भरने के बाद **“Save”** बटन पर Click करें।

Other Information

Person Male Female

Outer Top: -----Select-----

Outer Bottom: -----Select-----

Inner Top: -----Select-----

Inner Bottom: -----Select-----

Seasonal/Accessories Top: -----Select-----

Seasonal/Accessories Bottom: -----Select-----

Footwear: -----Select-----

Identification marks

Moles(Small): -----Select-----

Black Marks (Large): -----Select-----

Scar Marks: -----Select-----

Blood Group: -----Select-----

Others(if any): []

Burn Marks

Leucoderma (White Patches): -----Select-----

Tattoo Marks: -----Select-----

Upload Document(s) [] **Browse...**

Save **Close**

Personal Information | Address | Other Information | **Physical Description**

Body Build Type: -----Select-----

Body Complexion Type: -----Select-----

Height Range From: [] feet [] Inch [] c.m

Height Range To: [] feet [] Inch [] c.m

General | Other Information

Face

Face Type: -----Select-----

Forehead: -----Select-----

Cheek: -----Select-----

Beard: -----Select-----

Chin: -----Select-----

Lips: -----Select-----

Nose: -----Select-----

Teeth: -----Select-----

Moustaches: -----Select-----

Pox pitted: Yes No

Deformities

Deaf/Dumb: -----Select-----

Arms: -----Select-----

Finger Extra: -----Select-----

Finger Missing: -----Select-----

Hunch / Stooping Back: -----Select-----

missing

Limping: -----Select-----

Bow Leg: -----Select-----

Knock Knee: -----Select-----

Ear Lobes: -----Select-----

Goitre: -----Select-----

Eyes Type

Eyes Type: -----Select-----

Blind: -----Select-----

Eyes Color: -----Select-----

Using Specs: -----Select-----

Specs Type: -----Select-----

Eye Brow Thickness: -----Select-----

Eye Brow Shape: -----Select-----

Blinking: -----Select-----

Squint: -----Select-----

Hair Type

Hair Straightness: -----Select-----

Hair Style: -----Select-----

Habits & Speech

Habits: -----Select-----


Speech: -----Select-----

FIR Module -> Accused Detail -> Add From Existing में अगर Accused Person किसी FIR में पहले है तो FIR option click करेंगे Search button पर click करते ही Accused के नाम दिखाई देंगे Accused के नाम पर click करें यदि accused search results में मिलता है तो उसके सामने दिये गये **radio button** को select करके save button पर click करें। इस प्रक्रिया में accused की सभी details अपने आप भर जायेंगी। यदि accused search result यदि नहीं आता है तो window के close button पर click करके बन्द कर दें।

The screenshot shows the 'FIRRegistration' application window. The 'Accused' tab is selected. Below the navigation bar, there are radio buttons for 'Accused / Suspect Type' with 'Known' selected. A table for 'Accused Known' is visible but empty. Below it are 'Add New' and 'Add From Existing' buttons. A search form for 'Accused Known' is open, showing fields for 'FIR/NCR No.', 'Date' (01/09/2018 to 11/12/2018), 'First Name', 'Relation Type', and 'Relative Name'. A text box explains: 'इस screen के खुलते ही सबसे पहले FIR/NCR option पर click करके Accused Person के नाम पर click करेंगे और अंत में Save button पर click करेंगे।' Below the form is a 'Most Recent FIR' table with 5 rows. The first row is selected with a checked radio button. At the bottom right, there are 'Save', 'Close', and 'Clear' buttons.

S.No.	Accused Name	Accused Address	FIR Number/NCR Number
1	Daga	C BLOCK, SULTANPURI, SULTANPURI, OUTER DISTRICT, DELHI, INDIA	0220/2018
2	asharam	DELHI, KAMLA MARKET, CENTRAL, DELHI, INDIA	0007/2018
3	Amit Kumar Sharma	C 16, 02, SHIVLIK, MALVIYA NAGAR, TEHSIL, MALVIYA NAGAR, SOUTH, DELHI, 232313, INDIA	0219/2018
4	rajat	DELHI, KAMLA MARKET, CENTRAL, DELHI, INDIA	0218/2018
5	fgvdfvdfv	DELHI, KAMLA MARKET, CENTRAL, DELHI, INDIA	0216/2018

Save करने के बाद Saved Successfully की Windows आ जाएगी।



Save करने के बाद Accused की विवरण नीचे दी हुई windows में दिखाई देगा ।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Binda Pur DO
Date 22/11/2018
Login Time 15:11

State DELHI
District DWARKA
Police Station BINDA PUR

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Complaint » Register a new complaint

Register a new complaint * Mandatory Field

Complainant Detail | **Accused Detail** | Incident Detail | Complaint Detail

S.No.	Name of Accused	Address	Edit	Delete
1	RituBudania	q-3/1 police colony andrews garj delhi HAUZ KHAS SOUTH DELHI INDIA 110049		

Add New Add From Existing

FIR -> Property of Interest:- अगर Case में कोई Property stolen/recovered या involved है (जैसे कि कोई weapon या कोई jewellery etc.) तो Property of Interest के option “Yes” को select करें और “Add New” button पर click करें ।

FR Registration *Mandatory Field

Acts & Sections | Occurrence | Complainant | FIR Contents | Victim Information | Accused | **Property of Interest** | Hurt Case Detail | Action Taken | Signature

S.No.	Property Category*	Type of Property*	Description	Value in INR	Delete
1	-----Select-----	-----Select-----			

Add New Clear All

Add New button पर Click करते ही नई window open होगी । इस window में “Property Category” के field में से property को select करें । property category select करते ही उस property से संबंधित information भरने के लिए सारे fields नीचे आ जाएंगे, उसमें information भरें ।

FR Registration *Mandatory Field

Acts & Sections | Occurrence | Complainant | FIR Contents | Victim Information | Accused | **Property of Interest** | Hurt Case Detail | Action Taken | Signature

S.No.	Property Category*	Type of Property*	Description	Value in INR	Delete
1	AUTOMOBILES AND OTHERS	Car	Maruti कार न० DL1CP-7172 रंग लाल जिस पर शेर का स्टिकर लगा है ।	3,00,000/- Rs	

Add New Clear All

Save Submit Preview Close Clear All

सारी information type करने के बाद “Save” button पर Click करें ।

- **FIR -> Hurt Case Details :-** अगर इस case में कोई जख्मी हुआ है तो उसकी information भरने के लिए Hurt Case Detail पर Click करें और information भरें ।

The screenshot shows the 'Hurt Case Detail' tab in the FIR Registration system. The form contains several input fields: 'No. of Persons' with sub-fields for 'Deceased', 'Non-injured', and 'No of Persons Simple hurt'; 'No of Persons Seriously hurt'; 'Means of causing injury'; and a large text area for 'Injury Details'. There is also a radio button for 'Whether Video Footage Available' (Yes/No). Below these is a table for 'Upload Document(s)' with columns for S.No., File Name, File type, File sub type, and Description. At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Submit', 'Preview', 'Close', and 'Clear All'.

FIR -> Action Taken* :- FIR पर Action Taken में Investigation/Assign IO को select करेंगे । **Name of IO** में IO का नाम select करेंगे ।

The screenshot shows the 'Action Taken' tab in the FIR Registration system. A red warning message at the top reads: 'WARNING : Framing incorrect record is an offense punishable u/s 218 IPC*Mandatory'. The 'Action Taken*' dropdown is set to 'Investigation/Assign IO'. The 'Name of IO*' dropdown is set to 'Satender Singh 02-1 (Ins)'. A tooltip for the 'Action Taken' dropdown lists three options: 'Investigation/Assign IO', 'Refused', and 'Self Investigation'. Below the dropdowns is a table with columns 'S No.', 'Department Name', and 'Department Email'. At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Submit', 'Preview', 'Close', and 'Clear All'.

- Action Taken के आगे दिये गए combo box से जो action लेना है, उसे select करें । इसमें 3 option दिये गए है – **Investigation/Assign IO, Refused & Self Investigation.**
 - अगर आप IO Assign करना चाहते है तो **Investigation/Assign IO** Tab में IO का नाम select करें ।
 - अगर FIR refused करनी है तो **Refused** को select करें । अब किस **Under Section** के तहत FIR refused की जा रही है, उसे select करेंगे और बाद में उसका reason type करेंगे कि किसके आदेश से FIR refused की जा रही है ।
 - अगर आप self investigation करना चाहते है तो **Self Investigation** को select करें और self investigation का reason type करेंगे ।

- **Submit Button** पर Click करने से पहले एक बार **Save Button** पर click करें। **save** पर Click करते ही screen पर हरे रंग की पट्टी पर FIR का No. Successfully saved, display करेगा।
- अब **preview Button** पर click करके अपनी पूरी FIR को check करलें।
- अगर आप FIR में कुछ **update** करना चाहते है तो दुबारा उस FIR को खोलकर **Submit** करने से पहले उसे **update** कर सकते हैं।
- FIR submit करने से पहले यह सुनिश्चित करलें की आप की सारी जानकारी सही से भर दी गई है उसके बाद **Submit button** पर Click करें।



4.1.1. Search & View Details of FIR

Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome **Kailash Chand Sharma**
 Date **05/08/2019**
 Login Time **10:39**

State **DELHI**
 District **SHAHADARA**
 Police Station **ANAND VIHAR**

General Diary

Complaint

Citizen Services

Registration

Databank

Registers

Malkhana Da

First Information Report (F-1)

- Registration of FIR
- Search and View Details of FIR**
- Re-registration of Transferred FIR
- Link/Duplicate an FIR
- Approval for Linking FIR
- View Transferred Case Details
- Zero FIR
- Publish FIR
- FIR Index
- Add/Pending Search Brief Facts of Cases

Non Cognizable Report (NCR)

- Medico Legal Case (MLC)
- Missing Person
- Lost Property
- Missing Cattle
- Unidentified Dead Body / Unna
- Police Control Room
- Foreigner Registration
- C-Form
- Preventive Action
- Unclaimed / Abandoned Property
- Stranger Roll
- Fir Incident

NDC

Calendar

Aug 2019

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Roles: Select

Please select role to see the dashboard

Alerts & Reminders

Show Alerts & Reminders Yes No

इस screen पर Click करते ही एक नई window open हो जाएगी।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » First Information Report (IIF-1) » FIR Search

FIR Type FIR Zero FIR

FIR No

FIR Date Range (DD/MM/YYYY)

Police Station

Complainant Name

Act And Section

Acts

Sections

Search Clear

Most Recent FIR

S.No.	FIR No.	Date	Type	Description	Station	Status	Remarks
142	0098/2018	01/08/2018	CAS FIR	FIR CONTENTS IN THIS FIR NO CONTENTS FIR CONTENTS IN THIS FIR NO CONTENTS FIR CONTENTS IN THIS FI ... Click Here For More	Kamia Market(28180003)	Registered	
143	0097/2018	07/08/2018	CAS FIR	श्याम अजाने अनिल कुमार पता मकान नं० 10 ने बताया कि मेरा आटो मे बैठा शाल मे व्यक्ति ने क्रोन उठाकर चल दि ... Click Here For More	Kamia Market(28180003)	Court Case Number/ Committal Number Assigned	

इस screen पर Click करते ही यह screen open हो जाएगी। इस screen के माध्यम से आप पहले से दर्ज की गई FIR को Search करके देख सकते है। इसके लिए पहले FIR Type के Radio button पर Click करेंगे और फिर संबंधित FIR के FIR No. पर click करेंगे।

FIR Search and View FIR Registration No.: 0096/2018

IIF-1 | IIF-2 | IIF-3 | IIF-4 | IIF-5

Comments

Acts & Sections Occurrence Complainant FIR Contents Victim Information Accused Property of Interest Hurt Case Detail Action Taken Signature

GD/SD/DD Number /Date / Time FIR Date and Time

Type of Information Written Oral

Complaint No.

Source of Complaint

S.No.	Acts	Sections
1	IPC 1860	379
2	IPC 1860	

S.No. Major Head

No Records Found

Local Head Other Theft

FIR Linking Yes No

Print Close

इस screen के खुलते ही View FIR दिखेगी अगर हमे इसका print लेना है तो हम Print option पर Click करके FIR का print ले सकते है।

4.1.2. FIR Module -> Link an FIR

Link an FIR इस Screen के खुलते ही एक नई window खुलेगी जिसमे FIR Type पर FIR के Radio button पर Click करेंगे तो Most Recent FIR No 0221/2018 पर क्लिक करके फिर एक नई window open हो जाएगी।

The screenshot shows a software interface with a menu. The 'Registration' icon is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, listing various options. 'Link/Duplicate an FIR' is highlighted with a red box. Other options include 'First Information Report (IIF-1)', 'Non Cognizable Report(NCR)', 'Medico Legal Case (MLC)', 'Missing Person', 'Lost Property', 'Missing Cattle', 'Unidentified Dead Body / Unna', 'Police Control Room', 'Foreigner Registration', 'C-Form', 'Preventive Action', 'Unclaimed / Abandoned Property', 'Stranger Roll', 'Fire Incident', and 'Un-Identified Person'. The 'Registration of FIR' sub-menu is also visible, containing options like 'Search and View Details of FIR', 'Transfer an FIR', 'Re-registration of Transferred FIR', 'Approval for Linking FIR', 'View Transferred Case Details', 'Zero FIR', 'Publish FIR', and 'FIR Index'. The 'NDC' icon is also visible at the bottom right.

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome HANSI BISHT
Date 11/12/2018
Login Time 12:59
NEW!!:17 PCR CALLs are pending

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports

Home » Registration » First Information Report (IIF-1) » FIR Search

FIR Type FIR Zero FIR

FIR No

FIR Date Range (DD/MM/YYYY) 01/12/2018 11/12/2018

Complainant Name

Act And Section

Acts -----Select-----

Sections -----Select-----

Most Recent FIR

S.No.	FIR No	FIR Date(DD/MM/YYYY)	Mode	FIR Brief
1	0221/2018	11/12/2018	CAS FIR	Criminal case registeredCriminal case registeredCriminal case registeredCriminal case registeredCrim ... Click Here For M

इस Screen के खुलते ही जैसे ही FIR No पर Click करेंगे तो एक नई window खुलेगी।

Most Recent FIR

S.No.	FIR No	FIR Date(DD/MM/YYYY)	Mode	FIR Brief
1	0221/2018	11/12/2018	CAS FIR	Criminal case registeredCriminal case registeredCriminal case registeredCriminal case registeredCrim ... Click Here For M

Link /Duplicate an FIR व अगली स्क्रीन खुल जाएगी जब FIR को select करेंगे और नीचे वाले option Selection Criteria

(for other FIR) से Date range से और FIR No से FIR को select करते है जिस FIR को Link करना है और अंत मे Link” button पर click करेंगे।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » First Information Report (IIF-1) » Link / Duplicate an FIR

Link / Duplicate an FIR *Mandatory Fields

Type of Request* Link

FIR Date

Name of Police Station KAMLA MARKET

FIR No 0219

S.No.	FIR No	Date	Police Station	FIR Brief
1	0219	10/12/2018	KAMLA MARKET	40/16, MINTO ROAD, KAMLA MARKET, NEW DELHI40/16, MINTO ROAD, KAMLA MARKET, NEW DELHI40/16, MINTO ROA ... Click Here For More

0215

go Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 1 of 1 Records per page 5

Selection Criteria (for Other FIR)

FIR Date 02/12/2018 11/12/2018

State DELHI

Name of Police Station KAMLA MARKET

FIR No 0219


District CENTRAL

4.1.3. FIR Module -> Approval for linking FIR


FIR linking approve सिर्फ SHO की ID से ही होगा ।



उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही एक नई window open हो जाएगी । इसमे **FIR No 0219** पर click करते ही फिर एक नई window open हो जाएगी ।



अब जिस FIR को approve करना है उसके FIR No. पर Click करें । Click करने पर नीचे दी गई screen खुलेगी ।



- अगर FIR linking को Approve करना है तो “approve” के option को select करें और यदि FIR linking Reject करना है तो “Reject” के option को select करें और Remarks type करें।
- अंत में “Submit” button पर Click करें। Submit button पर Click करते ही FIR Linking approve हो जाती है।

4.2. Zero FIR

4.2.1. Registration of Zero FIR

सबसे पहले एक GD बनाई जाएगी। General Diary में Add General Diary Detail में क्लिक करें। नीचे दी हुई window open हो जाएगी फिर उसमें डाटा type करेंगे।

WARNING : Police officer is liable to be dismissed for making false entry vide PPR 22.50

Mandatory Field

Date/Time (DD/MM/YYYY HH:MM)* 30/10/2017 15:30

Entry for (Officer)/Government Servant/Public* HC (Head Constable)/ B

General Diary Type* Single GD Type / Multiple GD Type

Select General Diary Type* ZERO FIR (Criminal cas) Last Registered Zero FIR No:2/2017

Subject Register ZERO FIR No 03/2017

Maximum character input limit: 172

S No.	Acts	Section	Delete
1	IPC 1860	379	

General Diary Brief

समय 15:30 बजे दिन दर्ज है कि मन DO को एक दरवाजा तहसीर प्राप्त होने पर मुकदमा नं० 0/2015 U/S 379 IPC दर्ज सम्पुर्ण W/लत नुदना No 1407/ND द्वारा दर्ज करवाया जाकर अदालत तहसीर व मय नकल मिशाल FIR बाद दर्ज रजिस्टर करके बरये मुतासिब कार्यवाही हेतु P S कुतुनीनार मेंने स्टेशन भिजवाई जा रही है व एक नकल MHC(R) के हवाले की गई Ct जवाहीर No 629/ND के द्वारा भिजवाई गई, फिर नकुलत बजरिये डक अफखतान वाला की खिदमत में अरसल होगी। बकलम DO

Preview Save **Submit** Clear Close

Registration icon पर click करने के बाद First Information Report (IIF-1) पर click करें उसके बाद Zero FIR पर click करें।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Siddharth Malhotra
Date 22/11/2018
Login Time 15:17

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

NEW!!:1 PCR CALLS are pending

Registration

- First Information Report (IIF-1)
 - Registration of FIR
 - Search and View Details of FIR
 - Transfer an FIR
 - Re-registration of Transferred FIR
 - Link/Duplicate an FIR
 - Approval for Linking FIR
 - View Transferred Case Details
 - Assign Associate IO
 - Zero FIR**
 - Publish FIR
 - FIR Index
- Dead Animal/Carcass Registrati
- Non Cognizable Report(NCR)
- Medico Legal Case (MLC)
- Missing Person
- Lost Property
- Missing Cattle
- Unidentified Dead Body / Unnat
- Police Control Room
- Foreigner Registration
- C-Form
- Preventive Action
- Unclaimed / Abandoned Property
- Stranger Roll
- Fire Incident
- Un-Identified Person
- Upload Digital Signature

Calendar: Nov 2018

Alerts & Reminders

Disclaimer: User will be This website belongs to

NDCA in accordance with the law in force Government of India

उसके बाद Zero FIR content भरें

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Burari Dolo State DELHI
 Date 30/10/2017 District NORTH
 Login Time 15:38 Police Station BURARI

Home » Registration » First Information Report (IIF-1) » Zero FIR

FIR Registration WARNING : Framing incorrect record is an offense punishable u/s 218 IPC *Mandatory

Acts & Sections Occurrence Complainant/Informant **FIR Contents** Victim Information Suspect/Alleged Property of Interest Hurt Case Detail Action Taken

***FIR Contents**

To, THE SHO P. S. CONNAUGHT PLACE NEW DELHI SUBJECT : LOSS OF WALLET & FRAUDULENT TRANSACTION WITH CREDIT CARD Dear Sir, CWhile travelling today, 9th October 30/10/17 at 12:00 from Rohini East to Huda City Center, my dark green colored wallet got stolen from the metro. I realized the same at Guru Dronacharya metro station when I got a message from HDFC Bank that my credit card ending in 2508 had been used to make purchases worth INR 5298 and INR 3499 at 11:40 AM at W.B Block, CP. The store has the footage of the lady who made the transaction. My wallet contains my cards (bank debit & credit- citibank, HDFC), my PAN card and my driving Licence. Request you to help me with the same. Regards Aakriti Goel A-50, New India Apartment sec - 9 Rohini 9582729925/9599230683. श्रीमान ज्युटी अफसर साहब थाना कनाट प्लेस नयी दिल्ली बकार सरकार निवेदन है कि शिकायत कार्या अकृति गौल D/o मुकेश कुमार पता पुस्त हजा ने बाहाजिर थाना आकर एक लिखित शिकायत अमेजी बाबत Wallet चोरी व Transaction with CREDIT Card पेश की जो मजबूत दरखास्त से मामला द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन का होना पाया गया व जुर्माना U/S 379 IPC का सख्त होना पाया गया। जिस पर Zero FIR दर्ज करके मुनासिब कार्यवाही P. S. कुतुबुमीनार मेट्रो स्टेशन को भिजवायी जावे। तारीख व वक्त वकूआ - द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन समय नामालूम dt 30/10/17 जय वकूआ - द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन तारीख व वक्त तहरीर दरवेश - 30/10/17 at 13:35 PM Sd/- English Si Pritam Singh No. D-3111 PIS No. 28760864 P S Burari North Delhi 30/10/17. समय 13:45 बजे दिन दर्ज है कि मन DO को एक दरखास्त तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा नं० 0/2015 U/S 379 IPC दर्ज कम्प्यूटर Wict बन्दना No 1407/ND द्वारा दर्ज करवाया जाकर असल तहरीर व मय नकल मिशाल FIR बाद दर्ज रजिस्टर करके बरावे मुनासिब कार्यवाही हेतु P S कुतुबुमीनार मेट्रो स्टेशन भिजवाई जा रही है व एक नकल MHC(R) के हवाले की गई Ct जयवीर No 629/ND के द्वारा भिजवाई गई, दिनर नकुलत बजरिये डाक अफसरन वाला की खिदमत में अरसल होगी। बकलम DO।

Zero FIR Registration-> Action Taken tab में निम्न जानकारी भरें। अंत में Action Taken में सभी नीचे दी गई सभी (*) mandatory fields भरें उसके बाद Submit Button पर Click करके Zero FIR को Submit करेंगे तो ZERO FIR transfer हो जाएगी। Zero FIR Register करते समय Action Taken tab के अंतर्गत Action Taken By Default "Transferred" आता है।

Acts & Sections Occurrence Complainant FIR Contents Victim Information Accused Property of Interest Hurt Case Detail **Action Taken**

Action Taken* Transferred

State* CHANDIGARH

District* CHANDIGARH

Police Station* P.S. NORTH

Name of IO Vivek Kumar 05-I (inspe)

Save Submit Preview Close Clear All

4.3. Non Cognizable Report (NCR)

NCR report दर्ज करने के लिए सबसे पहले एक GD बनाई जाएगी। General Diary में Add General Diary Detail में click करें तब नीचे दी हुई window open हो जाएगी। फिर उसमें डाटा भरें।

54m 38s (Time left for GD Submission)

Date / Time 04/12/2018 14:42:38

Entry for (Officer)* SI (Sub-Inspector) Bhawani Singh/ 16140091

General Diary Type* Single GD Type Multiple GD Type

Select General Diary Type* Non-Cognizable Report

Subject* अज्ञानी NCR 427 IPC

Maximum character input limit: 183

GD Linking

S.No.	GD No.	GD Date	Entry Type	Action Taken	Delete

Acts & Sections

Acts Select

Sections Select

Add

Sl. No.	Acts	Section	Delete
1	IPC 1000	427	

General Diary Brief

इसका सारांश है कि नं० DD No. 16A दिल्ली पर नं० ASIRग सरकारी HC प्लावन No. 1222/ND जय नौका अवरर कालि एन सर्बिज कान्टि पोलि मूँ दिल्ली मुँका जवाँ पर वेकड कि एक इनेका नं० DLCAE1845 एन फोवज जो सडक के किनारे सडकी की और पूरे सडकी में अण लगी हुई थी। सडक पर फाल डिग्रेड की सडकी IC एरडीओ वी डेन बालमन सडक बुरर सडक के इरिपर नकल नकल पर वे। जो अण में लगी अण को डुवा रहे वे। और सडक पर ही उपरोक्त सडकी का सडक वी अडिन नोडन S/O वी इरी अण नोडन S/O D/4/7 फेकंड कलेर वीक सडक सण ड्राय वण डिग्रेड वी नोडन वे। जो बरिफिसन पर सडकी सडक वी अडिन नोडन नो बराल कि यह अण सडकी को लेकन कान्टि पोलि अण बा। और सडक कलेर 2.45 बजे दिन अण सडकी अवरर कालि एन सर्बिज कान्टि पोलि के सडके खडी वी और सडकी के सडक निकल ले वेकड की सडकी को के इरिपर से डुअर भिजल एण बा। एण एक यह डुअर सडक पर इरिपर डेर में सडकी में डुअर लक से अण लण मूँ और इल लक पूरे सडकी में अण लण मूँ और सडकी सडक ने ही 100 No. पर Call किण। फालर डिग्रेड की सडकी नौका पर में रडक अण वी। और एव लक सडकी में लगी अण को डुवाव ले पूरे सडकी लव लक जकवर सडक हो मूँ। इरिपर में कोई जलन का ड्रकलन मूँ हडक और जलन-डरलत पर एल बल कि सडकी के पाल में अण लणने से यह हडकल हडक है। इरिपर किनी का कोई डेर नही है यह हडकल डेरकडिवा हडक है। डिग्रेडि इलक U/S 427 IPC दर्ज की गई। यह हडकल जलन SHO सडक को बराल मूँ। इल सडक दर्ज

Preview Save **Submit** Clear Close

Mozilla Firefox
cas.cctns.gov.in:8080/cctns/regncr.htm?stov=VXPU-ODPM-F3YA-Z01H-J9HT-K05Q-TA9Q-25U6

Most Visited Getting Started online_test online_feedback

Welcome Date 04/12/2018 State District DELHI CENTRAL

Search & View General Diary Details

General Diary Number:
 Date Range From: DD/MM/YYYY
 Entry for (Officer):

General Diary Type: Non-Cognizable Report
 Date Range To: DD/MM/YYYY
 Subject:

Most Recent General Diary Entries

G.D No	Entry Type	Date / Time	Entry for (Officer)	Subject	General Diary Brief
023	Non-Cognizable Report	04/12/2018 14:42:38	SI (Sub-Inspector)/Bhawani Singh/16140091	कान्सी NCR 427 IPC	इस समय दर्द है कि मन ASI को DD No. 16A मिलने पर मन ASमय हरही HC Pawan No. 1222/ND जय मीन अउर ...

1 GO Total Pages: 1 Displaying records from 1 To 1 of 1 Records per page: 5

Welcome Date Login Time Sunil KUAMR 17/12/2018 15:54 State District Police Station DELHI CENTRAL KAMLA MARKET

Home General Diary Complain Citizen Services Registration Investigation Prosecution Reports DataBank Services Registers Search & Query

Registration of NCR

General Information **Acts & Sections** Complainant Information Non Complainant Information Property of Interest Witness Information Action Taken

Acts: IPC 1860
 Sections:

S.No.	Acts	Sections	Delete
1	IPC 1860	427	<input type="button" value="X"/>

Home General Diary Complain Citizen Services Registration Investigation Prosecution Reports DataBank Services Registers Search & Query

Registration of NCR

General Information Acts & Sections **Complainant Information** Non Complainant Information Property of Interest Witness Information Action Taken

Personal Information Address

UID:
 First Name*: Landline No. +91
 Middle Name: Mobile No. +91
 Last Name:
 Category:

Age Panel*
 Date of Birth:
 Age (Year / Month):
 Year of birth:
 Age Range (From-To):

General Information, Acts & Sections, Complainant Information, Non Complainant Information, Property of Interest, Witness Information, Action Taken अब एक-एक करके सभी tabs में information भरें। अंत में data save करने के लिए Submit button पर Click करें।

Home General Diary Complain Citizen Services Registration Investigation Prosecution Reports DataBank Services Registers Search & Query

Registration of NCR

General Information Acts & Sections Complainant Information **Non Complainant Information** Property of Interest Witness Information Action Taken

S.No.	Name of Non-complainant	Address	Edit	Delete
-------	-------------------------	---------	------	--------

Action taken* में “complaint is advised to approach the court” option को select करेंगे । अब इस screen में सभी fields में information लिखें और अंत में “Submit” button पर click करें।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Non Cognizable Report(NCR) » Registration of NCR

Registration of NCR

General Information | Acts & Sections | Complainant Information | Non Complainant Information | Property of Interest | Witness Information | **Action Taken**

Action Taken*

Upload Document(s)	S.No.	File Name	File type	File sub type
(Maximum file size limit-200 kb)	1	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.	-----Select-----	-----Select-----

4.3.2. NCR -> Search NCR Details

इस screen के अनुसार click करते ही एक नई window open हो जाएगी । जिसमें आप दिये गए option में से किसी भी एक option के जरिये NCR search कर सकते है ।

General Diary | Complaint | Citizen Services | Prosecution | Search & Query

Registration

- First Information Report (IIF-1)
- Non Cognizable Report(NCR)**
 - Registration of NCR
 - Search NCR Details**
 - Assigning of Investigating Officer for NCR
- Medico Legal Case (MLC)
- Missing Person
- Lost Property

Calendar: Nov 2018

Roles: _____

4.3.3. NCR -> Assigning of Investigating Officer for NCR

General Diary | Complaint | Citizen Services | Prosecution | Search & Query

Registration

- First Information Report (IIF-1)
- Non Cognizable Report(NCR)**
 - Registration of NCR
 - Search NCR Details
 - Assigning of Investigating Officer for NCR**
- Medico Legal Case (MLC)
- Missing Person
- Lost Property

Calendar: Nov 2018

Roles: _____

अब इस screen में NCR No को select करके Investigation officer assign करेंगे एक दूसरी window खुलेगी IO select करके अंत में “Submit” button पर click करें ।

Assigning Registered Non-Cognizable Reports(NCRs)to the Investigation Officer

NCR No

NCR Date Range

Complainant Name

Pending Registered NCRs for Investigation

S.No.	NCR No	NCR Date	NCR Brief
1	0021/2018	10/12/2018	Click Here For More
2	0020/2018	05/12/2018	Click Here For More
3	0019/2018	05/12/2018	शिकायतकर्ता ने थाने में आकर बताया कि ऋत ने मझे जान से मरने Click Here For More

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Non Cognizable Report(NCR) » Assigning of IO for NCR

Assigning Registered Non-Cognizable Reports(NCRs)to the Investigation Officer * Mandatory

Assign IO

Name of the Station In-Charge Rank

Court Order No.* Name of Court*

Date of Court Order* Name of IO*

Directions / Orders passed by the court*

जो NCR Court से वापस आती है Investigation करने के लिए उसमे यहाँ पर NCR में Investigation officer Assign करते है।

NCR Details

General Information | Acts & Sections | Complainant Information | Non Complainant Information | Property of Interest | Witness Information | Action Taken

Date/Time of Occurrence of Offence	<input type="text" value="17/12/2018 10:20"/>	Brief Description of NCR	To S.H.O. KAMLA MARKET New Delhi Sir, Re:- Lodgement of FIR threat to my life. Staling case I work with L.I.C, as an Admin officer, posted in Jeevan Bharti Building. On 17.12.18 I found my car DL-3CCK 2012 Ecosport – Red damaged. Again on 17.12.18 my car was parked in 2nd losemment of Jeevan Bharti Bldg. At 10:20 am, but found again damaged at 10:45 am on investigation from guards & CCTV footage person who was damaging the car caught in the footage & named- Sh- Sanjeev Sharma, Building Inspector.
Date/Time of Receiving Information	<input type="text" value="17/12/2018 10:45"/>		
GD / SD / DD Number	<input type="text" value="04017/12/2018 15:52"/>		
Beat No.	<input type="text"/>		
Name of Officer who registered NCR	<input type="text" value="Sunil KUAMR"/>		
Rank and Number of Officer who registered NCR	<input type="text" value="I (Inspector)D-3548"/>		

NCR No. पर Click करते ही एक नई screen open हो जाएगी। windows में सारी जानकारीयों भरकर submit करेंगे । नीचे दिखाई गई NCR कोर्ट से थाने में आती है U/S 156 (3) Cr.P.C.के तहत इसमें SHO अपने user ID & password से Assigning Registered Non-Cognizable Reports (NCR) to the Investigation Officer में I/O को assign करते है अंत में Submit Button पर click करते है ।

Search NCR Details

NCR No

NCR Date Range

Complainant Name

यहाँ पर NCR को search करने के लिए 3 option दिए हुए है NCR No , NCR Date , Complainant Name


Most Recent NCR

S.No.	NCR No	NCR Date	NCR Brief	NCR Status
1	0018/2018	14/11/2018	Investigation » Property Seizure(IIF - IV)»Search & View Details of Seized Property »> GD selected >Click Here For More	Registered
2	0017/2018	12/11/2018	Sagar The Indian Police Service, simply known as Indian Police or IPS, is one of the three All IndiaClick Here For More	Registered

4.4.1. Registration of Medico Legal Case



उपर दी गयी screen के अनुसार Click करने पर एक नई window open हो जाएगी। इस window में 5 tabs हैं – General Information, Injury details, Injured Information, Injurer Details, Place of occurrence एक-एक करके सभी tabs में informationType करें।



1) Medico Legal Case -> General Information:- सबसे पहले tab में General Information भरेंगे।

Type of MLC*Select.....
ChecklistSelect.....
Date of Reporting *	DD/MM/YYYY
G.D No *	
GD Date *	
FIR No	
Train Accident TypeSelect.....
Name of the EO / IO *Select.....
District	NEW DELHI
Name of Hospital *Select.....
Injured Person Brought to the Hospital By *Select.....
Date & Time of Sustaining Injury	
Add Questions	<input type="button" value="Add"/>
Special RequisitionsSelect.....
X-Ray required	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
DNA Required	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Brief description of incident and details of person who brought injured to hospital*	

2) Medico Legal Case-> Injury Details :- Injury की details इस tab में Type करें ।

3) Medico Legal Case-> Injured Information :- घायल व्यक्ति की details इस tab में Type करें।

4) MLC-> Injurer Details :- चोट पहुँचाने वाले की details लिखने के लिए Add New पर Click कीजिये ।

5) MLC-> Injurer Details - Add New click करने पर नीचे दी हुए windows खुलेगी इसमे जिस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है उसकी detail भरी जाती है , Injurer Detail नाम पता , जन्म तिथि , घर का पता इत्यादि Type किया जाता है ।

Injurer Details

UID	<input type="text"/>	Gender	<input type="text" value="----Select----"/>
First Name	<input type="text"/>	Nationality	<input type="text" value="INDIA"/>
Middle Name	<input type="text"/>	Age Panel	
Last Name	<input type="text"/>	Date of Birth	<input type="text" value="DD/MM/YYYY"/>
Other Particulars of Injurer Person	<input type="text"/>	Age (Year / Month)	<input type="text"/> / <input type="text"/>
		Year of birth	<input type="text"/>
		Age Range (From-To)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Category	<input type="text" value="----Select----"/>	<input type="button" value="Reset"/>	

Present Address

House No.	<input type="text"/>	Country	<input type="text" value="INDIA"/>
Street Name	<input type="text"/>	State	<input type="text" value="DELHI"/>
Colony / Locality / Area	<input type="text"/>	District	<input type="text" value="CENTRAL"/>
Village / Town / City	<input type="text"/>	Police Station	<input type="text" value="KAMLA MARKI"/>
Tehsil / Block / Mandal	<input type="text"/>	Pincode	<input type="text"/>
Present Address	Same as Permanent <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		

6) MLC-> Place of Occurrence:- घटना स्थल की details इस tab में लिखें ।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Date: Hemant 22/03/2016 17:56

State: DELHI, District: SOUTH, Police Station: DEFENCE COLONY

[Home](#) | [General Diary](#) | [Complaint](#) | [Registration](#) | [Investigation](#) | [Prosecution](#) | [DataBank Services](#) | [Citizen Services](#) | [Search & Query](#) | [Registers](#) | [Reports](#)

[Home](#) > [Registration](#) > [Medico Legal Case](#) > [Registration of Medico Legal Case](#)

MLC Request Form(Naksha Majroobi)
*Mandatory F

General Information
Injury Details
Injured Information
Injurer Details
Place of Occurrence

Is the Place Known* Yes No

Direction from Police Station*

Address

House No.	<input type="text"/>
Street Name	<input type="text"/>
Colony/Locality/Area	<input type="text"/>
Village / Town / City	<input type="text"/>
Tehsil / Block / Mandal	<input type="text"/>

Distance from Police Station(in km)*

Country	<input type="text" value="INDIA"/>
State	<input type="text" value="DELHI"/>
District	<input type="text" value="----Select----"/>
Police Station	<input type="text" value="----Select----"/>
Pincode	<input type="text"/>

Upload Document(s)	S No.	File Name	File type	File sub type	Description	Delete
1	Browse	No file selected	<input type="text" value="----Select----"/>	<input type="text" value="----Select----"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Copyright 2011 National Crime Records Bureau. All rights reserved.

अंत में "Submit" button पर Click करें ।

4.4.2. View Registered Medico Legal Case

The screenshot shows the CCTNS dashboard with a navigation menu on the left. The 'Registration' menu is expanded, showing options like 'First Information Report (IF-1)', 'Non Cognizable Report(NCR)', and 'Medico Legal Case (MLC)'. The 'Medico Legal Case (MLC)' option is selected, and a sub-menu is displayed with 'View Registered Medico Legal Case' highlighted. Other menu items include 'General Diary', 'Complaint', 'Citizen Services', 'Prosecution', 'Databank', 'Registers', and 'Malkhana Da'. A calendar for November 2018 is visible in the top right corner.

- उपर दी गयी screen के अनुसार click करने पर नीचे दी गई window open हो जाएगी जिसमें आप दिये गए options में से किसी एक option के माध्यम से MLC को search करें और संबंधित MLC के MLC No. पर Click करते ही MLC की सारी information आपके सामने आ जाएगी ।

The screenshot shows the CCTNS 'View Registered Medico Legal Case' search interface. The header includes the CCTNS logo, user information (Welcome Babu Lal, Date 05/03/2019, Login Time 12:13), and location information (State DELHI, District WEST, Police Station KIRTI NAGAR). The navigation bar shows the path: Home » Registration » Medico Legal Case » View Registered Medico Legal Case. The search form includes fields for 'MLC Request Number', 'Date Range' (DD/MM/YYYY), and 'Injured Person Name'. A 'Search' button is present. Below the search form, a table displays 'Most Recent MLC' records.

S.No.	MLC Request Number	Date	Injured Person Name	Police Station Name	Office Name
1	0081/2018	29/11/2018	zofdx fghvcv cubc	KIRTI NAGAR	WEST

At the bottom, there is a pagination control showing 'Total Pages: 1', 'Displaying records From 1 To 1 of 1', and 'Records per page 5'.

View Registered Medico Legal Case

Most Visited CCTNS Online Test (U... CCTNS

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Babu Lal
Date 05/03/2019
Login Time 12:13

State DELHI
District WEST
Police Station KIRTI NAGAR

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Medico Legal Case » View Registered Medico Legal Case

View Registered Medico Legal Case

Comments

General Information | Injury Details | Injured Information | Injurer Details | Place of Occurrence

Type of MLC	Accident	Checklist	
Date & Time of Sustaining Injury	29/11/2018 00:00		
Date of Reporting	29/11/2018	Sl. No.	Questions
G.D No	003		
GD Date	29/11/2018 00:12	Special Requisitions	Team of Doctors
FIR No	0121/2018	X-Ray required	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Train Accident Type		DNA Required	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Name of the EO / IO	Babu Lal	Brief description of incident and details of person who brought injured to hospital	sdffdggfjh dgfhgjjj edghd
Name of Hospital	Bhagat Hospital		
Injured Person Brought to the Hospital By	Self		

Address of the Hospital
D-2, Mayapuri, Delhi

-----Select----- **Print** **Close**

4.4.3. Add Medico Legal Case Report

Calendar: Nov 2018

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Roles

General Diary

Complaint

Citizen Services

Registration

Databank

Registers

Malkhana Da

Prosecution

NDC

First Information Report (IIF-1)
Non Cognizable Report(NCR)
Medico Legal Case (MLC)

Registration of Medico Legal Case
View Registered Medico Legal Case
Add Medico Legal Case Report
Change Enquiry Officer (MLC)
Transfer Medico Legal Case
Re-Registration of Transferred Medico Legal Case

Missing Person
Lost Property
Missing Cattle
Unidentified Dead Body / Unna
Police Control Room
Foreigner Registration
C-Form
Preventive Action
Unclaimed / Abandoned Property
Stranger Roll
Fire Incident
Un-Identified Person

atmer:User will be li
website belongs to N

in accordance with the law in force
overnment of India

- उपर दी गयी screen के अनुसार click करें और जिस MLC की case report submit करनी है तो उस MLC के MLC No. पर Click करें ।

Home	General Diary	Complaint	Citizen Services	Registration	Investigation	Prosecution	Reports	DataBank Services	Registers	Search & Query
Home » Registration » Medico Legal Case » Add Medico Legal Case Report										
Add Medico Legal Case Report										
Pending MLC										
S.No.	MLC Request Number	Date	Injured Person Name							
1	0076/2018	18/12/2018								

- MLC No. पर Click करते ही नीचे दी गई screen open हो जाएगी । इस tab में दो option है –MLC Report Details & Other details.
- MLC Report Details :- इस tab में आप MLC की report Type करें ।

Home	General Diary	Complaint	Citizen Services	Registration	Investigation	Prosecution	Reports	DataBank Services	Registers	Search & Query																														
Home » Registration » Medico Legal Case » Add Medico Legal Case Report																																								
Add Medico Legal Case Report *Mandatory																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> MLC Report Details Other Details </div>																																								
Date and Time of arrival of Injured Person in Hospital*			18/12/2018 00:00		Landline No.		+91																																	
Date & Time of Medical Inspection*			18/12/2018 11:00		Mobile No		+91																																	
Medical Officer Name*			PAWAN		Email ID																																			
Medical Officer Designation*			CMO		Date of MLC report preparation		18/12/2018 00:00																																	
<input type="button" value="Clear"/>																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nature of Injury*</th> <th>Location of Injury*</th> <th>Dimensions of Injury(c.m/m.m.)</th> <th>Injury caused by*</th> <th>Age of Injury / Time since Injury*</th> <th>Doctor's Opinion*</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">Nature of Injury, Location of Injury, Dimensions of Injury, Injury caused by, Time since Injury में information लिखें और "Add" button पर Click करें ।</td> </tr> <tr> <th>S.No.</th> <th>Nature of Injury</th> <th>Location of Injury</th> <th>Dimensions of Injury(m.m.)</th> <th>Injury caused by</th> <th>Age of Injury / Time since Injury</th> <th>Doctor's Opinion</th> <th>Delete</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Grievous</td> <td>HEAD</td> <td></td> <td>ACCIDENT</td> <td>ONE DAY</td> <td>HEAD INJURY</td> <td><input type="button" value="X"/></td> </tr> </tbody> </table>											Nature of Injury*	Location of Injury*	Dimensions of Injury(c.m/m.m.)	Injury caused by*	Age of Injury / Time since Injury*	Doctor's Opinion*		Nature of Injury, Location of Injury, Dimensions of Injury, Injury caused by, Time since Injury में information लिखें और "Add" button पर Click करें ।							S.No.	Nature of Injury	Location of Injury	Dimensions of Injury(m.m.)	Injury caused by	Age of Injury / Time since Injury	Doctor's Opinion	Delete	1	Grievous	HEAD		ACCIDENT	ONE DAY	HEAD INJURY	<input type="button" value="X"/>
Nature of Injury*	Location of Injury*	Dimensions of Injury(c.m/m.m.)	Injury caused by*	Age of Injury / Time since Injury*	Doctor's Opinion*																																			
Nature of Injury, Location of Injury, Dimensions of Injury, Injury caused by, Time since Injury में information लिखें और "Add" button पर Click करें ।																																								
S.No.	Nature of Injury	Location of Injury	Dimensions of Injury(m.m.)	Injury caused by	Age of Injury / Time since Injury	Doctor's Opinion	Delete																																	
1	Grievous	HEAD		ACCIDENT	ONE DAY	HEAD INJURY	<input type="button" value="X"/>																																	

c. Others Details:-

- Exhibits collected during MLC में जानकारी Type कीजिए ।
- Action Taken के combo box में जो कार्यवाही करनी है उसे select करें ।


- अंत में “Submit” button पर Click करें ।

4.5. Missing Person

सबसे पहले एक GD बनाई जाएगी । General Diary में Add General Diary Detail में click करें । उसके बाद सारी जानकारी खुली हुई windows में डालें ।


4.5.1. Registration of Missing Person :

Registration > Missing Person > Registration of Missing Person



उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नई window open हो जाएगी। जिसमें 5 tabs है – General Information, Complainant Information, Missing Person details, Physical Description of Missing Person, IO/EO details अब एक-एक करके सभी tabs में information भरें।

➤ **General Information:-** General Information type करके अंत में Submit button पर click करें।



➤ **Complaint Information :-** Personal information की details इस tab में type करते है ।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Bhawani Singh
 Date 29/11/2018
 Login Time 12:30
 NEW!! 29 PCR CALLS are pending

State DELHI
 District CENTRAL
 Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Missing Person » Missing Person Registration

Missing Person Registration *Mandatory Field

General Description | **Complainant Information** | Missing Person Details | Physical Description of Missing person | IO / EO Details

Personal Information | Address | Other Information

UID No. Gender*

First Name* Relation Type*

Middle Name Relative Name*

Last Name Email ID

Alias

Category

Communications
 Contact Details
 Mobile No.

Landline No.

जो व्यक्ति गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट लिखवाने थाने में आता है, इसमें उस शिकायतकर्ता की Personal information , Address , Other Information type की जाती है ।

➤ **Missing Person Details :-** Missing Person की Details नीचे दिये गये tabs में Type करते है ।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Bhawani Singh
 Date 29/11/2018
 Login Time 12:30
 NEW!! 29 PCR CALLS are pending

State DELHI
 District CENTRAL
 Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Missing Person » Missing Person Registration

Missing Person Registration *Mandatory Field

General Description | Complainant Information | **Missing Person Details** | Physical Description of Missing person | IO / EO Details

Personal Information | Address | Other Information

UID No.

First Name*

Middle Name

Last Name

Alias

Relation Type*

Relative Name*

Age Panel *
 Date of Birth

Gender*

Major / Minor Major Minor

Mobile No.

Landline No.

Email ID

इसमें missing person की Personal information Type की जाती है ।

Missing Person Registration *Mandatory Field

General Description | Complainant Information | Missing Person Details | Physical Description of Missing person | IO / EO Details

Personal Information | Address | **Other Information**

Country of Nationality

Any Ornaments/adorn/other Articles Wearing ? Yes No

If yes Provide Details

Religion

Category

Caste / Tribe

Education

Income Group

Occupation

इसमें missing person की other information Type की जाती है ।

इसमें missing person का Address Type किया जाता है ।

S.No.	Identification Type	Identification No.	Date of Issue	Place of Issue	Delete
1	Voter Card	12345678			<input type="button" value="X"/>

- **Physical Description of Missing Person :-** इस screen के दोनों tabs General & Other Information में missing person की physical information type करे ।

The screenshot shows the CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) interface. The user is logged in as Hemant on 22/03/2016 at 18:21. The location is DELHI SOUTH, DEFENCE COLONY. The navigation menu includes Home, General Diary, Complain, Registration, Investigation, Prosecution, DataBank Services, Citizen Services, Search & Query, Registers, and Reports. The current page is 'Missing Person Registration' under the 'Registration' menu. The 'Physical Description of Missing person' tab is selected, showing fields for Body Build Type, Body Complexion Type, Height Range From, and Height Range To. Below this, the 'General' and 'Other Information' tabs are visible, containing fields for Face, Lips, Teeth, Beard, Moustaches, Eyes Type, Hair Type, and Hair Color. A 'Clear' button is present on the right side of the form.

- **IO/EO Details :-** इस tab के माध्यम से IO/EO को Assign करें अंत में “Submit” button पर Click करें ।

The screenshot shows the CCTNS interface with the user logged in as Burari Dolo on 30/10/2017 at 15:00. The location is DELHI NORTH, BURARI. The navigation menu includes Home, General Diary, Complain, Registration, Investigation, Prosecution, DataBank Services, Citizen Services, Search & Query, Admin, Registers, Reports, and VCNB. The current page is 'Missing Person Registration' under the 'Registration' menu. The 'IO/EO Details' tab is selected, showing fields for Enquiry/Investigation Officer* (Asst. SI (Assistant Sub-)) and Last date of Report submission by EO (30/10/2017). A text box highlights the instruction: 'इसमे missing person के लिए Enquiry/Investigation officer Assign करने के लिए Select किया जाता है।'. A 'Clear' button is present on the right side of the form.

4.5.2. Search and View Missing Person Details

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome HANSI BISHT
Date 05/12/2018
Login Time 12:53

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

NEW!!:55 PCR CALLs are pending

General Diary, Complaint, Citizen Services, Registration, Databank, Registers, Malkhana Da, NDCA

Calendar: Dec 2018

Alerts & Reminders: Show Alerts & Reminders

Registration of Missing Person
 Search and View Missing Person Details
 Add Missing Person Enquiry Details
 Change Enquiry Officer (Missing Person)
 Review & Action Taken on Enquiry Report by SHO of Missing Person

Disclaimer: User will be liable for the accuracy of the information entered. This website belongs to the Government of India.

cctns.gov.in:8080/cctns/addenquirymissingperson.htm?stov=JU6M-U9C4-SUQS-W38G-W68S-L76F-LSEO-JIWW

➤ उपर दी गयी screen के अनुसार Click करने पर नीचे दी गई window open हो जाएगी ।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome HANSI BISHT
Date 05/12/2018
Login Time 12:50

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

NEW!!:55 PCR CALLs are pending

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Missing Person » Search and View Missing Person Details

Search and View Missing Person Details

Date Range: DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY
 Age Range:
 Missing Person Registration No:

Name:
 Gender: -----Select-----

Search Clear Close

Most Recent Missing Person Registration Details

S.No.	Photograph	Missing Person Registration No	Date of Registration	Name of the Missing Person	Linked FIR Belt No.	Police Station	Office Name
1		0046/2018	05/12/2018	NEERAJ KUMAR YADAV		KAMLA MARKET	

1 2 > go Total Pages: 9 Displaying records From 1 To 5 of 42 Records per page 5

- ऊपर दिये गए search option में से किसी एक method के जरिये Missing person की details search करें। Missing person की details देखने के लिए Missing Person Registration No. पर click करें। click करते ही एक नई window open हो जाएगी जिसमें missing person की details (जो पहले से भरी हुई है) दिखाई देगी।

The screenshot shows the CCTNS web portal interface. At the top, there is a navigation bar with the CCTNS logo and user information: Welcome HANSI BISHT, Date 12/03/2019, Login Time 11:20, State DELHI, District CENTRAL, Police Station KAMLA MARKET. Below the navigation bar, the page title is "Search and View Missing Person Details" with a sub-header "Missing Person Registration Belt No.: 0052".

The main content area is divided into two sections:

General Description	Complainant Information	Missing Person Details	Physical Description of Missing person	ID / EO Details	Enquiry Details	Action Taken
Date & Time of Registration	13/12/2018 12:52			Missing Date / Time	13/12/2018 08:00	
General Diary Number	005			Place of Missing	School raja bajar	
General Diary Date / Time	13/12/2018 12:36			FIR		
				Brief of Incident		

At the bottom right of the page, there are "Print" and "Close" buttons.

4.5.3. Add Missing Person Enquiry Details

The screenshot shows the CCTNS web portal interface. At the top, there is a navigation bar with the CCTNS logo and user information: Welcome HANSI BISHT, Date 05/12/2018, Login Time 12:53, State DELHI, District CENTRAL, Police Station KAMLA MARKET. A red banner at the top right says "NEW!!:55 PCR CALLS are pending".

The main content area is divided into several sections:

- General Diary**: Registration, Databank, Registers, Malkhana Da
- Complaint**: First Information Report (IIF-1), Dead Animal/Carcass Registration, Non Cognizable Report(NCR), Medico Legal Case (MLC)
- Citizen Services**: Missing Person, Lost Property, Missing Cattle, Unidentified Dead Body / Unna
- Prosecution**: Registration of Missing Person, Search and View Missing Person Details, Add Missing Person Enquiry Details, Change Enquiry Officer (Missing Person), Review & Action Taken on Enquiry Report by SHO of Missing Person
- Calendar**: A calendar for December 2018 showing dates from 1 to 31.
- Alerts & Reminders**: Show Alerts & Reminders
- NDCA**: National Disaster Control Authority

The "Add Missing Person Enquiry Details" option is highlighted in the "Registration of Missing Person" dropdown menu.

At the bottom of the page, there is a disclaimer: "Disclaimer: User will be liable for the accuracy of the information provided. This website belongs to the Government of India." and a URL: "cctns.gov.in:8080/cctns/addenquirymissingperson.htm?stov=JU6M-U9C4-SUQ5-W38G-W685-L76F-LSE0-JIWW".

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नीचे दी हुई window खुलेगी जिसमें Missing Person Registration No. पर Click करे ।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome HANSI BISHT
Date 05/12/2018
Login Time 12:56

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Missing Person » Add Missing Person Enquiry Details

Add Missing Person Enquiry Details * Mandatory Fields

Pending Missing Person Registrations

S.No.	Photograph	Missing Person Registration No	Date of Registration	Name of the Missing Person	Action Taken
1		0046/2018	05/12/2018	NEERAJ KUMAR YADAV	Open

1 go Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 1 of 1 Records per page 5

Close

Missing Person Registration No पर click करते ही नीचे दी हुई window खुलेगी जिसमें information लिखकर अंत में "Submit" button पर Click करें ।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome HANSI BISHT
Date 05/12/2018
Login Time 12:56
NEW! 52 PCR CALLs are pending

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Missing Person » Add Missing Person Enquiry Details

Add Missing Person Enquiry Details * Mandatory Fields

Enquiry Details | Personal | Previous Enquiry Details

Missing Person Registration No 0046
Missing Date & Time 04/12/2018
Missing Place स्कूल राजकिय विद्यालय कमला मार्केट नई दिल्ली
Name of Enquiry Officer HANSI BISHT
Date of submission of Enquiry Report * 05/12/2018

Is the Missing Person Found * Yes No

Action Taken* Closed-FIR/UIDB Registered

Details of Enquiry * MISSING नील उम 10 साल की मुम्बुदुनी पर SHO साहब की अनुमति से मुकदमा दर्ज Computer पर करवाया जा रहा है।

Action taken मे 3 option आते है।

- Open
- Closed - Found
- Closed - FIR/UIDB Registered

Submit Clear Close

➤ Change Enquiry Officer (Missing Person)

The screenshot shows the CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) dashboard. At the top, it displays the user's name (HANSI BISHT), login time (12:53), and location (DELHI, CENTRAL, KAMLA MARKET). A notification banner indicates "NEW!!!:55 PCR CALLS are pending". The main navigation menu includes options like General Diary, Registration, Databank, Registers, and Malkhana. The "Registration" menu is expanded, showing options such as "Missing Person", "Lost Property", and "Unidentified Dead Body / Unna". The "Missing Person" option is further expanded, and the "Change Enquiry Officer (Missing Person)" option is highlighted with a red box. A calendar and "Alerts & Reminders" section are also visible on the right side of the dashboard.

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नीचे दी गई window open हो जाएगी ।

Change Enquiry Officer (Missing Person) *Mandatory Fields

Pending Missing Person Registrations

S.No.	Missing Person Registration No	Date	Name of the Missing Person
1	0047/2018	05/12/2018	azam khan
2	0046/2018	05/12/2018	NEERAJ KUMAR YADAV
3	0048/2018	05/12/2018	PAWAN

अब जिस Missing Person के लिए new enquiry officer assign करना है उस Missing Person Registration No. पर click करें । Click करते ही नीचे दी गई window open हो जाएगी । इस screen में "New Enquiry Officer" में से officer का नाम select करें और "Reason for Change" में officer change करने का reason लिखें और अंत में "Submit" button पर Click करें ।

Change Enquiry Officer

General Personal Enquiry Details

Missing Person Registration No: 0046

Missing Date & Time: 04/12/2018

Missing Place: स्कूल राजकीय विद्यालय कमला माकि

Name of Enquiry Officer: HANSI BISHT

Rank: SI (Sub-Inspector)

Belt No.: 3148/D

New Enquiry Officer*: Bhawani Singh

Rank: SI (Sub-Inspector)

Belt No.: D-5462

Reason for change*: Previous IO transferred

New Enquiry Officer" में से officer का नाम select करें और "Reason for Change" में officer change करने का reason type करे।

Submit Clear Close

4.5.4. Review & Action Taken on Enquiry Report by SHO of Missing Person

नीचे दी गई window में SHO को Review & Action Taken on Enquiry Report by SHO of Missing Person अपने USER ID से इस option पर click करेंगे। तो यह window open होगी इसमें Missing Person के No पर click करेंगे तो एक नई window open होगी।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Sunil KUAMR
Date 05/12/2018
Login Time 14:54
NEW!!!:53 PCR CALL

General Diary

Registration

Databank

Registers

Malkhana Da

Complaint

Citizen Services

Prosecution

NDCA

First Information Report (IIF-1)
Non Cognizable Report(NCR)
Dead Animal/Carcass Registration
Medico Legal Case (MLC)
Missing Person
Lost Property
Missing Cattle
Undetermined Dead Body / Unna
Police Control Room
Foreigner Registration
C-Form
Preventive Action
Unclaimed / Abandoned Property
Stranger Roll
Fire Incident

Registration of Missing Person
Search and View Missing Person Details
Add Missing Person Enquiry Details
Change Enquiry Officer (Missing Person)
Review & Action Taken on Enquiry Report by SHO of Missing Person

Disclaimer:User will be li
This website belongs to t
cctns.gov.in:8080/cctns/approvejectmissingpersonsearch.htm?stov=AG-IT-ACE-LWKS.COM

इसमें SHO अपनी User ID से इस ऑप्शन को click करके Action Taken का option select करेंगे और Description type करेंगे और फिर अंत में submit button पर click करेंगे।

Review & Action Taken on Enquiry Report by SHO

Missing Person Registration No:

Name of Missing Person:


Date: 05/12/2018 05/12/2018

Clear Search

Sl. No.	Missing Person Registration No	Name of Missing Person	Date of Registration
1	0046/2018	NEERAJ KUMAR YADAV	05/12/2018

4.6. Lost Property


सबसे पहले एक GD बनाई जाएगी। General Diary में Add General Diary Detail में click करें। उसके बाद सारी जानकारी खुली हुई windows में type करें।



The screenshot shows the CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) interface. At the top, there is a navigation bar with links like Home, General Diary, Complaint, etc. The main content area is titled "Add General Diary Details" and includes a warning: "WARNING : Police officer is liable to be dismissed for making false entry vide PPR 22.50* Mandatory Fields". Below the warning, a red banner indicates "53m 58s (Time left for GD Submission)". The form contains several fields: "Date / Time" (05/12/2018 15:24:22), "Entry for (Officer)*" (Inspector/Sunil KUAMR/16960014), "General Diary Type*" (Single GD Type selected), "Select General Diary Type*" (Lost Property), and "Subject*" (Lost Mobile Phone). There is also a "GD Linking" section with a table and a "Link GD" button. At the bottom, there is a "General Diary Brief*" section with a text area and buttons for "Preview", "Save", "Submit", "Clear", and "Close".

इसमें गुमशुदा property जैसे mobile phone, document etc की entry की जायेगी।

4.6.1. Registration of Lost property



The screenshot shows the main menu of the CCTNS system. The menu is organized into several categories: "General Diary", "Complaint", "Citizen Services", "Registration", "Prosecution", "Databank", "Registers", "Malkhana Da", "Help / FAQs", and "NDC". The "Registration" category is highlighted, and a sub-menu is open, showing options like "First Information Report (IIF-1)", "Non Cognizable Report(NCR)", "Medico Legal Case (MLC)", "Missing Person", "Lost Property", "Missing Cattle", "Unidentified Dead Body / Unna", "Police Control Room", "Foreigner Registration", "C-Form", "Preventive Action", "Unclaimed / Abandoned Property", "Stranger Roll", "Fire Incident", and "Un-Identified Person". The "Lost Property" option is highlighted, and a sub-menu is open, showing options like "Registration of Lost Property", "Enquiry Report on Lost Property", and "Search and view Lost Property Details". A calendar is visible in the top right corner, showing the date 20/11/2018. A disclaimer is visible at the bottom left: "Disclaimer: User will be liable for any loss or damage caused by the use of this website belongs to the Government of India".

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करने पर नीचे दी गई window open हो जाएगी। जिसमें information टाइप करें।

➤ **Property Details :-** नीचे खुली हुई windows में सारी जानकारीयां type करें ।

सबसे पहले इस icon पर click करें click करते ही निचे दिए हुए search & View General Diary Details वाला page open होगा उसमे GD select करके Submit button पर click करेंगे और Brief of incident type करेंगे ।

Sl.No.	Property Category	Property Subtype	Estimated Value (in Rs)	Edit	Delete
1	ELECTRICAL AND ELECTRONIC GOODS	MOBILE PHONE	3000		

G.D No.	Entry Type	Date / Time	Entry for (Officer)	Subject	General Diary Brief
013	Lost Property	05/12/2018 15:24:22	I (Inspector) Sunil KUAMR/16960014	Lost Mobile Phone	इस समय शिकायतकर्ता ने थाने में आकर बताया कि उसका Mobile Phone No 9876543212 रास्ते में खो गई व...
016	Lost Property	04/12/2018 14:11:33	I (Inspector) Ankita Katyar/63636363	rthfgdthghghghf hfgfghfthf	vdfgxdthfthhhghfthfth
019	Lost Property	28/11/2018 14:40:03	I (Inspector) Siddharth Malhotra / 44444444	इसला अम्द PCR Call	Incident Address: SHOP NO 28 NEW DELHI RLY STN K BAHAR BAG KI SHOP, Incident Description: QRL...

नीचे वाली window में शिकायतकर्ता की Personal Information और Address टाइप करेंगे ।

- **Enquiry officer details** :- इस tab में आप EO का नाम select करें और enquiry complete करने की संभावित date को select करें और remarks type करें और अंत में Submit button पर click करें ।

Registration of Lost Property

Property Details | Complainant Details | **Details of Enquiry Officer**

Name of EO: SI (Sub-Inspector) HANSI

Rank: SI (Sub-Inspector)

Expected Date to Complete the Enquiry: 05/12/2018

Remarks:

character left

Submit **Close**

4.6.2. Enquiry Report on Lost Property

The screenshot shows the CCTNS main menu with several categories: General Diary, Complaint, Citizen Services, Prosecution, Databank, Registers, and Malkhana Da. The 'Registration' category is expanded, showing options like First Information Report (IIF-1), Non Cognizable Report (NCR), Medico Legal Case (MLC), Missing Person, **Lost Property**, Missing Cattle, Unidentified Dead Body / Unna, Police Control Room, Foreigner Registration, C-Form, Preventive Action, Unclaimed / Abandoned Property, Stranger Roll, Fire Incident, and Un-Identified Person. A sub-menu for 'Lost Property' is also visible, containing 'Registration of Lost Property', **Enquiry Report on Lost Property**, and 'Search and view Lost Property Details'. A calendar on the right shows the date 20/11/2018. A disclaimer at the bottom states: 'Disclaimer: User will be liable for any loss or damage in accordance with the law in force in India. This website belongs to the Government of India'.

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नीचे दी गई window open हो जाएगी ।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome: HANSI BISHT
Date: 05/12/2018
Login Time: 16:20
NEW!! 57 PCR CALLs are pending

State: DELHI
District: CENTRAL
Police Station: KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Lost Property » Enquiry Report

Enquiry Report *Mandatory Field

Pending Lost Property

S.No.	Lost Property Registration No.	Date of Property Missing	Complainant Name
1	0013/2018	05/12/2018	Karam

1 go Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 1 of 1 Records per page 5

Close

Enquiry Report * Mandatory Fields

Details of Enquiry Officer | Property Details | Complainant Details

Name of EO: HANSI BISHT

Enquiry Brief*: शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन की तलाश की गई | 1959 character left

यहाँ पर Enquiry Report on Lost Property की report IO द्वारा type की जाती है Details of Enquiry officer ->Name of IO & Enquiry Brief* यह दो field भरे जाते है।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome: HANSI BISHT | Date: 05/12/2018 | Login Time: 16:20 | State: DELHI | District: CENTRAL | Police Station: KAMLA MARKET

Home | General Diary | Enquiry Report

Home » Registration » Lost Property » Enquiry Report

Property Details

Outcome of enquiry* Recovered Not Recovered

Remarks: शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन की तलाश की गई | 1959 character left

Upload Document(s)*

S.No.	File Name	File type	File sub type	Description
1	<input type="button" value="Browse..."/>	No file selected.Select.....Select.....

अगर Lost Property Recovered/Not Recovered होती है तो उसकी detail इस form मे type करेंगे और कोई document इससे संबन्धित हो तो उसे Browse करके upload करेंगे।

Item Name: MOBILE PHONE | Quantity: 1

Estimated Value(Lost / Stolen / Involved)(in INR): | Make: SAMSUNG

S.No. | ID Type | ID No.


Uploaded Documents

S.No.	File Name	File type	File sub type	Description
-------	-----------	-----------	---------------	-------------


4.6.3. Search & View Lost Property Details

Search & View Lost Property Details की गयी screen के अनुसार Click करने पर नीचे दी गई

Window open हो जाएगी।



Lost Property को search करते ही Lost property की window खुल जाएगी इसमें GD No. पर click करते ही lost property के registration no. पर click करें।



4.7. Missing Cattle

सबसे पहले एक GD बनाई जाएगी। General Diary में Add General Diary Detail में click करें। उसके बाद सारी जानकारी खुली हुई windows में type करें।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Sunil KUAMR
Date 05/12/2018
Login Time 15:23
NEW!! 54 PCR CALLS are pending

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » General Diary » Add General Diary Details

WARNING : Police officer is liable to be dismissed for making false entry vide PPR 22.50* Mandatory Fields

53m 58s (Time left for GD Submission)

Date / Time 05/12/2018 15:24:22
Entry for (Officer)* I (Inspector)/ Sunil KUAMR/16960014
General Diary Type* Single GD Type / Multiple GD Type
Select General Diary Type* Missing Cattle
Subject* Lost Mobile Phone
Maximum character input limit: 183

GD Linking

S.No.	GD No.	GD Date	Entry Type	Action Taken	Delete

General Diary Brief*

इस समय त्रिकारकर्ता ने धरने में अकर बताया कि उसका Mobile Phone No 9876543212 रास्ते में छो गया है कोई व्यक्ति उसका दुकपयोग न कर सके।

Preview Save **Submit** Clear Close

4.7.1. Registration of Missing Cattle

General Diary | Complaint | Citizen Services | Prosecution | Search & Query

Registration

- First Information Report (IIF-1)
- Non Cognizable Report(NCR)
- Medico Legal Case (MLC)
- Missing Person
- Lost Property
- Missing Cattle**
- Unidentified Dead Body / Unna
- Police Control Room
- Foreigner Registration
- C-Form
- Preventive Action
- Unclaimed / Abandoned Property
- Stranger Roll
- Fire Incident
- Un-Identified Person

Registration of Missing Cattle

- Search & View Missing Cattle Details
- Add Enquiry Details (Missing Cattle)
- Change Enquiry Officer

Calendar: Nov 2018

Alerts & Reminders: Show Alerts & Reminders

Roles: [Dropdown]

NDC


Disclaimer: User will be liable for any misuse of information on this website belongs to the Government of India

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नीचे दी गई screen open हो जाएगी। इस screen में सारी information type करे। अंत में “Submit” button पर click करें।


Registration of Missing Cattle *Mandatory Field

Date of Registration	30/10/2015 13:07	Landline No.	+91 <input type="text"/>
G.D No*	<input type="text"/>	Type of Cattle*	-----Select-----
GD Date*	<input type="text"/>	Appearance Detail*	<input type="text"/>
Date of Missing	DD/MM/YYYY <input type="text"/>	Value of Cattle	<input type="text"/>
Place of Missing	<input type="text"/>	Additional Information	<input type="text"/>
Name of Owner*	<input type="text"/>	Name of Enquiry Officer*	-----Select-----
Address of Owner		Country	INDIA
House No	<input type="text"/>	State	DELHI
Street Name	<input type="text"/>	District	SOUTH WEST
Colony/Locality/Area	<input type="text"/>		


4.7.2. Search and View Missing Cattle Details




General Diary



Complaint




Citizen Services




Registration

- First Information Report (IF-1)
- Non Cognizable Report(NCR)
- Medico Legal Case (MLC)
- Missing Person
- Lost Property
- Missing Cattle**
- Unidentified Dead Body / Unna
- Police Control Room




Prosecution




Search & Query

- Registration of Missing Cattle
- Search & View Missing Cattle Details**
- Add Enquiry Details (Missing Cattle)
- Change Enquiry Officer




Databank



Registers

- Foreigner Registration
- C-Form
- Preventive Action
- Unclaimed / Abandoned Property
- Stranger Roll
- Fire Incident
- Un-Identified Person



NDC

Calendar

Nov 2018

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Roles:

Alerts & Reminders

Show Alerts & Reminders

Disclaimer: User will be liable for any loss or damage caused to him or his property in accordance with the law in force. This website belongs to Government of India.

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करने पर नीचे दी गई window open हो जाएगी। इस screen में पहले Missing Cattle को search करें और फिर missing cattle registration की details देखने के लिए Registration No. पर Click करें।

इस option के द्वारा Missing Cattle report को search करने के लिए सबसे पहले missing cattle No पर क्लिक करके एक नई window open होगी जिसमे Print के option पर click करके missing cattle report print करते है।

2	0002/2018	17/09/2018	Ram Naresh
3	0001/2018	17/09/2018	Kapil

Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 3 of 3 Records per page 5

4.7.3. Add Enquiry Details (Missing Cattle)

Missing Cattle की add enquiry detail के लिए यहाँ पर click करे।

Registration

- First Information Report (IF-1)
- Non Cognizable Report(NCR)
- Medico Legal Case (MLC)
- Missing Person
- Lost Property
- Missing Cattle
 - Registration of Missing Cattle
 - Search & View Missing Cattle Details
 - Add Enquiry Details (Missing Cattle)
 - Change Enquiry Officer
- Unidentified Dead Body / Unna
- Police Control Room
- Foreigner Registration
- C-Form
- Preventive Action
- Unclaimed / Abandoned Property
- Stranger Roll
- Fire Incident
- Un-Identified Person

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नीचे दी हुई window खुलेगी जिसमें Missing Cattle Registration No. पर Click करें।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Siddharth Malhotra
 Date 26/11/2018
 Login Time 10:16
 NEW!! 91 PCR CALLs are pending

State DELHI
 District CENTRAL
 Police Station KAMLA MARKET

Home » Registration » Add Enquiry Details

Add Enquiry Details

Registration No. Date Range DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY

Owner Name

Pending Missing Cattle

S.No.	Missing Cattle Registration No.	Date	Name of Owner
1	0001/2018	17/09/2018	Kapil

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Siddharth Malhotra
 Date 26/11/2018
 Login Time 10:16
 NEW!! 91 PCR CALLs are pending

State DELHI
 District CENTRAL
 Police Station KAMLA MARKET

Home » Registration » View Missing Cattle Details

Search & View Missing Cattle

Missing Cattle Information | Previous Enquiry Details | Action Taken

GD / SD / DD Number	021	Appearance Detail	aaaaaaaaasasd asdsaf asdfa
GD / SD / DD Date & Time	17/09/2018 01:48	Value of Cattle	12000
Date of Missing	16/09/2018	Additional Information	
Place of Missing	asdfa	Name of Enquiry Officer	Jai Pal Singh
Name of Owner	Dikshant	Rank of Enquiry Officer	Asst. SI (Assistant Sub-Inspe
Landline No.		No of Enquiry Officer	292/C
Type of Cattle	Dog		
Address of Owner		Country	INDIA
House No.	b38	State	DELHI
Street Name			

Print

➤ Missing Cattle Registration No. पर click करते ही नीचे दी हुई window खुलेगी जिसमें Enquiry officer अपनी enquiry की report इस form में type करके अंत में **“Submit”** button पर Click करेगा।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Siddharth Malhotra
 Date 26/11/2018
 Login Time 10:16
 NEW!! 91 PCR CALLs are pending

State DELHI
 District CENTRAL
 Police Station KAMLA MARKET

Home » Missing Cattle Registrations » Add Enquiry Details

Add Enquiry Details

Date of Enquiry* 26/11/2018 10:20 Register FIR* Yes No
 Details of Enquiry* Is missing cattle found? (Y/N)* Yes No

Name of Kanj House searched
 Date of search DD/MM/YYYY
 Name of Habitual Cattle Thieves Enquired
 Date of enquiry of habitual cattle thieves enquired DD/MM/YYYY
 Name of Cattle sale Market Enquired
 Date of enquiry of cattle sale market enquired

Missing Cattle Information | Previous Enquiry Details

Date of Registration
 Other Cattle Type

G.D No 001
 GD Date 17/09/2018 10:15
 Date of Missing 17/09/2018
 Place of Missing Dwarka
 Contact Number 91-11-11111111
 Name of Owner Kapil

Value of Cattle 5000
 Name of Enquiry Officer Siddharth Malhotra
 Rank of Enquiry Officer I (Inspector)
 Number of Enquiry Officer 123456
 Additional Information Missing Cattle Registration

Clear Submit Close

इस form में Date of Enquiry*, Detail of Enquiry*, Register FIR* Yes/No, Is Missing cattle Found*? Yes/No इसकी जानकारी IO द्वारा type की जाएगी।

4.8. Unidentified Dead Body/Unnatural Death

सबसे पहले एक GD बनाई जाएगी General Diary में Add General Diary Detail में click करें। उसके बाद सारी जानकारी खुली हुई windows में type करें।

4.8.1. Registration of Unidentified Dead Body/Unnatural Death

इसमें UIDB का Registration किया जाता है।

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नीचे दी गई window open हो जाएगी जिसमें 6 tabs है – General Information, Complainant/Informant Details, Deceased Person information, Dead Body Details, Identifier Details, Unnatural DeathDetails अब एक-एक करके सभी tabs में information Type करे ।

➤ **UIDB -> General Information :-** इस form में UIDB की General information type की जाएगी ।

The screenshot shows the 'General Information' tab of the CCTNS registration form. The form includes fields for:

- GD / SD / DD Number*
- GD / SD / DD Date & Time* (DD/MM/YYYY hh:mm)
- Body type* (Identified/Unidentified)
- Death Type* (Natural/Unnatural)
- Inquest done by*
- Source of Information* (dropdown)
- Case Type* (dropdown)
- District (CENTRAL)
- Police Station (KAMLA MARKET)
- Place Where Body Found Details (text area)
- Distance from P.S* (mtrs / K M)
- FIR Number (text)
- Name of the Investigation / Enquiry Officer* (dropdown)
- Date & Time of death (DD/MM/YYYY hh:mm)
- Date & Time of information (DD/MM/YYYY hh:mm)
- Mode of information* (dropdown)
- Brief of Incident (text area)

➤ **UIDB -> Complainant/Informant Details :-** इस tab में Complainant/Informant की details लिखें । इसके लिए 3 tabs दिये गये है – Personal, Address, Other Information, इन सभी tabs में सारी information type करे ।

The screenshot shows the 'Informant Information' tab, specifically the 'Personal' sub-tab. Fields include:

- UID
- First Name (CT KAMAL)
- Middle Name
- Last Name
- Relation Type (dropdown)
- Mobile No (+91)
- Landline No. (+91)
- Email ID
- Relative Name

The screenshot shows the 'Informant Information' tab, specifically the 'Address' sub-tab. Fields include:

- Permanent Address:
 - House No.
 - Street Name
 - Colony / Locality / Area (KAMLA MARKET PS)
 - Village / Town / City (DELHI)
 - Tehsil / Block / Mandal
- Present Address: Same as Permanent (Yes/No)
- Country (INDIA)
- State (DELHI)
- District (CENTRAL)
- Police Station (KAMLA MARKET)
- Pincode

Unidentified Dead body & Unnatural Death Registration

General Information **Informant Information** Deceased Person Information Dead Body Details Identifier Details

Personal Address **Other Information**

Country of Nationality INDIA
 ID Type -----Select-----
 ID No. Add

S.No.	Identification Type	ID No.	Place of Issue	Date of Issue	Delete
1	AADHAR CARD(UIDAI)	1234567890898			

- **UIDB -> Deceased Person Information** :- मृत व्यक्ति की details इस tab में type करे इसके लिए दिये गए सभी tabs- Personal, Address, Other Information, Physical Description में बारी-बारी से सारी information type करें ।

Unidentified Dead body & Unnatural Death Registration

General Information Informant Information **Deceased Person Information** Dead Body Details Identifier Details

Personal Address Other Information Physical Description

UID
 First Name* AJAY
 Middle Name KUMAR
 Last Name
 Alias
 Relation Type* Father
 Occupation ARTIST
 Age Panel *
 Date of Birth DD/MM/YYYY
 Age (Year / Month)

Mobile No +91 0987654323
 Landline No. +91
 Email ID
 Relative Name* MUKESH

Unidentified Dead body & Unnatural Death Registration

General Information Informant Information **Deceased Person Information** Dead Body Details Identifier Details

Personal **Address** Other Information Physical Description

Permanent Address
 House No. 12
 Street Name
 Colony / Locality / Area KAMLA MARKET
 Village / Town / City* DELHI
 Tehsil / Block / Mandal
 Present Address* Same as Permanent Yes No

Country* INDIA
 State* DELHI
 District* CENTRAL
 Police Station* KAMLA MARKET
 Pincode

Unidentified Dead body & Unnatural Death Registration

General Information Informant Information **Deceased Person Information** Dead Body Details Identifier Details

Personal Address **Other Information** Physical Description

Country of Nationality * INDIA
 Identification Type -----Select-----
 ID No. Add

Religion* HINDU
 Category* GENERAL

S.No.	Identification Type	ID No.	Place of Issue	Date of Issue	Delete
1	AADHAR CARD(UIDAI)	12345678908976543			

Unidentified Dead body & Unnatural Death Registration * Mand

General Information | Informant Information | **Deceased Person Information** | Dead Body Details | Identifier Details

Personal | Address | Other Information | **Physical Description**

Gender* Body Complexion Type
 Height Range From feet Inches c.m. Body Build Type
 Height Range To feet Inches c.m.

General | Other Information

Face

Face Type	<input type="text" value="NORMAL"/>	Lips	<input type="text" value="NORMAL LIPS"/>
Forehead	<input type="text" value="NORMAL FORE"/>	Nose	<input type="text" value="----Select----"/>
Cheek	<input type="text" value="HIGH CHEEK"/>	Teeth	<input type="text" value="----Select----"/>
Chin	<input type="text" value="----Select----"/>	Beard	<input type="text" value="----Select----"/>
Pox pitted	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Moustaches	<input type="text" value="----Select----"/>

Eyes

Eyes	<input type="text" value="NORMAL"/>	Eye Brow Thickness	<input type="text" value="NORMAL"/>
Blind	<input type="text" value="----Select----"/>	Eye Brow Shape	<input type="text" value="----Select----"/>
Eyes Color	<input type="text" value="----Select----"/>	Blinking	<input type="text" value="----Select----"/>
Using Specs	<input type="text" value="----Select----"/>	Squint	<input type="text" value="----Select----"/>
Specs Type	<input type="text" value="----Select----"/>		

Deformities

Legs	<input type="text" value="----Select----"/>	Toe Extra	<input type="text" value="----Select----"/>
Ears Missing	<input type="text" value="----Select----"/>	Toe Missing	<input type="text" value="----Select----"/>
Face Deformed	<input type="text" value="----Select----"/>		

Hair

Hair	<input type="text" value="----Select----"/>	Hair Color	<input type="text" value="----Select----"/>
Using Wig	<input type="text" value="----Select----"/>	Hair Dye	<input type="text" value="----Select----"/>
Hair Length	<input type="text" value="----Select----"/>	Hair Cut	<input type="text" value="----Select----"/>

UIDB -> Dead Body Details:-Dead Body की details इस tab में लिखें । इसके लिए एक tab दिया गया है – **Physical Condition** जिसमे आप Dead Body की physical condition के बारे में information type करें ।

Unidentified Dead body & Unnatural Death Registration * Mand

General Information | Informant Information | Deceased Person Information | **Dead Body Details** | Identifier Details

Physical Condition | Action Taken

Condition of the Dead Body*	<input type="text" value="NORMAL BODY CONDITION"/> Maximum character input limit : 279	Any mark on neck or other evidence of strangulation*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Detail of Blood on the Body*	<input type="text" value="NOT FOUND BLOOD IN BODY"/> Maximum character input limit : 106	Was there any rope or other article around the neck	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Probable weapon of offence used	<input type="text"/> Maximum character input limit : 60	Had such rope / article apparently been used to produce strangulation	<input type="text"/> Maximum character input limit : 120
Detail of injuries/marks of violence on body*	<input type="text" value="NO INJURY MARK ON THE BODY"/> Maximum character input limit : 274	Is there any Conditions Evidencing Suicide*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No

Unidentified Dead body & Unnatural Death Registration

General Information | Informant Information | Deceased Person Information | **Dead Body Details** | Identifier Details

Physical Condition **Action Taken**

Whether postmortem done?*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Whether skull preserved*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Provide Details (If Yes)	<input type="text"/>	Provide Details (If Yes)	<input type="text"/>
	Maximum character input limit : 350		Maximum character input limit : 350
Whether viscera preserved?*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Whether body samples have been collected for DNA fingerprinting or FSL examination*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Provide Details (If Yes)	<input type="text"/>	Provide Details (If Yes)	<input type="text"/>
	Maximum character input limit : 300		Maximum character input limit : 350
Details of report received*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Whether finger tips preserved*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Provide Details (If Yes)	<input type="text"/>	Provide Details (If Yes)	<input type="text"/>
	Maximum character input limit : 350		Maximum character input limit : 350

➤ **UIDB-> Identifier Details:-** इस tab में शिनाख्त करने वाले व्यक्ति की information लिखें। इसके लिए दिये गये दोनों tabs Personal Information और Address में information type करें।

Unidentified Dead body & Unnatural Death Registration

General Information | Informant Information | Deceased Person Information | Dead Body Details | **Identifier Details**

Personal Information | Address

UID	<input type="text"/>	Relationship with Dead Person	Father
First Name*	BHUPENDER	Mobile No	+91 9876543212
Middle Name	SINGH	Landline No.	+91 <input type="text"/> <input type="text"/>
Last Name	<input type="text"/>	Email ID	<input type="text"/>
Relation Type*	Father		
Relative Name*	VIJAY		

Unidentified Dead body & Unnatural Death Registration

General Information | Informant Information | Deceased Person Information | Dead Body Details | **Identifier Details**

Personal Information | **Address**

Permanent Address		Country*	INDIA
House No.	15	State*	DELHI
Street Name	KAMLA MARKET	District*	CENTRAL
Colony / Locality / Area	MAHABIR GALI	Police Station*	KAMLA MARKET
Village / Town / City*	DELHI	Pincode	<input type="text"/>
Tehsil / Block / Mandal	<input type="text"/>		
Present Address*	Same as Permanent <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome: Siddharth Mahotra
 Date: 29/11/2018
 Login Time: 10:16
 NEW!! PCR CALLS are pending

State: DELHI
 District: CENTRAL
 Police Station: KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » View Unidentified Dead Body or Unnatural Death Details

Search & view unidentified dead body or Unnatural death

Comments

General Information | Informant Information | Deceased Person Information | Dead Body Details

General Diary Number	003	FIR No	
GD Date	29/10/2018 16:13	Name of the Investigation / Enquiry Officer	HC (Head Constable)/ VIPIN
Body type	Identified <input type="radio"/> Unidentified <input type="radio"/>	Date & Time of death	
Death Type	Natural <input type="radio"/> Unnatural <input type="radio"/>	Date&Time of information	
Inquest done by	fdvsdv s ss sdvovdvw	Source of Information	PCR Call
Case Type			
State	DELHI	District	CENTRAL
Police Station	KAMLA MARKET	Brief of Incident	
Inquest No.	81620231800026	Mode of information	Online

Please Mouse Over Each Detail

-----Select----- Print Close

4.8.3. UIDB -> Add Punchnama Details

इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही एक नई window खुलेगी ।

Calendar: Nov 2018

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Roles: [Dropdown]

General Diary
Complaint
Citizen Services
Registration
Prosecution
DataBank
Search & Query
Registers
Malkhana Da

First Information Report (IIF-1)
 Non Cognizable Report(NCR)
 Medico Legal Case (MLC)
 Missing Person
 Lost Property
 Missing Cattle
 Unidentified Dead Body / Unnatural Death
 Registration of Unidentified Dead Body / Unnatural Death
 Search and View Unidentified Dead Body / Unnatural Death details
Add Punchnama Details
 Approval to waive post mortem
 Prepare post mortem request
 Add postmortem report
 Add enquiry details
 Change enquiry officer
 Unidentified Dead Body Transfer
 Re-Registration of Transferred UIDB

Disclaimer: User will be liable for any loss or damage caused by the use of this website belongs to NCT of Delhi

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नीचे दी गई window open हो जाएगी । जिसमें पहले Unidentified Dead body की registration को search करें और Inquest No. पर Click करें ।

Add Panchnama(Inquest) Details(for Unidentified dead Body or Unnatural death)

Dead Body: Advance Search

Inquest No.

Name of Dead Person

From Date

To Date

Most Recent Unidentified dead Body or Unnatural death Registration

S No.	Inquest No.	Date	Name	Address	Status
1	0007/2015	14/10/2015			Unidentified
2	0005/2015	07/10/2015	ram	delhi	Identified
3	0004/2015	23/09/2015			Unidentified
4	0002/2015	29/07/2015			Unidentified
5	0001/2015	23/07/2015			Unidentified

Click करते ही नीचे दी गई window open हो जाएगी । इस window में दो tabs है Inquest Details and Witness details दोनों tabs में बारी-बारी से information type करें ।

UIDB -> Add Panchnama Details: - Panchnama की Details इस tab में type करे । अंत में Panchnama details को submit करने के लिए “Submit” button पर Click करें ।

Add Panchnama Details(for a Dead Person) * Mandatory

Inquest Details | Witness Information

Inquest No.

Name of Dead Person

Name of Magistrate

Belongings recovered from deceased*

Person Name to whom belongings are handed over*

Date of Panchnama*

Name of the Police officer who conducted Panchnama*

Opinion of the police officer who conducted Panchnama(Inquest)*

Upload Files	S.No.	File Name	File type	File sub type	Description	Delete
	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- **UIDB -> Witness Information :-** Witness की information इस tab में type करे । इसके लिए “Add New” button पर Click करें ।

Add New button पर click करते ही यह page open होगा, जिसमें witness की details दिये हुए दोनों tabs - **Personal Information** और **Address** में type करे । Witness की information भरने के बाद “Save”button पर click करें ।

4.8.4.UIDB -> Prepare Post Mortem Request

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Sunil KUAMR
Date 07/12/2018
Login Time 16:10

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Unidentified Dead Body / Unnatural Death » Prepare Post-mortem Request

Prepare Post-mortem Request(for a Dead Person)

Dead Body: Advance Search

Inquest No. _____
Name of Dead Person _____
Date of Registration _____

इस window में UIDB No पर click करेंगे तो एक नई window खुलेगी
Prepare Postmortem Request (for dead body).

Search Clear Close

Most Recent Unidentified dead Body or Unnatural death Registration

S.No.	Inquest No.	Date	Name	Address	Status
1	0017/2018	20/09/2018	sdzfsdfsdfdsfsadf	dsfgsdfgsdfgsdfgsdfg KAMLA MARKET CENTRAL DELHI INDIA	Registered, Enquiry Officer Assigned

1 go Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 1 of 1 Records per page 5

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Sunil KUAMR
Date 07/12/2018
Login Time 16:10

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Unidentified Dead Body / Unnatural Death » Prepare Post-mortem Request

Prepare Post-mortem Request(for a Dead Person) * Mandatory Fields

General Information Dead Person Information Hospital Information

Select Post Mortem Repest Mortem

Name of the Enquiry / Investigation Officer* Sunil KUAMR
Date on which sent for post-mortem* DD/MM/YYYY
Name of Police Officer carrying the dead body to hospital* -----Select-----
Request for Lady Doctor -----Select-----

Inquest No. 0017
Opinion sought and exhibits/property sent along with dead body* Add

इस Form में सारी Information type करके (Prepare Postmortem Request (for dead body).
अंत में Submit button पर Click करेंगे।

Submit Close

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Unidentified Dead Body / Unnatural Death » Prepare Post-mortem Request

Prepare Post-mortem Request(for a Dead Person)

General Information Dead Person Information Hospital Information

District* CENTRAL Hospital Name* City Hospital
Address of the Hospital Pusa Road, Old Rajinder Nagar, Delhi

इस Form (Window) में Genreal Information , Dead Person Information , Hospital Information तीनों information बारी-बारी से भरकर अंत में Submit करेंगे।

Submit Close

Submit करते ही नीचे एक Window खुतेगी जिसमें लिखा हुआ आएगा successfully prepared post- mortem request for Inquest No. 0017.click here to print पर click करते ही print निकल आएगा।

Prepare Post-mortem Request(for a Dead Person)

✓ Successfully prepared post-mortem request for Inquest No. 0017 [Click here to Print](#)

4.8.5. UIDB -> Add Post Mortem Report

इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही एक नई window खुलेगी ।

Registration

- First Information Report (IIF-1)
- Non Cognizable Report(NCR)
- Medico Legal Case (MLC)
- Missing Person
- Lost Property
- Missing Cattle
- Unidentified Dead Body / Unnatural Death
- Police Control Room
- Foreigner Registration
- C-Form
- Preventive Action
- Unclaimed / Abandoned Property
- Stranger Roll
- Fire Incident
- Un-Identified Person
- Registration of Unidentified Dead Body / Unnatural Death
- Search and View Unidentified Dead Body / Unnatural Death details
- Add Panchnama Details
- Approval to waive post mortem
- Prepare post mortem request
- Add postmortem report
- Add enquiry details

Add Post-mortem Report (for Dead Person)

- Dead Body: Advance Search -

Inquest No.

Name of Dead Person

Date of Registration

इस No पर click करते ही नीचे वाली Window open होगी ।

Most Recent Unidentified dead Body

S.No.	Inquest No.	Date	Name	Address
1	0017/2018	20/09/2018	sdzdsfksdksadf	dstjsgdsfsgdsfsg KAMLA MARKET CENTRAL DELHI INDIA

1 go Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 1 of 1 Records per page 5

Add Post-mortem Report (for Dead Person)

General Information

Action Taken Post Mortem Repest Mortem

Name of Enquiry / Investigation Officer

Date on which sent for post-mortem

Date of Post-mortem Report *

Name of the Doctor *

Designation of the Doctor *

Inquest No.

Name of Police Officer carrying the dead body to hospital

Post-mortem Report No. *

Opinion of the Doctor *

Maximum character input limit : 182

S.No. Name of Doctor Designation Delete

Cause of the death *

Body/Exhibits release to whom

Date on which Body is Released

Sl. No. Opinion sought and exhibits/property sent along with dead body

इस Form मे Add Post Mortem Report को Enquiry ऑफिसर द्वारा type किया जाता है तमाम Mandatory feild * type करके अंत मे Submit बटन पर click किया जाता है ।

UIDB-> Add Enquiry Details:- इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही एक नई window खुलेगी ।



UIDB -> Add Enquiry Details-> इस Form में Add Enquiry detail (for unidentified dead body or unnatural death) Report को Enquiry ऑफिसर द्वारा type किया जाता है सारे Mandatory feild * type करके अंत में Submit बटन पर click किया जाता है ।

The screenshot shows the 'Add Enquiry Details' form for unidentified dead body or unnatural death. The form is titled 'Add Enquiry Details(for unidentified dead body or unnatural death)' and has a red asterisk indicating mandatory fields. The form is divided into several sections:

- Enquiry Details:**
 - Date of Enquiry*: 14/01/2019
 - Details of Enquiry*: At this time one Unidentifi dead body report register. (Maximum character input limit : 947)
 - Is the Dead Person identified?*: Yes No
 - GD Entry Number*: 007
 - GD Date / Time*: 14/01/2019 15:08:17
 - Cause of Death: (Maximum character input limit : 200)
 - Action Taken: ----Select----
- Buttons:** Submit, Clear, Close
- General Information:**
 - General Diary Number: 001
 - GD Date: 20/09/2018 06:35
 - Body type: Identified Unidentified
 - Death Type: Natural Unnatural
 - Inquest done by: dsfsgdsfsgdsfsg
 - Case Type: ASI Pawan
 - FIR No: (Empty)
 - Name of the Investigation / Enquiry Officer: I (Inspector)/ Sunil KUAMR/ 1
 - Date & Time of death: (Empty)
 - Date&Time of information: (Empty)
 - Source of Information: Others
 - Suh case Type: (Empty)

4.8.6. Change Enquiry Officer

इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही एक नई window खुलेगी।

The screenshot shows the main menu of the application. The 'Registration' menu is expanded, showing options like 'First Information Report (IIF-1)', 'Non Cognizable Report(NCR)', 'Medico Legal Case (MLC)', 'Missing Person', 'Lost Property', 'Missing Cattle', 'Unidentified Dead Body / Unnatural Death', 'Police Control Room', 'Foreigner Registration', 'C-Form', 'Preventive Action', 'Unclaimed / Abandoned Property', 'Stranger Roll', 'Fire Incident', and 'Un-Identified Person'. The 'Unidentified Dead Body / Unnatural Death' option is selected, and its sub-menu is open, showing options like 'Registration of Unidentified Dead Body / Unnatural Death', 'Search and View Unidentified Dead Body / Unnatural Death details', 'Add Panchnama Details', 'Approval to waive post mortem', 'Prepare post mortem request', 'Add postmortem report', 'Add enquiry details', and 'Change enquiry officer'. The 'Change enquiry officer' option is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'Change Enquiry Officer (for Dead Person)' page. The page has a navigation bar with 'Home', 'General Diary', 'Complaint', 'Citizen Services', 'Registration', 'Investigation', 'Prosecution', 'Reports', 'DataBank Services', 'Registers', and 'Search & Query'. The breadcrumb trail is 'Home » Registration » Unidentified Dead Body / Unnatural Death » Change Enquiry Officer'. The page title is 'Change Enquiry Officer (for Dead Person)'. There is a search bar with a 'Search' button. Below the search bar, there is a table titled 'Most Recent Unidentified dead Body or Unnatural death Registration'. The table has columns for S.No., Inquest No., Date, Name, Address, and Status. The table contains 5 records. The 4th record is highlighted with a red box. Below the table, there is a pagination control showing '12 »' and 'Total Pages: 5 Displaying records From 1 To 5 of 21 Records per page 5'.

The screenshot shows the 'Change Enquiry Officer (for Dead Person)' page. The page has a navigation bar with 'Home', 'General Diary', 'Complaint', 'Citizen Services', 'Registration', 'Investigation', 'Prosecution', 'Reports', 'DataBank Services', 'Registers', and 'Search & Query'. The breadcrumb trail is 'Home » Registration » Unidentified Dead Body / Unnatural Death » Change Enquiry Officer'. The page title is 'Change Enquiry Officer (for Dead Person)'. There is a 'New Investigation / Enquiry Officer Details' form. The form has a 'New Investigation / Enquiry Officer*' field with a dropdown menu showing 'HANSI BISHT SI (Sub-In)'. There is a 'Reason for change*' field with a text area containing 'Previous IO transfer in new Police station'. There is a 'Submit' button. Below the form, there is a 'General Information' tab. The 'General Information' tab has fields for 'General Diary Number' (021), 'GD Date' (06/12/2018 09:12), 'Body type' (Identified/Unidentified), 'Death Type' (Natural/Unnatural), 'Inquest done by' (Inquest done by), 'Case Type', 'Other Information', 'FIR No.', 'Name of the Investigation / Enquiry Officer' (Inspector/ Naresh Kumar/), 'Date & Time of death', 'Date&Time of information', 'Source of Information', 'Telephone', 'Sub case Type', and 'Inquest No.' (81620231800028).

उपर करते ही नीचे दी गई Window खुलकर आएगी जिसमें बारी-बारी से सभी 6 tabs में information type करेंगे ।

- **Preventive Action / Istagasa / Kalandara -> General Information :-** Click करते ही नीचे दी गई Window खुलकर आएगी जिसमें information type करेंगे ।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Rambir Singh
Date 12/11/2018
Login Time 15:43

State DELHI
District SHAHDARA
Police Station GEETA COLONY

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Preventive Action » Register Preventive Action / Istagasa / Kalandara

Register Preventive Action / Istagasa / Kalandara *Mandatory Field

General Information | Acts & Sections | Petitioner Details | Accused Details | Witness Details | Incident Details | Surety Details

GD Number* 039
GD Date 06/11/2018 22:48
Date/Time of Reporting* DD/MM/YYYY hh:mm

Source of Information* -----Select-----
Place of Incident*
Date/Time of Incident* DD/MM/YYYY hh:mm

Clear

- **Preventive Action ->Acts & Sections :-** इस tab में Acts & Sections Select करें और Add button पर Click करें ।

Register Preventive Action / Istagasa / Kalandara *Mandatory Field

General Information | Acts & Sections | Petitioner Details | Accused Details | Witness Details | Incident Details | Surety Details

Acts* THE PETROLEUM AND MINERALS PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) A1
Sections* 15

Add

- **Preventive Action -> Petitioner Details :-** इस tab में Complainant की Information type करेंगे ।

Register Preventive Action/Istagasa/Kalandara *Mandatory Field

General Information | Acts & Sections | Petitioner Details | Accused Details | Witness Details | Incident Details | Surety Details

Personal Information | Address

UID
First Name*
Middle Name
Last Name
Police Officer* Yes No
Rank/Name/PIS No*

Landline No. +91
Mobile No. +91
Relation Type -----Select-----
Relative Name

Register Preventive Action / Istagasa / Kalandara

General Information | Acts & Sections | **Petitioner Details** | Accused Details | Witness Details | Incident Details | Surety Details

Personal Information | **Address**

Permanent Address

House No.	<input type="text"/>	Country*	INDIA
Street Name	<input type="text"/>	State*	DELHI
Colony / Locality / Area	<input type="text"/>	District*	CENTRAL
Village / Town / City*	<input type="text"/>	Police Station	KAMLA MARKET
Tehsil / Block / Mandal	<input type="text"/>	Pincode	<input type="text"/>

Present Address* Same as Permanent Yes No

➤ **Preventive Action -> Accused Details** :- Accused की information इस tab में type करेंगे । इसके लिए **Add New** button पर Click करें जिसके बाद एक window खुलेगी जिसमें Accused की information लिखकर **Save** button पर Click करेंगे ।

Accused Details | Witness Details | Incident Details | Surety Details

Relation Type	Relative Name	Delete
<input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Add From Existing"/>		

Accused Information

Personal Information | Address | Other Information | Physical Description

Is the case against Police Personnel?*	Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Officer ID (If case against a Police Personnel)	-----Select-----
UID	<input type="text"/>	Relation Type	-----Select-----
First Name*	<input type="text"/>	Relative Name	<input type="text"/>
Middle Name	<input type="text"/>	Mobile No	+91 <input type="text"/>
Last Name	<input type="text"/>	Landline No.	+91 <input type="text"/> <input type="text"/>
Alias	<input type="text"/>	Email Id	<input type="text"/>
Alias1	<input type="text"/>		
Gender*	-----Select-----		
Marital Status	-----Select-----		
Whether Medical Examination is required to determine the Age*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No		
Date of Birth	<input type="text"/>		
Age	<input type="text"/>		

➤ **Preventive Action -> Witness Details :-** इस tab के माध्यम से Witness की Information type करेंगे । इसके लिए **Add New** button पर Click करें और उसके बाद एक window खुलेगी जिसमें Witness की details लिखें और अंत में **Save** button पर Click करें ।

General Information | Acts & Sections | Petitioner Details | Accused Details | **Witness Details** | Incident Details | Surety Details

S No. Witness Details Delete **Add New**

Witness Information

Personal Information | Address

UID _____ Landline No. +91 _____
 First Name* _____ Mobile No. +91 _____
 Middle Name _____ Email ID _____
 Last Name _____ Gender -----Select-----
 Relation Type -----Select-----
 Relative Name _____

Age Panel
 Date of Birth _____
 Age (Year / Month) _____
 Year of birth _____
 Age Range (From-To) _____

Witness Information

Personal Information | **Address**

Permanent Address
 House No. _____ Country* INDIA
 Street Name _____ State* DELHI
 Colony / Locality / Area _____ District* CENTRAL
 Village / Town / City* _____ Police Station KAMLA MARKET
 Tehsil / Block / Mandal _____ Pincode _____
 Present Address* Same as Permanent Yes No

Clear **Save** Close

इस tab के माध्यम से Witness की Information -> Personal Information और Address type करेंगे । इसके लिए Add New button पर Click करेंगे और उसके बाद एक नई window खुलेगी जिसमें Witness की details type करेंगे और अंत में Save button पर Click करेंगे ।

➤ **Preventive Action -> Incident Details:** - इस tab के माध्यम से incident (घटना) की information type करेंगे और उसके बाद **Surety** Details की information type करेंगे और अंत में Submit button पर click करेंगे तो Petty Case No. Display होगा ।

Register Preventive Action / Istigasa / Kalandara

General Information | Acts & Sections | Petitioner Details | Accused Details | Witness Details | **Incident Details** | Surety Details

Details of Incident* _____ Order No. _____

Action Taken _____ Send for Judicial Custody Yes No

Follow up developments(u/s 118 to 124 CrPC) _____ Document to be uploaded (If any) Browse... No file selected.

Name of Executive Magistrate _____ Remarks _____

Court Name _____

Date of order issued DD/MM/YYYY

Submit Close

4.9.2. View Details of Preventive Action

The screenshot shows the CCTNS web application interface. The 'Preventive Action' menu item is highlighted in the left sidebar. A callout box points to the 'View Details of Preventive Action' option in the dropdown menu. The callout text reads: "पहले से Registered Preventive action/Istagasa/Kalandara की details को देखने के लिए यहाँ पर click करें।"

उपर दी गयी screen पर Click करते ही नीचे दी गई window open हो जाएगी जिसमें सबसे पहले Petty Case No. लिखकर "Search" button पर Click करें। Search करने के बाद Preventive Action/Istagasa/Kalandara की details को देखने के लिए Petty Case No. पर Click करें।

The screenshot shows the CCTNS web application interface. The search criteria are: Petty Case No. (0011/2015), Date of Registration (DD/MM/YYYY), and Police Station (KAMLA MARKET). The search results table is as follows:

S No.	Petty Case No.	Date of Registration
1	0011/2015	15/10/2015
2	0010/2015	07/10/2015
3	0009/2015	07/10/2015
4	0008/2015	01/10/2015
5	0007/2015	01/10/2015

The pagination shows 12 records per page, displaying records from 1 to 5 of 11 records.

Note: - Petty case/kalandara में यदि किसी accused को arrest करना है या कोई Property Seizure करनी है या फिर किसी accused की personal search की detail भरनी है तो Investigation module में जाकर प्रत्येक sub-Module में जाकर information type करनी होगी।

4.9.3. Externment Proposal Details Submitted by SHO

Externment (तडीपार या 47 DPAct) Proposal Details Submitted केवल SHO की ID से ही होगी जो Accused बार-बार अपराध की वारदात को अंजाम देता है उस व्यक्ति का Externment (तडीपार या 47 DPAct) Proposal बनाया जाता है ।

The screenshot shows the NCRB portal dashboard. The 'Registration' menu is expanded, and 'Preventive Action' is selected. A sub-menu is visible with the following items:

- Register Preventive Action /Istagasa/ Kalandara
- View Details of Preventive Action
- Externment Proposal Details submitted by SHO**
- Submission of Externment Proposal by SDPO/ACP/DSP to SP/DCP
- Approval / Rejection of Externment proposal by DCP / SP
- Court Proceedings (For Externment)

The screenshot shows the 'Externment Proposal Details submitted by SHO' form. The 'Personal Information' tab is active, and the 'Address' sub-tab is selected. The form contains the following fields:

House No.	12A	Country*	INDIA
Street Name	Mahabir Enclave	State*	DELHI
Colony / Locality / Area	LAXMI NAGAR	District*	EAST
Village / Town / City*	DELHI	Police Station	SHAKARPUR
Tehsil / Block / Mandal		Pincode	

Present Address* Same as Permanent Yes No

The form also includes a 'Witness (Unveiling Certificate)' field and 'Submit' and 'Close' buttons.

Externment Proposal Details Submitted by SHO इस Externment Proposal Form मे Accused Person की Personal information और General Information SHO द्वारा type की जाती है ।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Preventive Action » Externment Proposal Details submitted by SHO

Externment Proposal Details submitted by SHO *Mandatory Fields

Externment Proposal form | **Memo of Evidence Details** | Camera Statement Details | Conviction Slip

Police Station: KAMLA MARKET District: CENTRAL

Witness Details

S.No.	Witness Name	Delete
<input type="button" value="Clear"/> <input type="button" value="Add New"/>		

Externment Proposal Details Submitted by SHO इस Externment Proposal Form में Memo of Evidence Details SHO द्वारा type की जाती है।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Preventive Action » Externment Proposal Details submitted by SHO

Externment Proposal Details submitted by SHO *Mandatory Fields

Externment Proposal form | Memo of Evidence Details | **Camera Statement Details** | Conviction Slip

Camera Statement of Witnesses in sealed cover attached* Yes No

Upload Document(s)*	S.No.	File Name	File type	File sub type	Description	Delete
	1	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.	-----Select-----	-----Select-----		<input type="button" value="x"/>

Externment Proposal Details Submitted by SHO इस Externment Proposal Form में Camera Statement Details SHO द्वारा upload or type की जाती है।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Sunil KUAMR
Date 11/01/2019
Login Time 15:33

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Preventive Action » Extermnt Proposal Details submitted by SHO

Extermnt Proposal Details submitted by SHO *Mandatory Fields

Extermnt Proposal form | Memo of Evidence Details | Camera Statement Details | **Conviction Slip**

General Information | **Address**

Permanent Address

House No.	<input type="text"/>	Country	INDIA
Street Name	<input type="text"/>	State	DELHI
Colony / Locality / Area	<input type="text"/>	District	CENTRAL
Village / Town / City	Delhi	Police Station	KAMLA MARKET
Tehsil / Block / Mandal	<input type="text"/>	Pincode	<input type="text"/>

Present Address Same as Permanent Yes No

Clear

Extermnt Proposal Details Submitted by SHO इस Extermnt Proposal Form मे Conviction slip Detail इसमे Address SHO द्वारा type किया जाता है और अंत मे Submit Button पर Click किया जाएगा तो एक no. मिल जाएगा ।

Submit Close

This website belongs to National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India

Extermnt Proposal Details SHO द्वारा type किया जाता है और अंत मे Submit Button पर Click किया जाएगा तो एक no. मिल जाएगा ।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Preventive Action » Extermnt Proposal Details submitted by SHO

Extermnt Proposal Details submitted by SHO *Mandatory Fields

✓ Extermnt Proposal details successfully submitted to SDPO.Registration No. is 0001/2019 [Click here to Print](#)

Name of Criminal*

Relation Type

Relative Name

Address

Search

S.No.	Criminal Name	FIR No	Date of FIR	Sections	Police Station
-------	---------------	--------	-------------	----------	----------------

4.9.4. Submission of Externment proposal by SDPO/ACP

ACP/SDPO अपनी ID से login करेंगे।

The screenshot shows a dashboard with various icons for 'General Diary', 'Complaint', 'Citizen Services', 'Registration', 'Databank', 'Registers', and 'Malkhana Da'. The 'Registration' icon is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, listing various report types. The 'Preventive Action' option is highlighted with a red box, and its sub-menu is also open, with 'Submission of Externment Proposal by SDPO/ACP/DSP to SP/DCP' highlighted with a red box. Other options in the sub-menu include 'Register Preventive Action /Istagasa/ Kalandara', 'View Details of Preventive Action', 'Externment Proposal Details submitted by SHO', 'Approval / Rejection of Externment proposal by DCP / SP', and 'Court Proceedings (For Externment)'. The top right shows a 'Calendar' for November 2018 and an 'Alerts & Reminders' section.

उपर दी गयी screen पर Click करने के बाद नीचे दी हुई window खुलेगी। जिसमें externment proposal no. Enter करके और police station select करने के बाद search button पर click करने के बाद externment proposal no. पर click करें।

The screenshot shows the 'Submission of Externment Proposal by SDPO/ACP/DSP to SP/DCP' form. The breadcrumb trail is 'Home » Registration » Preventive Action » Submission of Externment Proposal by SDPO / ACP / DSP to SP / DCP'. The form fields are: 'Externment Proposal No.' with value '0005', 'Date of Externment' with value 'DD/MM/YYYY', and 'Police Station' with a dropdown menu showing 'KAMLA MARKET'. Below the form is a table with the following data:

S.No.	Externment Proposal No.	Extermee Name	FIR No	Police Station	Date of Externment
1	0005/2019	Kalia	0159/2018	KAMLA MARKET	14/01/2019

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Preventive Action » Submission of Externment Proposal by SDPO / ACP / DSP to SP / DCP

Submission of Externment Proposal by SDPO / ACP / DSP to SP / DCP Mandatory

Submission of Externment Proposal

Remarks* Sir please approve for Externment Proposal

इस Form में ACP/SDPO Submission of Externment Proposal को DCP के लिए Remarks type करके submit button पर click करेंगे।

Submit Clear Close

Memo of Evidence Details | Camera Statement Details | Conviction Slip


Police Station: KAMLA MARKET District: CENTRAL

Witness Details

S.No.	Witness Name

[Externment Proposal form](#) |
 [Identification Certificate](#) |
 [Certificate of Correctness](#) |
 [Witness \(Unveiling Certificate\)](#)

नीचे खुली हुई Window में ACP/SDPO Submission of Externment Proposal को DCP के लिए Remarks type करके submit button पर click करने पर एक No. Genrate हो जाएगा।

 **CCTNS**
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome: Amit Kaushik State: DELHI
Date: 14/01/2019 District: CENTRAL
Login Time: 14:39 Office Name: Sub Divisional Office of Police (SDOP)

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Preventive Action » Submission of Externment Proposal by SDPO / ACP / DSP to SP / DCP

Submission of Externment Proposal by SDPO / ACP / DSP to SP / DCP


Submission of Externment Proposal by SDPO/ACP/DSP to SP/DCP Saved Successfully 00052019 [Click here to Print](#)

Externment Proposal No.* Date of Externment DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY


Police Station*

4.9.5. Approval/Rejection of Externment Proposal by DCP/SP

DCP/SP अपनी ID से ही login करेंगे ।




उपर दी गयी screen पर Click करने के बाद नीचे दी हुई window खुलेगी जिसमें Extermnt के लिए DCP अपनी ID से login करेंगे । Extermnt proposal no type करके police station select करेंगे उसके बाद search button पर click करके extermnt proposal no. पर click करेंगे ।



4.9.6. Court Proceeding (for Externment)

Court Proceeding for Externment के लिए DCP अपनी ID से login करेंगे ।



उपर दी गयी screen पर Click करने के बाद नीचे दी हुई window में external proposal no. Type करके police station को select करेंगे और search button पर click करने के बाद externment proposal no. पर click करेंगे ।



Click करने के बाद नीचे दी हुई window खुलेगी जिसमें 3 tabs है - Memo of Evidence Details, Court Proceeding Details, Defence Witness Details जिनमें बारी-बारी से information भरेंगे (Court Proceeding Requirement के मुताबिक) ।

- **Memo of Evidence Details** -> इस form में Memo of Evidence Details को type किया जाता है।

Court Proceedings (For Externment)			
Memo of Evidence Details		Court Proceeding Details	Defence Witness Details
Police Station	TILAK MARG	District	NEW DELHI
First Name of Witness	Ram	Evidence Details	Test data entry
Middle Name of Witness		Statement of Witness	
Last Name of Witness			
Date of Statement	DD/MM/YYYY		
Notice Issued to Accused *	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		

- **Court Proceeding Details** -> इस form में Court Proceeding Details को type किया जाता है।

Court Proceedings (For Externment)			
Memo of Evidence Details		Court Proceeding Details	Defence Witness Details
Criminal Appeared*	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	Reply Received from accused*	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Please upload the Reply *			Browse...

- **Defence Witness Details** -> इस form में Defence Witness Details को type किया जाता है।

Court Proceedings (For Externment)			
Memo of Evidence Details		Court Proceeding Details	Defence Witness Details
General Information		Address	
First Name		Result of Trial	<input type="radio"/> Approve <input type="radio"/> Reject
Middle Name		Name of DM	
Last Name		Statement Details	
Date of Statement	DD/MM/YYYY	Details of Order by Court*	
Reply by Defence Council			
Date of Order*	DD/MM/YYYY		
Cross Examination by Court Judge/Prosecution Counsel			

अंत में submit button पर click किया जाता है।



4.10. Un-Claimed/Abandoned Property

सबसे पहले एक GD बनाई जाएगी। General Diary में Add General Diary Detail में click करें। उसके बाद जानकारी खुली हुई windows में type करें।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome: Burari Dolo
Date: 31/10/2017
Login Time: 15:55

State: DELHI
District: NORTH
Police Station: BURARI

Home | General Diary | Complaint | Registration | Investigation | Prosecution | DataBank Services | Citizen Services | Search & Query | Admin | Registers | Reports | VCNB

Home » General Diary » Add General Diary Details

Add General Diary Details WARNING : Police officer is liable to be dismissed for making false entry vide PPR 22.50 * Mandatory Field

Date/Time (DD/MM/YYYY HH:MM)*: 31/10/2017 14:00

Entry for (Officer)/Government Servant/Public*: HC (Head Constable)/ B

General Diary Type*: Single GD Type Multiple GD Type

Select General Diary Type*: Unclaimed Property

Subject:

Maximum character input limit: 200

Acts & Sections

Acts: Select

Sections: Select Add

S No.	Acts	Section	Delete
1	DELHI POLICE ACT 1978	66	<input type="checkbox"/>

General Diary Brief

Preview Save Submit Clear Close

4.10.1. Registration of Unclaimed/Abandoned Property

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome: Bhawani Singh
Date: 28/11/2018
Login Time: 14:20

State: DELHI
District: CENTRAL
Police Station: KAMLA MARKET

NEW!!:1 PCR CALLs are pending

Calendar: Nov 2018

Alerts & Reminders: Show Alerts & Reminders Yes No

General Diary

Complaint

Citizen Services

Prosecution

Search & Query

Help / FAQs

Registration

- First Information Report (IIF-1)
- Non Cognizable Report(NCR)
- Dead Animal/Carcass Registration
- Medico Legal Case (MLC)

Databank

- Missing Person
- Lost Property
- Missing Cattle
- Unidentified Dead Body / Unnatural Death

Registers

- Police Control Room
- Foreigner Registration
- C-Form
- Preventive Action

Malkhana Data

- Unclaimed / Abandoned Property
- Stranger Roll
- Fire Incident

Registration of Unclaimed / Abandoned Property

Search & View Unclaimed / Abandoned Property

Disclaimer: User will be liable for any false information entered in the system.

cas.ctns.gov.in:8080/cctns/indexsys.htm?stov=1&BU-UO2-J5-N1F2-H292-EV19-P8-I1-3720-9MTC

उपर दी गयी screen के अनुसार click करने के बाद new window open होगी जिसमें 4 tabs होंगे :- General Information, Property Details, Witness Details और Place Details.

- **Unclaimed/Abandoned Property -> General Information :-** इस tab में GD No. search करने के बाद उस GD को select करके OK button पर click करेंगे Act or Section भी display हो जायेगा ।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Registration of Unclaimed / Abandoned Property

Registration of Unclaimed / Abandoned Property

General Information | Property Details | Witness Details | Place Details | Person From whom the property is recovered

Date of Preparation of Seizure Memo: 26/11/2018 14:58:56

GD / SD / DD Number*

GD Date: DD/MM/YYYY HH:MM

Acts* -----Select-----

Sections* -----Select----- Add

S.No.	Acts	Sections
-------	------	----------

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Registration of Unclaimed / Abandoned Property

Registration of Unclaimed / Abandoned Property

General Information | **Property Details** | Witness Details | Place Details | Person From whom the property is recovered

Property Seized

S.No.	Property Category	Property Name	Nature of property	Estimated Value(Lost / Stolen / Involved)(in INR)	Estimated Value(Seized / Recovered)(in INR)	Edit
-------	-------------------	---------------	--------------------	---	---	------

Add New

Property details :- इस form में Add New पर click करेंगे ।

Submit Close

Property Information

Property Category* -----Select-----

Property Nature* -----Select-----

Property Belongs To* -----Select-----

Is Property Perishable/Non-Perishable: Perishable Non Perishable

Action Taken

Identification Required* Yes No

Signature Obtained on the Packet or the Body of the Property: Packet Body

इस form में Add New पर click करते ही यह form खुलता है इसमें Unclaimed/Abandoned Property की Information type की जाती है और अंत में Save बटन पर click करेंगे ।

Clear

Save Close

- **Unclaimed/Abandoned Property -> Witness Details :-** Witness की details लिखने के लिए “Add New” button पर click करें ।

Add New Button पर Click करने पर नई window open होगी । इस window में General Information और Statements type करें |

Witness की General information और statements की जानकारी लिखने के बाद save button पर click करें ।

- **Unclaimed/Abandoned Property -> Place Details :-** इस tab में Place की Detail type करें ।

General Information	Property Details	Person From whom the property is recovered	Witness Details	Place Details
Date and Time of Property Seized/Recovered	23/11/2018 05:20			Description of Place from Property Seized/Recovered
Place from Property Seized / Recovered	Outer Circle Opposite Regal			कामज दिखलाने के बहाने बिना नाम पता बतलाये MOTERCYCLE को छोड़ कर चला गया। जिसका काफी देर इंतजार किया गया जो नहीं आया।
State	DELHI			
District	NEW DELHI			
Police Station	CONNAUGHT PLACE			
Circumstances or grounds for seizure(Brief Facts)	कामज दिखलाने के बहाने बिना नाम पता बतलाये MOTERCYCLE को छोड़ कर चला गया। जिसका काफी देर			Remarks

➤ **Person from whom the property is recovered** :- इस tab में जिस व्यक्ति से property बरामद हुई है उसकी detail भरें।

सभी tabs में information type के बाद “submit” button पर click करें।



4.10.2. Search and View Unclaimed / Abandoned Property

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Unclaimed/Abandoned Property » Search & View Unclaimed/Abandoned Property

Unclaimed Property Search and View **WARNING : Framing incorrect record is an offense punishable u/s 218 IPC**

Unclaimed/Abandoned Property No: Police Station: CONNAUGHT PLACE

Registration Date Range(DD/MM/YYYY): 01/05/2018 to 04/12/2018

Act And Section
 Acts: ----Select----
 Sections: ----Select----

Most Recent Unclaimed Property Nos

Sl. No.	Unclaimed Property No	Registration Date
1	00112/2018	23/11/2018
2	00111/2018	13/10/2018

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Unclaimed / Abandoned property » Unclaimed Property Search & View

Search & View Details of Unclaimed & Abandoned Property Mandatory Fields

General Information | Property Details | Person From whom the property is recovered | Witness Details | Place Details

G.D No: 005 GD Date / Time: 23/11/2018 05:24

Date of Preparation of Seizure Memo: 23/11/2018 00:00

Sl. No.	General Diary Type	Acts	Sections
1	Unclaimed Property	DELHI POLICE ACT 1978	66(1)(B)

Search and View Unclaimed/Abandoned Property को search करके Print के option पर click करके print निकाल सकते है ।

Print Close

4.11. Stranger Roll

The screenshot shows a dashboard with various menu items. The 'Registration' menu is expanded, and 'Stranger Roll' is highlighted. A sub-menu is visible for 'Stranger Roll' with the following options:

- Preparation of Stranger Roll
- Assigning of Enquiry Officer
- Submission of Enquiry Report
- Remarks by SHO
- Review & Save Details of Stranger Roll

Other visible menu items include: General Diary, Complaint, Citizen Services, Prosecution, Search & Query, Help / FAQs, Databank, Registers, and Malkhana Data.

- उपर दी गई screen से Preparation of Stranger Roll वाला radio button select करने पर नीचे दिये गये 4 tabs General Information, Identification, Address और Physical Description में एक-एक करके सभी tabs में information type करें।

4.11.1. Preparation of Stranger Roll

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करने पर नीचे दी गई window open हो जाएगी।

- **General Information :-** इस tab में suspect person की Personal information type करे।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Stranger Roll » Preparation of Stranger Roll

Preparation of Stranger Roll

General Information | Other Information | Address | Physical Description

UID

First Name*

Middle Name

Last Name

Gender*

Relation Type*

Relative Name*

Date of arriving*

Number of days stranger intends to stay

Activities/suspicious conduct(as observed by local police/public)

Information given by neighbours/Others

Remarks

Reason of arriving*

Maximum character input limit : 500

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Stranger Roll » Preparation of Stranger Roll

Preparation of Stranger Roll

General Information | Other Information | Address | Physical Description

ID Type

Identification Number

S.No. ID Type ID No. Place of Issue Date of Issue Delete

1	AADHAR CARD(UIDA)	123456789098			<input type="text" value="X"/>
---	-------------------	--------------	--	--	--------------------------------

इस form में other information type की जाती है।

- **Address :-** इस tab में Suspect Person के Address की details को type करें।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Stranger Roll » Preparation of Stranger Roll

Preparation of Stranger Roll

General Information | Other Information | Address | Physical Description

Permanent Address

House No.

Street Name

Colony / Locality / Area

Village / Town / City*

Tehsil / Block / Mandal

Present Address* Same as Permanent Yes No

Country*

State*

District*

Police Station*

Pincode

Clear

- **Physical Description :-** इस tab में suspect person की physical description की information डालें। इसके लिए दो tabs दिये गये है General और Other information जिसमें एक-एक करके information type करें।

इसमें सभी 4 tabs type करगे और अंत में records को save करने के लिए "Submit" button पर Click करें।

4.11.2. Preparation of Stranger Roll -> Assigning of Enquiry Officer

- Stranger Roll, SHO/DO अपनी ID से system को on करेंगे और उसके बाद stranger roll को verify कराने के लिए EO/Enquiry officer को Mark/Assign करेंगे।

CCTNS
Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Sunil KUAMR
Date 27/11/2018
Login Time 11:23
NEW!! 79 PCR CALLs are pending

State DELHI
District CENTRAL
Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Stranger Roll

Assigning of Enquiry Officer (Stranger Roll)

Pending Stranger Roll Registration

S.No.	Request ID	Date	Brief
1	0033/2018		
2	0113/2018		
3	0073/2018		
4	0063/2018		
5	0033/2018		

- उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नीचे दी गई window open हो जाएगी। अब जिस Stranger Roll के लिए EO assign करना है उसके Request ID पर Click करें।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Stranger Roll » Assigning Enquiry Officer

Assigning of Enquiry Officer (Stranger Roll) Stranger Roll Registration Number: 0113/2018

Assigning Enquiry Officer for the Registered Stranger

Name of Enquiry Officer* SI (Sub-Inspector)/ HAN... Date of Receiving the Application 20/12/2018

Submit Clear Close

General Information Address Identification Physical Description

UID
First Name Rahul
Middle Name
Last Name Singh
Gender Male
Relation Type Father

Activities/suspicious conduct(as observed by local police/public)
Information given by neighbours/Others

- Request ID पर Click करते ही ऊपर दी गई window open हो जाएगी जिसमें “Enquiry Officer” का नाम select करें और “Submit” button पर Click करें।

4.11.3. Preparation of Stranger Roll -> Submission of Enquiry Report

Registration
Databank
Registers
Maikhana Da

First Information Report (IIF-1)
Non Cognizable Report(NCR)
Medico Legal Case (MLC)
Missing Person
Lost Property
Missing Cattle
Unidentified Dead Body / Unnatural Death
Police Control Room
Foreigner Registration
C-Form
Preventive Action
Unclaimed / Abandoned Property
Stranger Roll
Fire Incident
Un-Identified Person

Prosecution
Search & Query
Help / FAQs

Preparation of Stranger Roll
Assigning of Enquiry Officer
Submission of Enquiry Report
Remarks by SHO
Review & Save Details of Stranger Roll

Disclaimer: User will be li
This website belongs to N

Stranger Roll -> Submission of Enquiry report submit करने के लिए Enquiry officer अपनी ID से Login करेंगे ।

- उपर दी गयी screen के अनुसार Click करने के बाद नीचे दी गई window open हो जाएगी ।
- अब Stranger Roll के Request ID पर Click करें Click करते ही नीचे दी गई window open हो जाएगी ।

S.No.	Request ID	Date	Brief
1	0113/2018	20/12/2018	

1 go Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 1 of 1 Records per page 5

- Enquiry officer, Stranger Roll से संबन्धित enquiry detail नीचे दी हुई window में Enquiry details में type करें । यदि उस व्यक्ति का criminal record है तो **Yes** option को select करें जिसके बाद नीचे दी हुई window खुलकर आएगी, जिसमें Details of the Criminal Records में उस व्यक्ति की Involvement Type करने के बाद (यदि कोई है तो) "Submit" करें ।

Enquiry Details

Enquiry Report Submission

Enquiry Details* (Please enter the details of Police Officer, GD Date, Regarding Physical Enquiry) He is involved in case FIR No. 12/16, 17/17 u/s 354 IPC
944 character left

Date of Enquiry Submission* 31/10/2017

Has a criminal record?* Yes No

Enter Details of Involvements* He is involved in case FIR No. 12/16, 17/17 u/s 354 IPC

Criminal Id
Dossier Id
PID
PIN
TIN
Enquiry From Record* Yes No

General Information | Address | Identification | Physical Description | Previous Enquiry Details


UID
Date Of Preparation 07/09/2017
First Name LALAU PARSHD
Middle Name YADAV
Last Name
Alias Name
Gender Male
Caste / Tribe

Date of Birth
Age (Year/Month) 57
Year Of Birth 1960
Relation Type
Relative Name
Contact Number
Date of arriving
Arbitration/mediation


Submit **Close**

4.11.4. Preparation of Stranger Roll -> Remarks by SHO

EO के Enquiry Report Submit करने के बाद SHO अपने ID से Login करेंगे ।



उपर दी गयी screen के अनुसार Click करने के बाद नीचे दी हुई window open हो जाएगी जिसमें Stranger Roll के Request ID पर Click करें ।



Request ID पर Click करते ही नीचे दी गई Window open हो जाएगी जिसमें SHO अपना Remarks लिखें और अंत में "Submit" button पर click करें ।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Stranger Roll » Remarks by SHO

Remarks by SHO Stranger Roll Registration Number: 0123/2018

Remarks by SHO of Permanent PS

Remarks* He is involved in case FIR No.. 72/12 , 10/18 under section 354IPC
434 character left

General Information | Address | Identification | Physical Description | Enquiry Details

UID: _____
 First Name: Shoaib
 Middle Name: _____
 Last Name: _____
 Gender: Male
 Relation Type: Father

Submit Close

Activities by local
 Information given by neighbours/Others

4.11.5. Review and Save Details of Stranger Roll

Review करने के लिए यहाँ पर click करें

General Diary | Complaint | Citizen Services | Prosecution | Search & Query | Help / FAQs

Registration: First Information Report (IF-1), Non Cognizable Report(NCR), Medico Legal Case (MLC), Missing Person, Lost Property, Missing Cattle, Unidentified Dead Body / Unnatural Death, Police Control Room, Foreigner Registration, C-Form, Preventive Action, Unclaimed / Abandoned Property

Stranger Roll: Preparation of Stranger Roll, Assigning of Enquiry Officer, Submission of Enquiry Report, Remarks by SHO, Review & Save Details of Stranger Roll

Calendar: Nov 2018

Alerts & Reminders: Show Alerts & Reminders Yes No

- उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नीचे दी हुई window खुलेगी । जिसमें Stranger Roll के Request ID पर click करें ।

CCTNS Crime and Criminal Tracking Network and Systems

Welcome Siddharth Malhotra
 Date 27/11/2018
 Login Time 11:42
 NEW!! 79 PCR CALLS are pending

State DELHI
 District CENTRAL
 Police Station KAMLA MARKET

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Stranger Roll

Review & Save Details of Stranger Roll

Pending Stranger Roll Registration


S.No.	Request ID	Date	Brief
1	0773/2017	14/03/2017	

1 go Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 1 of 1 Records per page 5

- Request ID पर Click करने के बाद नीचे दी हुई window खुलेगी जिसमें “Whether verified” के Combo box (Verified, Not Adverse, Verified with Criminal records) से किसी एक को select करेंगे और यदि EO/DO/SHO कोई direction देता है तो Direction issued to EO/DO/SHO में type करने के बाद “Submit” button पर click करें ।

- Submit करने के बाद Stranger Roll जिस police station से prepare/issue हुई थी वहाँ के SHO/DO के Dash board में दिखेगा, Stranger Roll का Print Out लेने के लिए Registers पर click करके State Register पर Click करें जो नीचे दर्शाया गया है ।

- State Register पर Click करने के बाद नीचे दी गई Window खुलकर आएगी । जिसमें बारी-बारी window में दिये हुए option select करने के बाद “View Register” पर Click करें ।
- View Register पर Click करने के बाद नीचे दी हुई Window खुलकर आ जाएगी । उसके बाद “Save as PDF या Export to Excel” पर click करने के बाद आप Print out ले सकते हैं ।



Stranger Roll Register

Period Of Report:02/12/2018-04/12/2018

State: DELHI District:CENTRAL PS.:KAMLA MARKET

Office Type / Office Name	Suspected Stranger Roll Number And Date	Name Of Stranger,Relation Type And Relative's Name	Gender And Age/ Date Of Birth Of Stranger	Identity Type Of Stranger And Identity No.	Present Address, Permanent Address And Dist & PS At permanent Address	Date Of Arrival And Reasons Of Arrival Of Stranger At Present Address	Date Of Receipt Application At P
SHAKARPUR MARKET(CENTRAL)	0002/04-12-2018	Mukesh /Father/Kamal	Male/-	Any Other/1234567	Present Address:12A, Laxmi Nagar, Delhi, SHAKARPUR, EAST, DELHI, INDIA / Permanent Address:12A, Laxmi Nagar, Delhi, SHAKARPUR, EAST, DELHI, INDIA / EAST / SHAKARPUR	03-12-2018/For shopping at Connaught Place New Delhi	04-12-2018
SHAKARPUR MARKET(CENTRAL)	0003/04-12-2018	Vivek /Father/Kamal	Male/-	AADHAR CARD(UIDAI)/123456789098.AADHAR CARD(UIDAI)/123456789098	Present Address:12A, Laxmi Nagar, Delhi, SHAKARPUR, EAST, DELHI, INDIA / Permanent Address:12A, Laxmi Nagar, Delhi, SHAKARPUR, EAST, DELHI, INDIA / EAST / SHAKARPUR	02-12-2018/लिफ्ट वरनि के लिए कनाट प्लेस म् दिल्ली आया था।	04-12-2018


Total Pages: 1 Displaying records From 1 To 2 of 2 Records per page: 50

Save as PDF Export to Excel Close

4.12. Fire Incident

सबसे पहले एक GD बनाई जाएगी General Diary में Add General Diary Detail में click करें उसके बाद सारी जानकारी खुली हुई window में type करें ।


4.12.1. Registration of Fire Incident



The screenshot shows a software interface with a sidebar menu on the left. The 'Registration' option is highlighted with a red box. A dropdown menu is open under 'Registration', showing options like 'First Information Report (IF-1)', 'Non Cognizable Report(NCR)', 'Medico Legal Case (MLC)', 'Missing Person', 'Lost Property', 'Missing Cattle', 'Unidentified Dead Body / Unnatural Death', 'Police Control Room', 'Foreigner Registration', 'C-Form', 'Preventive Action', 'Unclaimed / Abandoned Property', 'Stranger Roll', 'Fire Incident', and 'Un-Identified Person'. The 'Fire Incident' option is also highlighted with a red box. A sub-menu is open for 'Fire Incident', showing options: 'Registration of Fire Incident', 'Assigning Enquiry Officer by SHO', 'Add Enquiry Report', and 'Review of Enquiry Report'. The 'Registration of Fire Incident' option is highlighted with a red box. Other menu items include 'General Diary', 'Complaint', 'Citizen Services', 'Prosecution', 'Search & Query', 'Help / FAQs', 'Databank', 'Registers', and 'Malkhana Database'. A calendar and 'Alerts & Reminders' section are visible on the right.

➤ उपर दी गयी screen पर Click करने पर नीचे दी गई Window open हो जाएगी। इस window में 3 tab है **Complainant, Incident & Accused** जिसमें आप Fire Incident से related information भरेंगे।

➤ **Fire Incident -> Complainant** :- इस tab में complainant की Personal information और Address की जानकारी type करेंगे।




The screenshot shows the CCTNS interface for the 'Registration of Fire Incident' under the 'Complainant' tab. The header includes the CCTNS logo, user details (Welcome Bhawani Singh, Date 04/12/2018, Login Time 13:02), and location (State: DELHI, District: CENTRAL, Police Station: KAMLA MARKET). A navigation bar contains links like Home, General Diary, Complaint, etc. The main content area has tabs for 'Complainant', 'Incident', and 'Accused'. Under 'Complainant', there are sub-tabs for 'Personal Information' and 'Address'. The 'Personal Information' sub-tab is active, showing fields for UID, First Name, Middle Name, Last Name, Gender of the Informant, Landline No., Mobile No., and a Category dropdown menu.





This screenshot shows the 'Address' sub-tab within the 'Complainant' tab. It contains fields for Permanent Address (House No., Street Name, Colony/Locality/Area, Village / Town / City, Tehsil / Block / Mandal) and Present Address (with radio buttons for 'Same as Permanent', 'Yes', and 'No'). On the right, there are dropdown menus for Country (INDIA), State (DELHI), District (SOUTH), and Police Station (DEFENCE COLONY), along with a Pincode field.

➤ **Fire Incident -> Incident** :- Incident की information इस tab में भरें यदि incident से संबंधित कोई भी कागजात upload करना है तो नीचे दी हुई window में "Browse" करके upload कर सकते हैं।



The screenshot shows the 'Incident' tab in the CCTNS interface. The header and navigation bar are similar to the previous screenshots. The 'Incident' tab is active, showing fields for 'Is time of Incident' (Known/Unknown), 'From Date/Time', 'To Date/Time', 'Date/Time of Reporting', 'GD Entry No.', 'Date', 'Type of Location', and 'Place of Incident'. There is a 'Brief of Incident' text area. At the bottom, there is a table for 'Upload Document(s)' with columns for S No., File Name, File type, File sub type, Description, and Delete. A 'Submit' button is visible at the bottom right.

- **Fire Incident ->Accused :-** इस tab में Accused/Suspect की information भरेंगे इसके लिए “Add new” button पर Click करने के बाद नई Window open होगी |




Accused/Suspect से संबंधित सूचना type करने के बाद save करने के लिए “Save button” पर Click करें । सभी tabs में information भरने के बाद “submit” button पर click करें ।


4.12.2. Assigning Enquiry Officer by SHO



- Fire Incident में EO Assign करने के लिए SHO अपनी ID से login करेंगे और उपर दी गई screen पर Click करते ही नीचे दी गई window open हो जाएगी जिसमें Fire incident के request ID (request number) पर Click करें ।




Click करने के बाद नीचे दी गई window खुलकर आएगी जिसमें Name of Enquiry Officer और Designation of enquiry officer को select करें और अंत में "Submit" button पर click करें ।



4.12.3. Fire Incident -> Add Enquiry Report

Fire Incident की enquiry report Add करने के लिए EO अपनी ID से login करेंगे ।



उपर दी गई screen पर Click करने पर नीचे दी गई Window खुलेगी जिसमें Request ID पर Click करें या EO Pending Fire Incident Registration No. पर भी Click करेगा ।

The screenshot shows the 'Add Enquiry Report(Fire Incident)' form. The 'Enquiry Details' section contains a text box with the following text: "BSES की लापरवाही से कमला मार्केट में आग लगी थी इसमें हालात से नौका मुलाहिजा से सरेस्ट सुलत जुर्म 336 IPC का होना पाया जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि FIR register करने की अनुमति दी जाये।". Below this, the 'Whether Cognizance or Not?' field is circled in red, with radio buttons for 'Yes' and 'No'. A text box explains: "यहाँ पर Add Enquiry रिपोर्ट ऑफ Fire Incident में IO अपनी Enquiry की details type करेगा अगर enquiry detail में मुकदमा बनता है तो Yes पर click करें और उसके बाद और अंत में Submit Button पर click करेगा।". The 'Submit' button is highlighted with a red box. The form also includes fields for 'Complainant' (Incident, Accused), 'Personal Information' (UID, First Name, Middle Name, Last Name, Category), and 'Address' (Landline No., Mobile No.).


The screenshot shows the 'Add Enquiry Report(Fire Incident)' form with a success message: "Enquiry report submitted successfully". Below this is a table titled 'Pending Fire Incident Registration'.

S.No.	Request ID	Date	Brief
1	0002/2019	11/01/2019 15:14	At this time one call received in Police Station regarding Fire incident in Kamla Market


Submit Button पर click करने पर ऊपर वाली Window खुलती है इसमें लिखा आता है Enquiry Report Submitted Successfully.

4.12.4. Review of Enquiry Report

Enquiry report को review केवल SHO ही कर सकते हैं।




उपर दी गयी screen पर Click करने पर नीचे दी हुई Window खुलेगी जिसमें Request ID पर Click करें।



Submit Button पर click करने पर ऊपर वाली Window खुलती है उसमें (Fire incident Registration) में SHO द्वारा submit की गई Review of Enquiry रिपोर्ट का No. दिखता है और Click here to Print का option आता है।

4.13. Un-identified Found Person

सबसे पहले एक GD बनाई जाएगी General Diary में Add General Diary Detail में click करें उसके बाद सारी जानकारी खुली हुई windows में type करें ।



4.13.1. Registration of Un-identified Found Person



- उपर दी गयी screen के अनुसार Click करने पर एक नई Window open होगी इसमें 4 Tabs है General Description, Informant detail, Unidentified Found Person Description और Other Details.

- **General Description :-** Click करते ही नीचे दी गई Window खुलकर आएगी जिसमें information type करे इसमें Informant Details में तमाम information type की जाएगी ।

Registration of Unidentified Found Person

General Details Informant Detail Unidentified Found Person Description Other Details

GD / SD / DD Number* 002 06/12/2018 11:11

Enquiry / Investigation Officer* SI (Sub-Inspector)/ HAN

Place where Found* Kamla Market main park

Date/Time of Information* 06/12/2018 11:00

Source of Information Public

Reasons for not being Identified* Mentally Unsound

Mode of information* In-Person

Rank of Enquiry Officer SI (Sub-Inspector)

Found Date / Time* 06/12/2018 10:52

Detail of Information* एक व्यक्ति जिसका मानसिक समतुलन सही नहीं है कमला मार्केट में सड़क पर गड़ियों के अग्रे पीछे घूम रहा था जिसको धरने में

If others, Please specify

Submit Close

इस form में Un-identified Found Person General Detail की तमाम information type की जाएगी ।

This website belongs to National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India

Registration of Unidentified Found Person

General Details Informant Detail Unidentified Found Person Description Other Details

Is the Person brought by the Police officer*

Personal Information Address

Permanent Address

House No.

Street Name

Colony / Locality / Area

Village / Town / City

Tehsil / Block / Mandal

Present Address Same as Permanent Yes No

Police Station KAMLA MARKET

Pincode

INDIA

DELHI

CENTRAL

इसमें Informant Detail में Informant का personal information और Address टाइप किया जाएगा ।

- **Unidentified found Person Description :-** इस tab में unidentified person की information type करे ।

Registration of Unidentified Found Person

General Details Informant Detail Unidentified Found Person Description Other Details

Body Build Type

Body Complexion Type

Height Range From* feet Inch Height(cm)

Height Range To* feet Inch Height(cm)

Gender* Select

Age Panel

Date of Birth

Age (Year / Month)

Year of birth

Age Range (From-To)

Reset

General Other Information

इस form में मैं unidentified person की information type करेगे ।

- **Unidentified found Person Description-> Other Details** :- इस tab में दिये गये fields में information type करेंगे ।

- **Unidentified found Person** -> इसमें 4 Tabs है General Description , Informant detail , Unidentified Found Person Description और Other Details इन सभी को type करके अंत में Submit button पर Click करते है ।

4.13.2. Search and View Un-identified Person Details

उपर दी गयी screen के अनुसार Click करने पर एक नई window open हो जाएगी जिसमें पहले दिये गए option के माध्यम से Unidentified person की Registration को search करते है और details देखने के लिए Registration No. पर click करें ।

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Unidentified Person » Search and View details of Un-Identified Found Person

Search and View details of Un-Identified Found Person

Unidentified Found Person No.

Date Range

Name of Informant

Police Station

S.No.	Unidentified Found Person No.	Date
1	00002/2019	03/01/2019
2	00001/2019	01/01/2019
3	00002/2018	12/12/2018
4	00001/2018	06/12/2018

1 | 00 | Total Pages: 1 | Displaying records From 1 To 4 of 4 | Records per page: 5

Home | General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Investigation | Prosecution | Reports | DataBank Services | Registers | Search & Query

Home » Registration » Unidentified Person » Search and View details of Un-Identified Found Person

Search and View details of Un-Identified Found Person Unidentified Found Person No.: 00002/2019

General Details | Informant Detail | Unidentified Found Person Description | Other Details | Previous Enquiry Details | Action Taken

Body Build Type

Body Complexion Type

Height Range From c.m

Height Range To c.m

Gender

Age Panel

Date of Birth

Age (Year / Month)

Year of birth

Age Range (From-To)

इस form के द्वारा Un-identified Person के Registration को search करते है Print button पर click करके इसका Print निकाल सकते है।

General | Other Information

4.13.3. Add Enquiry details of Un-Identified Found Person

Calendar: Nov 2018

Alerts & Reminders: Show Alerts & Reminders Yes No

General Diary | Complaint | Citizen Services | Registration | Prosecution | Search & Query | Help / FAQs | NDC

Registration: First Information Report (IF-1), Non Cognizable Report(NCR), Medico Legal Case (MLC), Missing Person, Lost Property, Missing Cattle, Unidentified Dead Body / Unnatural Death, Police Control Room, Foreigner Registration, C-Form, Preventive Action, Unclaimed / Abandoned Property, Stranger Roll, Fire Incident, Un-Identified Person

Registration of Un-Identified Found Person: Search and View details of Un-Identified Found Person, Add enquiry details of Un-Identified Found Person, Change Enquiry Officer of Unidentified Person Found

ctns.gov.in:8080/ctns/indexsys.htm?stov=BWDP-N741-P2N5-HRPZ-8QWH-RH7G-8EMM-HCFM

- उपर दी गयी screen के अनुसार Click करते ही नीचे दी हुई window खुलेगी जिसमें Unidentified Found Person No. या Date Range के माध्यम से जिस Un-identified Person की Enquiry details add करनी है उसे search करें और फिर Un-identified Found Person No. पर Click करने के बाद EO द्वारा Enquiry Details type की जाएगी अंत में Submit Button पर click करेंगे ।

Add Enquiry Details of Unidentified Found Person * Mandatory Field

Enquiry Details

Unidentified Person Registration No. Details of Enquiry*

Name of Enquiry Officer

Date of Enquiry*

Is Person Identified? * Yes No

Search and View details of Un-Identified Found Person Unidentified Found Person No.: 000012018

General Details | Informant Detail | Unidentified Found Person Description | Other Details | Previous Enquiry Details

G.D No	002 06/12/2018 11:17:	Mode of information	In-Person
Enquiry / Investigation Officer	HANSI BISHT	Rank of Enquiry Officer	SI (Sub-Inspector)
Place where Found	Kamla Market main park	Found Date / Time	06/12/2018 10:52:00

- इस Window में SHO अपनी ID से Review and Action Taken on Enquiry Report by SHO of Un-identified Person Found में Action Taken* और Description को type करेंगे और अंत में Submit button पर click करेंगे ।

Review & Action Taken on Enquiry Report by SHO of Unidentified Person Found Unidentified Found Person No.: 000012018

Review & Action Taken

Action Taken*

Description

Upload Document(s) (Maximum file size limit-200 kb)


S.No.	File Name	File type	File sub type	Description
1	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.	-----Select-----	-----Select-----	

General Details | Informant Detail | Unidentified Found Person Description | Other Details | Previous Enquiry Details

G.D No	002 06/12/2018 11:17:	Mode of information	In-Person
Enquiry / Investigation Officer	HANSI BISHT	Rank of Enquiry Officer	SI (Sub-Inspector)
Place where Found	Kamla Market main park	Found Date / Time	06/12/2018 10:52:00

4.13.4. Change Enquiry Officer of Unidentified Person Found

नीचे वाली window के option पर click करके एक नई window खुलेगी ।



इस window में enquiry officer को change करने का option CCTNS application में SHO का USER ID से system को खोलकर change करने का option आता है जिस नए Enquiry Officer को UFP की enquiry देनी है उसका नाम SHO द्वारा select किया जाता है और Reason for change को type किया जाता है तथा अंत में Submit button पर click किया जाता है ।

Change Enquiry Officer of Unidentified Person Found		Unidentified Found Person No: 000012018	
Change Enquiry Officer			
Name of the enquiry officer	HANSI BISHT	New Enquiry Officer*	Bhawani Singh
Rank of the Enquiry Officer	SI (Sub-Inspector)	Rank of the new Enquiry Officer	SI (Sub-Inspector)
Number of Enquiry Officer	3148/D	Number of the New Enquiry Officer	D-5462
Reason for change*	Previous IO transfer Maximum character input limit : 79		
Submit Close			
General Details Informant Detail Unidentified Found Person Description Other Details Previous Enquiry Details			
G.D No	002_06/12/2018 11:17:	Mode of information	In-Person
Enquiry / Investigation Officer	HANSI BISHT	Rank of Enquiry Officer	SI (Sub-Inspector)
Place where Found	Kamla Market main park	Found Date / Time	06/12/2018 10:52:00
Date/Time of Information	06/12/2018 11:00:00	Detail of Information	एक व्यक्ति जिसका मानसिक समतुलन सही नहीं है कमला
Source of Information	Public		

Notes

Notes

